

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली



क्रम सख्या

४१५०

काल न०

२८१

जुलै

खण्ड

राजस्थान भारती प्रकाशन

हम्मिरायण

भूमिका लेखक

डा० दशरथ शर्मा एम० ए० डी० लिट्

सम्पदिका

भँवरलाल नम्र



प्रकाशक

साद्वृत्त राजस्थानी रिसर्च-इन्स्टीट्यूट

बीकानेर ।

प्रथमावृत्ति १०००]

स० २०१०

[मूल्य ३]

प्रकाशक

श्री लालचंद कोठारी

सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट

बीकानेर

मुद्रक

श्री शोभाचंद सुराणा

रेफिल आर्ट प्रेस

३१, बड़तहा स्ट्रीट, कलकत्ता-७

फोन : ३३-७९२३ ,

प्रकाशकीय

श्री सादूल राजस्थानी रिसर्च-इन्स्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना सन् १९४४ मे बीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री के० एम० पणिककर महोदय की प्रेरणा से, साहित्यानुरागो बीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूलसिंहजी बहादुर द्वारा सस्कृत, हिन्दी एव विशेषतः राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्थानी भाषा के सर्वाङ्गीण विकास के लिये की गई थी।

भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विद्वानो एवं भाषाशास्त्रियो का सहयोग प्राप्त करने का सौभाग्य हमे प्रारम्भ से ही मिलता रहा है।

संस्था द्वारा विगत १६ वर्षों से बीकानेर मे विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तिया चलाई जा रही हैं, जिनमे से निम्न प्रमुख है—

१. विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश

इस सम्बन्ध मे विभिन्न स्रोतो से संस्था लगभग दो लाख से अधिक शब्दो का संकलन कर चुकी है। इसका सम्पादन आधुनिक कोशो के ढंग पर, लंबे समय से प्रारम्भ कर दिया गया है और अब तक लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो चुके हैं। कोश मे शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके अर्थ और उदाहरण आदि अनेक महत्वपूर्ण सूचनाए दी गई हैं। यह एक अत्यन्त विशाल योजना है, जिसकी सन्तोषजनक क्रियान्विति के लिये प्रचुर द्रव्य और श्रम की आवश्यकता है। आशा है राजस्थान सरकार की ओर से, प्राथित द्रव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही निकट भविष्य मे इसका प्रकाशन प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

२. विशाल राजस्थानी मुहावरा कोश

राजस्थानी भाषा अपने विशाल शब्द भंडार के साथ मुहावरो से भी समृद्ध है। अनुमानतः पचास हजार से भी अधिक मुहावरे दैनिक प्रयोग में लाये जाते हैं। हमने लगभग दस हजार मुहावरो का, हिन्दी मे अर्थ और राजस्थानी में उदाहरणो सहित प्रयोग देकर सम्पादन करवा लिया है और शीघ्र ही इसे प्रकाशित करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। यह भी प्रचुर द्रव्य और श्रम-साध्य कार्य है।

यदि हम यह विशाल सग्रह साहित्य-जगत को दे सके तो यह संस्था के लिये ही नहीं किन्तु राजस्थानी और हिन्दी जगत के लिये भी एक गौरव की बात होगी ।

३. आधुनिक राजस्थानी रचनाओं का प्रकाशन

इसके अतर्गत निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं:—

१. कळायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नानूराम संस्कर्ता ।
२. आभै पटकी, प्रथम सामाजिक उपन्यास । ले० श्री श्रीलाल जोशी ।
३. वरस गांठ, मौलिक कहानी सग्रह । ले० श्री मुरलीधर व्यास ।

‘राजस्थान-भारती’ में भी आधुनिक राजस्थानी रचनाओं का एक अलग स्तम्भ है, जिसमें भी राजस्थानी कवितायें, कहानियाँ और रेखाचित्र आदि छपते रहते हैं ।

४. ‘राजस्थान-भारती’ का प्रकाशन

इस विख्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन संस्था के लिये गौरव की वस्तु है । गत १४ वर्षों से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । बहुत चाहते हुए भी द्रव्याभाव, प्रेस की एवं अन्य कठिनाइयों के कारण, त्रैमासिक रूप से इसका प्रकाशन सम्भव नहीं हो सका है । इसका भाग ५ अंक ३-४ ‘डा० लुइजि पित्रो तैस्मितीरी विशेषांक’ बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सामग्री से परिपूर्ण है । यह अंक एक विदेशी विद्वान की राजस्थानी साहित्य सेवा का एक बहुमूल्य सचित्र कोश है । पत्रिका का अगला ७वां भाग शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है । इसका अंक १-२ राजस्थानी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि पृथ्वीराज राठोड का सचित्र और वृहन् विशेषांक है । अपने ढंग का यह एक ही प्रयत्न है ।

पत्रिका की उपयोगिता और महत्व के संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इसके परिवर्तन में भारत एवं विदेशों से लगभग ८० पत्र-पत्रिकाएँ हमें प्राप्त होती हैं । भारत के अतिरिक्त पाश्चात्य देशों में भी इसकी मांग है व इसके आहक हैं । शोधकर्ताओं के लिये ‘राजस्थान-भारती’ अनिवार्यतः सग्रहणीय शोध-पत्रिका है । इसमें राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला आदि पर लेखों के अतिरिक्त सस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास स्वामी और श्री अमरचंद नाहटा की वृहत् लेख सूची भी प्रकाशित की गई है ।

५. राजस्थानी साहित्य के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुसंधान, सम्पादन एवं प्रकाशन

हमारी साहित्य-निधि की प्राचीन, महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को सुरक्षित रखने एवं सर्वसुलभ कराने के लिये सुसम्पादित एवं शुद्ध रूप में मुद्रित करवा कर उचित मूल्य में वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है। संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुसंधान और प्रकाशन सस्या के सदस्यों की धोर से निरंतर होता रहा है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है—

६. पृथ्वीराज रासो

पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण प्रकाश में लाये गये हैं और उनमें से लघुतम संस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुछ अंश 'राजस्थान-भारती' में प्रकाशित किया गया है। रासो के विविध संस्करण और उसके ऐतिहासिक महत्व पर कई लेख राजस्थान-भारती में प्रकाशित हुए हैं।

७. राजस्थान के अज्ञात कवि जान (न्यामतखा) की ७५ रचनाओं की खोज की गई। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी 'राजस्थान-भारती' के प्रथम अंक में प्रकाशित हुई है। उनका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 'काव्य क्यामरासा' तो प्रकाशित भी करवाया जा चुका है।

८. राजस्थान के जैन संस्कृत साहित्य का परिचय नामक एक निबंध राजस्थान-भारती में प्रकाशित किया जा चुका है।

९. मारवाड़ क्षेत्र के ५०० लोकगीतों का संग्रह किया जा चुका है। बीकानेर एवं जैसलमेर क्षेत्र के सैकड़ों लोकगीत, घूमर के लोकगीत, बाल लोकगीत, लोरियाँ, और लगभग ७०० लोक कथाएँ संग्रहीत की गई हैं। राजस्थानी कहावतों के दो भाग प्रकाशित किये जा चुके हैं। जीणमाता के गीत, पाडूजी के पवाडे और राजा भरथरी आदि लोक काव्य सर्वप्रथम 'राजस्थान-भारती' में प्रकाशित किए गए हैं।

१०. बीकानेर राज्य के और जैसलमेर के अग्रप्रकाशित अभिलेखों का विशाल संग्रह 'बीकानेर जैन लेख संग्रह' नामक बृहत् पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुका है।

११. जसवंत उद्योत, मुहना नैणसी री ख्यात और अनोखी भान जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों का सम्पादन एवं प्रकाशन हो चुका है ।

१२. जोधपुर के महाराजा मानसिंहजी के सचिव कविवर उदयचन्द भडारी की ४० रचनाओं का अनुसन्धान किया गया है और महाराजा मानसिंहजी की काव्य-साधना के सम्बन्ध में भी सबसे प्रथम 'राजस्थान भारती' में लेख प्रकाशित हुआ है ।

१३. जैसलमेर के अग्रकाशित १०० शिलालेखों और 'भट्ट वंश प्रशस्ति' आदि अनेक अप्राप्य और अग्रकाशित ग्रंथ खोज-यात्रा करके प्राप्त किये गये हैं ।

१४. बीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रंथों का अनुसन्धान किया गया और ज्ञानसागर ग्रथावली के नाम से एक ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है । इसी प्रकार राजस्थान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाओं का संग्रह प्रकाशित किया गया है ।

१५. इसके प्रतिरिक्त संस्था द्वारा—

(१) डा० लुइजि पिओ तैस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराज और लोकमान्य तिलक आदि साहित्य-सेबियों के निर्माण-दिवस और जयन्तिया मनाई जाती हैं ।

(२) साप्ताहिक साहित्य गोष्ठियों का आयोजन बहुत समय से किया जा रहा है, इसमें अनेकों महत्वपूर्ण निबंध, लेख, कविताएं और कहानिया आदि पढ़ी जाती हैं, जिससे अनेक विद्यार्थी साहित्य का निर्माण होता रहता है । विचार विमर्श के लिये गोष्ठियों तथा भाषणमालाओं आदि के भी समय-समय पर आयोजन किये जाते रहे हैं ।

१६. बाहर से ख्याति प्राप्त विद्वानों को बुलाकर उनके भाषण करवाने का आयोजन भी किया जाता है । डा० बासुदेवशरण अग्रवाल, डा० कैलाशनाथ काटजू, राय श्रीकृष्णदास, डा० जी० रामचन्द्रम्, डा० सत्यप्रकाश, डा० डब्लू० एलेन, डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, डा० तिवेरिओ-तिबेरी आदि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषण हो चुके हैं ।

गत दो वर्षों से महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ आसन की स्थापना की गई है । दोनों वर्षों के आसन-प्रधिवेशनों के अभिभाषक क्रमशः राजस्थानी भाषा के प्रकाण्ड

विद्वान् श्री मनोहर शर्मा एम० ए०, बिसाऊ और पं० श्रीलालजी मिश्र एम० ए०, इ इलोड थे ।

इस प्रकार संस्था अपने १६ वर्षों के जीवनकाल में, संस्कृत, हिन्दी और राजस्थानी साहित्य की निरंतर सेवा करती रही है । प्राथिक संकट से ग्रस्त इस संस्था के लिये यह सम्भव नहीं हो सका कि यह अपने कार्यक्रम को नियमित रूप से पूरा कर सकती, फिर भी यदा कदा लडखडा कर गिरते पड़ते इसके कार्यकर्त्ताओं ने 'राजस्थान-भारती' का सम्पादन एवं प्रकाशन जारी रखा और यह प्रयास किया कि नाना प्रकार की बाधाओं के बावजूद भी साहित्य सेवा का कार्य निरंतर चलता रहे । यह ठीक है कि संस्था के पास अपना निजी भवन नहीं है, न अच्छा सदस्य पुस्तकालय है, और न कार्यालय को सुचारु रूप से सम्पादित करने के समुचित साधन ही हैं; परन्तु साधनों के अभाव में भी संस्था के कार्यकर्त्ताओं ने साहित्य की जो मौन और एकान्त साधना की है वह प्रकाश में आने पर संस्था के गौरव को निश्चित ही बढ़ा सकने वाली होगी ।

राजस्थानी-साहित्य-मंडार अत्यन्त विशाल है । अब तक इसका अत्यल्प अंश ही प्रकाश में आया है । प्राचीन भारतीय वाङ्मय के अलभ्य एवं अनर्घ रत्नों को प्रकाशित करके विद्वज्जनों और साहित्यिकों के समक्ष प्रस्तुत करना एवं उन्हें सुगमता से प्राप्त करना संस्था का लक्ष्य रहा है । हम अपनी इस लक्ष्य पूर्ति की ओर धीरे-धीरे किन्तु दृढ़ता के साथ अग्रसर हो रहे हैं ।

यद्यपि अब तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तकों के अतिरिक्त अन्वेषण द्वारा प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण सामग्री का प्रकाशन करा देना भी अभीष्ट था, परन्तु अर्थाभाव के कारण ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका । हर्ष की बात है कि भारत सरकार के वैज्ञानिक संशोधन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम मन्त्रालय (Ministry of scientific Research and Cultural Affairs) ने अपनी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास की योजना के अंतर्गत हमारे कार्यक्रम को स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये (१५०००) रु० इस मद में राजस्थान सरकार को दिये तथा राजस्थान सरकार द्वारा उतनी ही राशि अपनी ओर से मिलाकर कुल (३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-प्रकाशना

हेतु इस संस्था को इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई है; जिससे इस वर्ष निम्नोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है।

१. राजस्थानी व्याकरण—	श्री नरोत्तमदास स्वामी
२. राजस्थानी गद्य का विकास (शोध प्रबंध)	डा० शिवस्वरूप शर्मा अचल
३. अचलदास खोची की वचनिका—	श्री नरोत्तमदास स्वामी
४. हमीरायण—	श्री भंवरलाल नाहटा
५. पद्मिनी चरित्र चौपई—	" " "
६. दलपत विलास—	श्री रावत सारस्वत
७. डिगल गीत—	" " "
८. पवार वंश दर्पण—	डा० दशरथ शर्मा
९. पृथ्वीराज राठोड ग्रंथावली—	श्री नरोत्तमदास स्वामी श्रीर श्री बदरीप्रसाद साकरिया श्री बदरीप्रसाद साकरिया
१०. हरिरस—	श्री अग्रचंद नाहटा
११. पीरदान लालस ग्रंथावली—	श्री रावत सारस्वत
१२. महादेव पार्वती वेलि—	श्री अग्रचंद नाहटा
१३. सीताराम चौपई—	श्री अग्रचंद नाहटा श्रीर
१४. जैन रासादि संग्रह—	डा० हरिवल्लभ भायाणी प्रो० मंजुलाल मजूमदार
१५. सदयवत्स वीर प्रबन्ध—	श्री भंवरलाल नाहटा
१६. जिनराजसूरि कृतिकुमुमाजलि—	" " "
१७. विनयचंद कृतिकुमुमाजलि—	श्री अग्रचंद नाहटा
१८. कविवर धर्मवद्धन ग्रंथावली—	श्री नरोत्तमदास स्वामी
१९. राजस्थान रा दूहा—	" " "
२०. वीर रस रा दूहा—	श्री मोहनलाल पुरोहित
२१. राजस्थान के नीति दोहे—	" " "
२२. राजस्थानी व्रत कथाएं—	" " "
२३. राजस्थानी प्रेम कथाएं—	" " "
२४. चंदायन—	श्री रावत सारस्वत

२५. भङ्गली—	श्री अग्ररचंद नहाटा और मःविनय सागर
२६. जिनहर्ष ग्रंथावली	श्री अग्ररचंद नाहटा
२७. राजस्थानी हस्त लिखित ग्रंथो का विवरण	,, ,,
२८. दम्पति विनोद	,, ,,
२९. हीयाली—राजस्थान का बुद्धिबर्धक साहित्य	,, ,,
३०. समयसुन्दर रासत्रय	श्री भंवरलाल नाहटा
३१. दुरसा आढा ग्रंथावली	श्री बदरीप्रसाद साकरिया

जैसलमेर ऐतिहासिक साधन संग्रह (सपा० डा० दशरथ शर्मा), ईशरदास ग्रंथावली (सपा० बदरीप्रसाद साकरिया), रामरासो (प्रो० गोवर्द्धन शर्मा), राजस्थानी जैन साहित्य (ले० श्री अग्ररचंद नाहटा), नागदमण (सपा० बदरीप्रसाद साकरिया) मुहावरा कोश (मुरलीधर व्यास) आदि ग्रंथो का सपादन हो चुका है परन्तु अर्थाभाव के कारण इनका प्रकाशन इस वर्ष नहीं हो रहा है ।

हम आशा करते हैं कि कार्य की महत्ता एवं गुरुता को लक्ष्य में रखते हुए अगले वर्ष इससे भी अधिक सहायता हमें अवश्य प्राप्त हो सकेगी जिससे उपरोक्त सपादित तथा अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथो का प्रकाशन संभव हो सकेगा ।

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षा विकास सचिवालय के आभारी हैं, जिन्होंने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया और ग्रान्ट-इन-एड की रकम मजूर की ।

राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय मोहनलालजी सुखाडिया, जो सीभाग्य से शिक्षा मंत्री भी हैं और जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरुद्धार के लिये पूर्ण सचेष्ट हैं, का भी इस सहायता के प्राप्त कराने में पूरा-पूरा योगदान रहा है । अतः हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता सादर प्रगट करते हैं ।

राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाध्यक्ष महोदय श्री जगन्नाथसिंहजी मेहता का भी हम आभार प्रगट करते हैं, जिन्होंने अपनी ओर से पूरी-पूरी दिलचस्पी लेकर हमारा उत्साहवर्द्धन किया, जिससे हम इस वृहद् कार्य को सम्पन्न करने में समर्थ हो सके । सस्था उनकी सदैव ऋणी रहेगी ।

इतने थोड़े समय में इतने महत्वपूर्ण ग्रन्थों का संपादन करके संस्था के प्रकाशन-कार्य में जो सराहनीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी ग्रन्थ सम्पादकों व लेखकों के अत्यन्त आभारी हैं।

अनूप संस्कृत लाइब्रेरी और अभय जैन ग्रन्थालय बीकानेर, स्व० पूरणचन्द्र नाहर सप्रहालय कलकत्ता, जैन भवन संग्रह कलकत्ता, महावीर तीर्थक्षेत्र अनुसंधान समिति जयपुर, ओरियंटल इन्स्टीट्यूट बड़ोदा, मांडारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना, खरतरगच्छ वृहद् ज्ञान भण्डार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बंबई, आत्माराम जैन ज्ञानभंडार बड़ोदा, मुनि पुण्यविजयजी, मुनि रमणिक विजयजी, श्री सीताराम लालस, श्री रविशंकर देराश्री, प० हरिदत्तजी गोविंद व्यास जंसलमेर आदि अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त होने से ही उपरोक्त ग्रन्थों का संपादन सम्भव हो सका है। अतएव हम इन सबके प्रति आभार प्रदर्शन करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं।

ऐसे प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन श्रमसाध्य है एवं पर्याप्त समय की अपेक्षा रखता है। हमने अल्प समय में ही इतने ग्रन्थ प्रकाशित करने का प्रयत्न किया इसलिए श्रुतियों का रह जाना स्वाभाविक है। गच्छन्. स्वलनकवपि भवथ्येव प्रमाहत्., हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः।

आशा है विद्वद्बृन्द हमारे इन प्रकाशनों का अवलोकन करके साहित्य का रसास्वादन करेंगे और अपने सुझावों द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे जिससे हम अपने प्रयास को सफल मानकर कृतार्थ हो सकेंगे और पुनः मां भारती के चरण कमलों में विनम्रतापूर्वक अपनी पुष्पाजलि समर्पित करने के हेतु पुनः उपस्थित होने का साहस बटोर सकेंगे।

बीकानेर,
मार्गशीर्ष शुक्ला १५
संवत् २०१७
दिसम्बर ३, १९६०

निवेदक
लालचन्द्र कोठारी
प्रधान-मन्त्री
सादूल राजस्थानी-इन्स्टीट्यूट
बीकानेर

दो शब्द

वीरवर चौहान हम्मीर इतिहास प्रसिद्ध महान् व्यक्ति हुए हैं जिनके इठ के सम्बन्ध में “तिरिया तेल हमीर इठ, चढै न दूजी बार” पर्याप्त प्रख्यात कहावत है। राजस्थान के इस महान् वीर के सम्बन्ध में जैनाचार्य नयचंद्र सूरि का ‘हम्मीर महाकाव्य’ बहुत वर्ष पूर्व प्रकाशित हो चुका है, और उसका नवीन संस्करण पुरातत्त्वाचार्य श्रीजिनविजयजी के सम्पादित कई वर्षों से छपा पड़ा है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया। नागरी प्रचारणी सभा से कवि जोधराज का हम्मीर रासो व ‘इमर इठ’ ग्रन्थ भी बहुत वर्ष पूर्व प्रकाशित हुए थे। प्राकृत ‘पेंगलम्’ में हम्मीर सम्बन्धी फुटकर पद्य एवं मैथिल कवि विद्यापति की पुरुषपरीक्षा में दयावीर प्रबन्ध भी प्रकाशित है, पर हम्मीर सम्बन्धी प्राचीन राजस्थानी स्वतंत्र रचना प्राप्त न होना वर्षों से अखरता था। सन् १९५४ में श्री महावीरजी तीर्थक्षेत्र अनुसन्धान समिति, जयपुर की ओरसे राजस्थान के जैन शास्त्रभंडारो की ग्रन्थ सूचीका द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ तो दिग्गम्बर जैन बडा तेरापंथी मंदिर के गुटका नं० २६२में स० १५३८ में रचित ‘राय दे हमीर दे चौपई’ होने की सूचना पाकर बडी प्रसन्नता हुई। उक्त गुटके को मँगवा कर उसकी प्रतिलिपि कर ली गई। प्रकाशित सूचीमें रचयिता के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं था, पर प्रति मँगवाने पर कवि का नाम ‘भांडउ व्यास’ ज्ञात हो गया और इस रचना का परिचय मरु-भारती वर्ष ४ अंक ३ में ‘महान् वीर हम्मीर दे चौहान सम्बन्धी एक प्राचीन राजस्थानी रचना’ नामक लेख में दे दिया गया। तदनन्तर मुनि जिनविजयजी से इस महत्वपूर्ण अज्ञात रचना के

विषय में बातचीत होने पर उन्होंने इसे हमीर महाकाव्य के परिशिष्ट में प्रकाशित करने के लिए हमारे करवायी हुई प्रतिलिपि लेखी पर वह ग्रन्थ अद्यावधि प्रकाशित नहीं हो पाया। गत वर्ष सादल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट को भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से प्राचीन राजस्थानी ग्रन्थ प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर इस रचना को सस्था की ओर से प्रकाशित करना निश्चित किया गया और उस गुटके को पुनः जयपुर से मँगाकर प्रेसकापी कर ली गई। इसी बीच उदयपुर में मुनि कान्तिसागरजी के संग्रह में इस रास की दो प्रतियाँ होने का ज्ञात हुआ तो श्रीनरोत्तमदासजी स्वामी को उन कृतियों की प्रतियाँ या नकल भेजने के लिए लिखा गया और उन्होंने जो प्रारम्भ श्रुटित प्रति मुनि जी से मिली उसके आधार से पद्यांक १२७ से ३१६ तक का पाठ सम्पादित करके भेजा। मुनिजी के पास से दूसरी पूर्ण प्रति प्राप्त न होने से जयपुर वाली प्रति को ही मुख्य आधार मानकर प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी की प्रतिलिपि का भी इसमें यथास्थान उपयोग कर लिया गया है और पृष्ठ ६७ से ७९ तक उदयपुर की प्रतिके पाठान्तर दिये गए हैं।

भांडा व्यास की रचना को अबतक बचाये रखने का श्रेय जैन विद्वानों को है। मुनि कान्तिसागरजी के संग्रह में इसकी जो पूर्ण प्रति का विवरण देखने को मिला उसके अनुसार उस प्रति में भी पर्याप्त पाठभेद है। रचनाकाल व रचयिता के सम्बन्ध में भी पाठ भिन्न है।

† “हृष्मीरायण अति रसाल, भावकलश कहि चरित्र रसाल”

अन्तिम पद्य में भी भांडा की जगह ‘भावकलश कहि सुफला फलइ’ पाठ है एव रचना काटल पनरहसइ तात्रीसइ जाणि” पाठ है यह प्रति स० १६०९ की लिखी हुई है।

मावकलशा रचित कृतकर्म चौपई का विवरण भी मुनिजी के विवरण ग्रन्थ (अप्रकाशित) में देखा गया है। प्रस्तुत रास की प्रति एवं प्रतिलिपि प्राप्त करने में श्री कस्तूरचंद्रजी कासलीवाल मुनि कान्तिसागरजी व स्वामी नरोत्तमदासजी का सहयोग प्राप्त हुआ, इसलिए हम उनके आभारी हैं।

यद्यपि जयपुर वाली प्रतिलिपि कर्ता ने इसका नाम 'राय हमीर दे चौपई' लिखा है, चौपई छन्द की प्रधानता होने से वह संगत भी है पर मूल प्रथकार ने प्रारम्भ व अन्त में 'हम्मीरायण' शब्द का प्रयोग किया है अतः हमने भी इसी नाम को अपनाया है।

यह रचना ३२६ पद्यों की छोटी सी होने से इसके साथ में हम्मीर सम्बन्धी अन्य फुटकर रचनाओं को देना आवश्यक समझा गया अतः परिशिष्ट न० १ में प्राकृत पैङ्गलम् के हम्मीर सम्बन्धी ८ पद्य हिन्दी अनुवाद सहित प्राकृत ग्रन्थ परिषद के ग्रन्थाङ्क ५ में प्रकाशित प्राकृत पैङ्गलम् के नवीन संस्करण से उद्धृत किये गये हैं इसलिए इस ग्रन्थ के सम्पादक डा० मोलाशंकर व्यास और प्राकृत ग्रन्थ परिषद के सञ्चालकों के आभारी हैं।

परिशिष्ट नं० २ में हम्मीर सम्बन्धी २१ कवित्त व दोहे अनूप संस्कृत लाइब्रेरी के राजस्थानी विभाग की प्रति नं० १२६ (सं० १७९८ लिखित) से प्रतिलिपि करके दिये गए हैं। और उसी लाइब्रेरी की प्रति नं० ९६ में माट खेम रचित हम्मीर दे कवित्त एवं बात (सं० १७०६ लिखित) प्राप्त हुए उन्हें परिशिष्ट नं० ४ में प्रकाशित किये गए हैं। एतदर्थ उपर्युक्त लाइब्रेरी के व्यवस्थापकगण धन्यवादाहर्ह हैं।

† कवित्त नं० ६, १०, १९ में कुछ पाठ त्रुटित है एवम् कहीं कहीं पाठ भी अशुद्ध है, अतः इसकी अन्य पूर्ण व शुद्ध प्रति अपेक्षित है।

मैथिल कवि विद्यापति की 'पुरुष परीक्षा' ग्रन्थ के दयाबीर कथा में वीर हम्मीर का वृत्तान्त पाया जाता है। पुरुष परीक्षा ग्रन्थ अब अप्राप्य सा है, इसलिये हमारे ग्रन्थालय के प्राचीन संस्करण से दयाबीर कथा को हिन्दी अनुवाद के साथ परिशिष्ट नं० ३ में दे दिया गया है।

हम्मीर सम्बन्धी अप्रकाशित रचनाओं में कवि महेश के हम्मीर रासे की दो त्रुटित प्रतियाँ हमारे संग्रह में हैं। उस ग्रन्थ की कई पूर्ण प्रतियाँ राजस्थान प्राच्य विद्याप्रतिष्ठान, जोधपुर आदि के संग्रह में हैं उनकी प्रति-लिपि प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया गया पर उन प्रतियों में अत्यधिक पाठ भेद होने से उसका स्वतंत्र सम्पादन करना ही उचित समझा गया अतः इसमें सम्मिलित नहीं किया गया।

हम्मीरायण नामक एक और काव्य भी प्राप्त है जिसकी एक अशुद्ध-सी प्रति राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ने और उसके वृहद् रूपान्तर की प्रति-लिपि स्वर्गीय पुरोहित हरिनारायण जी के संग्रह में है, वह ग्रन्थ काफी बड़ा होने से मुनिजिनविजय जी ने श्री अग्रचन्द्र जी नाहटा के सम्पादन में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान से प्रकाशन करना निर्णय किया है।

हम्मीरदेव वचनिका नामक एक और महत्वपूर्ण रचना की प्रति श्री उदयशङ्कर जी शास्त्री के संग्रह में है, उसका भी स्वतन्त्र रूप से व सम्पादन कर रहे हैं इसलिये उसका उपयोग यहाँ नहीं किया जा सका है।

माननीय डा० दशरथ शर्मा ने इस ग्रन्थ की विस्तृत व शोधपूर्ण प्रस्तावना लिख देने का कृपा की है इसके लिए हम उनके अत्यन्त आभारी हैं। प्रकाशित रचनाओं का कथासार देने का विचार था, पर उसका समावेश डा० दशरथ जी की भूमिका में हो गया है अतः इस ग्रन्थ के पृष्ठों को अनावश्यक बढ़ाना उचित नहीं समझा गया।

भैरवलाल नाहटा

हस्मीरायण—



रणथंभोर का ऐतिहासिक दुर्ग

भूमिका

(हम्मोरायण का पर्यालोचन)

राजस्थानी भाषा अपने वीर काव्यों के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध हो चुकी हैं। कवि सम्राट श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में 'राजस्थान ने अपने रक्त से जो साहित्य निर्माण किया है उसकी जोड़ का साहित्य और कहीं नहीं पाया जाता' किन्तु इस 'बेजोड़' साहित्य में से अभी तक कुछ रत्न ही हमारे सम्मुख आ सके हैं। वीर रस के प्रेमी अब रणमल छन्द और कान्हडदे प्रबन्ध से परिचित हैं। रतन महेसदासोतरी वचनिका और अचलदास खीचीरी वचनिका के सुसम्पादित संस्करण भी अब हमें प्राप्य हैं। बीठू सूजा नगराजोत का 'राउ जइतसी-रउ छन्द' भी मनस्वी इटालियन विद्वान् तेसीनोरी की कृपा से मुद्रित हो चुका है। कुछ प्रकीर्णक रचनाओं का भी प्रकाशन हुआ है। किन्तु यह प्रकाशित साहित्य अप्रकाशित राजस्थानी वीर रसात्मक साहित्य का एक सामान्य अंश मात्र है। शायद ही कोई ऐसा राजस्थानी वीर हो जिसके लिये कुछ न लिखा गया हो। और हम्मोरी तो राजस्थान के उन आदर्श वीरों में से है जिसकी कीर्ति का ख्यापन कर राजस्थान का कवि समाज कुछ विशेष गौरव की अनुभूति करता रहा है। इन्हीं कवियों में 'भाण्ड' व्य हैं जिसकी कृति 'हम्मोरायण' पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है।

हम्मीरायण का रचयिता

हम्मीरायण के रचयिता के बारे में सन्देह के लिए कुछ विशेष अवकाश नहीं है। कवि ने अपना नाम पद्य ४, ५१, ६०, १०६, ११४, १७३, २२२, २४२, २४४, २८८, ३२६, आदि में 'भाड', 'भाडउ' और 'भाडउ' रूप में दिया है, जिससे स्पष्ट है कि नाम 'भाड़ा' या भाण्डा रहा होगा जिसका राजस्थानी में कर्तृ-कारक के एक वचन में 'भाडउ' या 'भाण्डउ' रूप होगा। जिस प्रकार भाण्डा के समसामयिक नृप 'बीका' को 'बीकउ' या 'बीकोजी' कहते हैं। उसी तरह हम्मीरायण के कवि को हम 'भाण्डउ' या 'भाण्डोजी' भी कहे तो ठीक होगा। हम्मीरायण के कर्ता व्यास थे जिनका सदा से कथा-वार्तादि कहना मुख्य व्यवसाय रहा है। अतः रामायणादि की कथा के प्रेमी 'भाण्डउ' व्यास का बीर-त्रयी हम्मीर की ओर आकृष्ट होकर 'हम्मीरायण' की रचना करना स्वाभाविक था।

कवि ने अपने पिता का नाम कहीं नहीं दिया है। डा० मानाप्रसाद गुप्त का यह मन कि हम्मीरायण किसी काश्यपराव के पुत्र भाण की रचना है, भ्रान्तिमूलक है। वास्तव में वे इस चउपाई का अर्थ ठीक न समझ पाए हैं :—

कासिपराउ तणउ पुत्र भाण । श्री सूरिज प्रणमउ सुविहाण ।

पुहमि रायणि अति सुरसाल । भाड गायो चरिय सुवीसाल ॥४॥

इस चौपाई का भाण तो 'मानु' या सूर्य है जो काश्यप का पुत्र है। उसी का दूसरा नाम सूर्य है। कवि उसे सुविधान से प्रणाम करता है।

डा० गुप्त ने शायद पृथ्वीराज द्वारा प्रताप को प्रेषित पत्र के इस पथ पर ध्यान नहीं दिया है :—

पातल जो पतसाह, बोलै मुख हूँता वयण ।

मिहिर पिछ दिस माह, जौँ कासपराव उत ॥

यह 'कासपराव उत (पुत्र)' और 'कासपराउ तणउ' पुत्र एक ही हैं । 'मिहिर' भानु और सूरिज का समानार्थक है । कवि ने अपना निजी नाम तो चउपई की दूसरी अधालि के दूसरे चरण में दिया है, और इसी नाम की आवृत्ति उसने ५१-६० आदि पदों में भी की है जिनका निर्देश हम अभी कर चुके हैं । समग्र कथा की अच्छी तरह आवृत्ति कर डा० गुप्त यदि कवि का नाम निश्चित करने का प्रयत्न करते तो उनसे यह भूल न होती ।

हम्मीरायण की कथा

हम्मीरायण का कथा-भाग कुछ विशेष लम्बा नहीं है । इसे रामायण से तुलित किया जाए तो शायद यही कहना पड़े कि इसमें लङ्काकाण्ड मात्र ही है । हम्मीर के आरम्भिक जीवन को सर्वथा छोड़ कर इसकी कथा प्रायः अलाउद्दीन और हम्मीर के संघर्ष से ही आरम्भ होती है । संक्षेप में कथा निम्नलिखित है :—

जयतिगदे का पुत्र हम्मीरदे बहुभाण रणधंभोर का राजा था । उसका भाई वीरम युवराज था और सूरवंशी रणमल तथा रायपाल उसके प्रधान थे । हम्मीर ने प्रधानों को आधी बूँदी गुजारे में और बहुत सी सेना दी थी ।

इसी बीच में उल्लूखों के दो विद्रोही सरदार, महिमासाहि और मीर 'गाभरू' उल्लूखों की बहुत सी सेना का नाश कर रणधंभोर आ पहुँचे । हम्मीर ने उन्हें शरण दी, और उन्हें दो लाख वेतन ही नहीं,

बहुत अच्छी जागीर भी दी। महाजनों ने इस नीति की कटु आलोचना की। किन्तु इम्मीर ने उनकी मलाह पर ध्यान न दिया।

उत्तख़ाँ को जब ये समाचार मिले, तो उसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर इम्मीर पर चढ़ाई की कानों कान किसी को खबर भी न लगी। किन्तु अकस्मात् 'जाजट' देवड़ा उधर से आ निकला। उसने कुछ मुसलमानी सेना नष्ट की और इम्मीर को रणथमोर पहुँच कर खबर भी दी। फलतः जब उत्तख़ाँ हीराघाट पहुँचा, इम्मीर मुठभेड़ के लिए तैयार था। इम्मीर, महिमासाहि, मीर गामरू और इम्मीर के राजपूतों से पराजित होकर उत्तख़ाँ मैदान से भाग निकला।

अलाउद्दीन को जब यह सूचना मिली तो उसने सब सेना एकत्रित कर रणथमोर को आ घेरा, और मोल्हाभाट को दूत के रूप में भेज कर इम्मीर को कइलाया कि वह राजकुमारी देवलदे, धारू और धारू वेदयाओ, अनेक गदों और हाथियों को बादशाह की नजर करें। दोनों मीर भाइयों की विशेष रूप से मांग थी। इनके बदले में सुल्तान इम्मीर को माँड़ू, उज्जयिनी आदि देने के लिए उद्यत था। किन्तु इम्मीर तो एक दमाग्न भूमि भा टन के लिए तैयार न हुआ। मोल्हा ने कीर्ति और लक्ष्मी रूपी दो कन्याओं को इम्मीर के सामने प्रस्तुत किया था। इम्मीर ने कीर्ति को वरण करना ही उचित समझा।

इम्मीर के पत्र के उत्तर में दाहिमा, कछवाहा, भाटी आदि छत्तीस राजकुलों के लोग रणथमोर में आकर एकत्रित हो गए। महिमासाहि के नेतृत्व में शाही सेना पर आक्रमण कर उन्होंने निसरखान को मार डाला। अनेक दूसरे मीर भी मारे गए। गढ़ में खूब उत्सव हुआ। बादशाह ने

युद्ध चालू रखा किन्तु साथ ही में गढ़ को लेने के अन्य उपाय भी सोचने लगा ।

हम्मीर एक दिन सिंहासन पर बैठा हुआ युद्ध देख रहा था । महिमासाहि भी वहीं था । वह चाहता तो बादशाह को अपने बाण का निशाना बना लेता, किन्तु हम्मीर के मना करने पर उसने केवल अलाउद्दीन के सानों राजलत्र काट डाले ।

सुल्तान ने रणथम्भोर को हस्तगत करने का अब एक और उपाय किया । उसने रिण की 'खाई को लकड़ियों से पाटने' का प्रयत्न किया । किन्तु हम्मीर के सैनिकों ने लकड़ियाँ जला दी । उसके बाद अलाउद्दीन की आज्ञा से सैनिकों ने बालू से उसे भरना शुरू किया । बालू से बीच का स्थान भरने पर उसके सैनिकों के हाथ गढ़ के कंगूरों तक पहुँचने लगे । हम्मीर चिन्नातुर हुआ । किन्तु गढ़ के अविष्ठाता देव की कृपा से ऐसा पानी आया कि सब बालू बह गई ।

गढ़ में फिर आनन्द होने लगा । धारू और बारू नाम की वेश्याएँ ऐसा नृत्य करती की उसकी समाप्ति सुल्तान को पीठ दिखाकर होती । सुल्तान ने महिमासाहि के चाचा को बन्दी कर लिया था । उसने बन्धन से मुक्त होकर एक ही तीर से उन दोनों वेश्याओं को मार गिराया । बादशाह ने उसे बहुत इनाम दिया ।

बारह वर्ष तक युद्ध चलता रहा । अन्त में सुल्तान ने सन्धि की बात-चीत आरम्भ की । रायपाल और रणमल को अत्यन्त विश्वस्य समझ कर हम्मीर ने सुल्तान के पास भेजा । अभी तक उनके पास आधी बून्दी की जागीर थी । पूरी बून्दी की प्राप्ति का आश्वासन मिलने पर इन दुष्ट

प्रधानो ने सुल्तान को बचन दिया कि सेना के प्रयोग के बिना ही वे उसे दुर्ग दिलवा सकेंगे ।

गढ में पहुँच कर इन दुष्टों ने झूठ मूठ ही बातें बनाते हुए राजा से कहा, “सुल्तान देवलदेवी को मांगता है ।” कुमारी भी आत्मोत्सर्ग के लिए तैयार हुई । किन्तु इम्मीर ने उसकी बात पर ध्यान न देकर अपनी सेना तैयार करनी शुरू की । अपने प्रधानो की दगाबाजी को अब भी वह न समझ सका । दुर्ग के धान्यरक्षक से मिल कर इन्होंने सब धान्य इधर उधर करवा दिया । फिर अलाउद्दीन पर हमला करने के बहाने से इम्मीर से सेना लेकर वे शत्रु से जा मिले । इम्मीर को अब कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई न दे रहा था जिसके हाथ में वह हथियार थे । इसलिए प्रजा को बुला कर उसने कहा, “मैं राजा हूँ, तुम मेरी प्रजा हो” कहो, मैं तुम्हें कहाँ पहुँचाऊँ ? और जाजा तुम तो परदेशी पाहुणे हो, तुम अपने घर जाओ ।” किन्तु जाने के लिए कोई तैयार न हुआ । महिमासाहि ने तो यह भी कहा, “यदि हमें देने से गढ बच सके तो हम बचाओ ।” इम्मीर के लिए यह असम्भव था ।

मीरो के कहने पर इम्मीरने धान्यागारो की देखभाल करवाई तो मालूम हुआ कि वे सब खाली हैं । अब जौहर के सिवाय उपाय ही क्या था ? उसकी तैयारी हुई । राजा ने वंश रक्षा के लिये वीरम को गढ से जाने के लिये कहा । किन्तु जब वह तैयार न हुआ तो उसने कंवर को तिलक दिया और विदा करने से पूर्व उसे उचित शिक्षा दी ।

हाथियों और घोड़ों को राजपूतों ने मार डाला । जमहर (जौहर) की चिनाँ जल उठी । सवा लाख का संहार हुआ । फिर सब स्थानों से

विदा मांगता हुआ अब हम्मीर कोठारों में गया तो उन्हें मरा पाया। किन्तु उसे अब जीने की इच्छा न रही थी। उस समय वीरमदे, हम्मीर दे, मीर और महिमासाहि, भाट और पाहुणा जाजा केवल ये व्यक्ति दुर्ग में वर्तमान थे। उचित स्थान पर अपनी अन्त्येष्टि और दोनों मीरों को दफनाने का काम हम्मीर ने भाट को सौंपा। सबसे पहले मीरों ने, फिर देवड़ा जाजा ने और उसके बाद वीरम ने युद्ध किया। हम्मीर ने अपने हाथों ही अपना गला काटा। “यह सब ससार जानता है कि संवत् १३७१ ज्येष्ठ अष्टमी शनिवार के दिन राजा मरा और गढ़ टूटा।”

सुबह रणक्षेत्र में बादशाह पहुँचा। उसने रणमल से पूछा, ‘इनमें तुम्हारा साहिब कौन है?’ मद से मस्त उस अँधे ने पैर से राव को दिखाया। उसी समय नन्ह भाट ने हम्मीर की बिस्वाबली का उच्चारण किया और अलाउद्दीन की भी प्रशंसा की। उसने एक एक सिर दिखा कर सब वीरों का वर्णन किया। ‘रणधर्मौर जलहरी है, जिसमें हम्मीर शिव स्थान पर वर्तमान है। वइजलदे १ ‘देवड़ा जाजा’ ने उस साहिब की अपने शिर से पूजा की है। यह राजा का बन्धुवर वीरमदे है। यह तुम्हारे घर के मीर महिमासाहि और गामरू हैं। वह शरणागतों की रक्षा करने वाला हम्मीर है।

बादशाह ने नालह भाट को मुहमांगा दान मांगने को कहा। नालह ने स्वामिद्रोहियों के घात की प्रार्थना की। सुल्तान ने रणमल, रायपाल और कोठारी की अँगूठे तक खाल निकलवा डाली। भाट प्रसन्न हुआ। राजपूतों को दाग दिया, दोनों मीरों को दफनाया, और राजा को गङ्गा में प्रवाहित किया और फिर भाट की प्रार्थनानुसार उसे भी मरवा दिया भाटने हम्मीर का बदला लेकर अपना नाम रखा।’

‘भाण्डउ’ ने “यह कथा सोमवार के दिन कालिक सुदी सप्तमी, संवत् १५३८ के दिन कही (पृष्ठ ३२५)”

अर्थ-विषयक कुछ मतभेद

इम इस प्रस्तावना को प्रायः समाप्त कर चुके थे। उस समय श्री अग्रचन्द्रजी नाइटा से हमें 'इमीर डे चउपई' पर हिन्दुस्तानी (१९६०, जनवरी-मार्च) में प्रकाशित डॉ० माताप्रसाद गुप्त का लेख मिला। डा० गुप्त ने इम्मीरायण की कथा पर काफी रोशनी डाली है, जिस अर्थ पर हम पहुँचे हैं और जो अर्थ डा० गुप्त ने दिया है, उनमें अनेकशः पर्याप्त मतभेद है। अतः कुछ और लिखने से पूर्व उन स्थलों पर कुछ विचार करने के लिए हम विवश हुए हैं। कथा के सत्या-सत्य की परीक्षा उसका अर्थ निश्चित होने पर ही हो सकती है।

डा० माताप्रसाद कृत अर्थ

प्रस्तावित अर्थ और सुभाव

(१) "बड़ (कवि) अपने को काश्यप राव का पुत्र भाण बताता है।"

(१) कश्यपराज का पुत्र भानु है। उन श्री सूयं को मैं सविधान प्रणाम करता हूँ।" इम ऊपर बता चुके हैं कि कवि का नाम 'भाट', भाउत या 'भाण्डत' व्यास है।

(२) "गढ़ के परबोटे में चार प्रमुख पोलियां थी और प्रत्येक पौली पर नौलखी चद्रिका होती थी।"

(२) चौपाई इस प्रकार है —

कोटि जिसो हुबड़ इन्द विमाण,
च्यारि पोलि तिणि कोटि प्रधान।
पोलि चडि नवलखीज होइ,
चउरासी चहुटा नितु जोइ ॥९॥

इसमें प्रत्येक पौली पर नौलखी चद्रिका होती थी। ऐसा अर्थ तो इसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। वास्तव में नौलखी तो एक पौली विशेष है जो अब भी इसा नाम से प्रसिद्ध है।

(३) “राजा का आवास
त्रैलोक्य-मंदिर का नाम
का था, ओर गढ़ के पर-
कोटे में एक अलंकृत पौली
थी जिसके बीच में एक
त्रुटित रणस्तम्भ था।”

(३) चौपाई इस प्रकार हैं :—

त्रैलोक्यमंदिर राय आवास,
सीला ऊन्हा धवलहरि पासि ।
भूखी पोलि अछइ तिणि कोटि,
रिणनइ थंभ बिचइ छइ त्रोटि ॥१७॥

यहाँ डा० गुप्त और अधिक चूके हैं। त्रैलोक्य-
मन्दिर एक प्रासाद विशेष की सज़ा है। ऐसी ही
संज्ञाएँ बीकानेर और राणकपुर के त्रैलोक्य-दीपक
प्रासादों में भी अनुसन्धेय हैं। किन्तु हम डा० गुप्त
के पहले पंक्ति के अर्थ को यथा तथा ठीक भी मान
लें। ना भी दूसरी पंक्ति के अर्थ से सहमत होना तो
असम्भव है। यह समझ में नहीं आता कि “पौलिके
बीच में त्रुटित रणस्तम्भ” की कल्पना ही वे कैसे कर
चुके? वास्तव में “रण” दुर्ग की निकटस्थ प्रसिद्ध
पहाड़ी है जिसका उल्लेख प्रायः सभी इतिहासकारों ने
किया है। ‘स्तम्भ से वह पहाड़ अभिप्रेत है जिस पर
दुर्ग है। इनके बीच में गहरा खड्ड है (देखें आगे
हमारा रणधंभोर का भौगोलिक वृत्त)। कवि ने
इसी नथ्य को ‘रिण नइ थंभ बिचइ छइ त्रोटि’ कह
कर प्रकटित किया है। रिण का नाम ‘चउपइ’ में
आगे भी हैं।

(४) “पहले उलुगखां ने इनसे पांच लब्धियां मांगी थीं, किन्तु इन्होंने उसे आधी लब्धि भी नहीं दी, फिर भी बादशाह के यहां इनका मान था, इसलिए ये उलुगखां की सेना में बने हुए थे।”

(४) डा० गुप्त का यह अर्थ हमारे विचार से अस्पष्ट है और अशुद्ध भी। लब्धि का पारिभाषिक अर्थ एक ज्ञान विशेष है जो इस प्रसंग में उपयुक्त नहीं है, यदि ‘लब्धि’ को हम प्राप्ति के अर्थ में लें तो आधीलब्धि और पांच लब्धिका अर्थ समझाने की आवश्यकता है। हमीरायण के उद्धरण ये हैं :—

अलुखान जि मगियउ, अम्ह तीरइ पंचाध ।

घणा दिवस म्हे ऊलग्या, जेउ न दीधउ आध ॥४०॥

अम्हनइ मान हुनउ एतलउ, घरि बैठा लइता कणहलउ ।

पातिसाह नइ करता सलाय, कटकि उलगता

अलुखान ॥४५॥

इन पद्यों का वास्तविक अर्थ मुसलमानी इतिहासों को देखने से ज्ञात होता है जिनके अवतरण हमने आगे उद्धृत किए हैं। इस्लीम कानून के अनुसार लूट का कुछ भाग सुल्तान का और कुछ सैनिक का होता है। उलूगखां ने गुजरात से आते समय इस राज्य मार्ग को, जो यहाँ ‘पंचाध’ (पञ्चार्ध) के रूप में प्रस्तुत है बलात् सिपाहियों से वसूल किया था। मुहम्मद शाह और उसके साथी ‘अर्ध’ भी देने के लिए तैयार न थे, क्योंकि उन्होंने बहुत दिन तक सेवा की थी। वे उलूगखां के दुर्व्यवहार से असंतुष्ट थे।

उससे पूर्व उनका समान इतना था कि घर बैठे उन्हें वृत्ति मिलती थी, वे बादशाह को सलाम करते और उलुगखा की फौज में नौकरी बजाते। उलुगखा के दुर्वचनों से दुःखी होकर उन्होंने कालु मलिक को मार दिया, कटक में कोलाहल किया और जग देखते वहाँ आए थे :—

इणि बचनि वृहविया स्वामि,
कालु मलिक मार्यउ तिणि ठामि ।
कटक मांहि कुलाहल किया,
जग देखत इहाँ भाविया ॥४६॥

*) 'जाजा देवड़ा उस
मय अखांड में था।
र बीकन वहाँ घोड़ा
कर आया था।'

(*) जिस चउपड़ का अर्थ डा० गुप्त ने किया है
वह यह है —

हेडाउ जाजउ देवडउ, घोड़ाले आयु बीकणउ ।६८।
अखांड के लिए यहाँ कोई शब्द नहीं है।
शायद डा० गुप्त ने 'हेडाउ' का अर्थ अखांडा कर दिया
है। 'हेडाउ' राजस्थानी का विख्यात शब्द है।
'हेडाउ-मीरी' का ख्याल अब भी होली के समय
होता है। हेडाउ हेम बणजारे की कथा भी प्रसिद्ध
है। श्री मनोहर शर्मा ने इस दोहे की ओर भी
मेरा ध्यान आकृष्ट किया है :—

लाखै सरिसा लख गया, अनड सरिसा आठ।
हेम हेडाउ सारसा, बले न आया वाट ॥

‘बीकन वहाँ घोड़ा लेकर आया था’ अर्थ भी प्रसङ्गानुकूल नहीं है। सीधा अर्थ तो यही है कि हेडाउ जाजा बिक्री के लिये घोड़े लाया था। पाँच सहस्र घोड़ों से आक्रमण एक अश्वों का व्यापारी हेडाउ ही कर सकता था।

(६) “छावनी बीड़ी खाकर सोई हुई थी।”

(६) हम्मौरायण का पाठ है :—

“छाइणि सूता बीटि खानी ॥७१॥

उस समय के किसी ग्रन्थ में हमने नहीं पढ़ा कि छावनी बीड़ी खाकर सो जाती थी। यह दुरर्थ फिर प्राचीन राजस्थानी के ‘बीटि’ शब्द का अर्थ न समझने से हुआ है। वास्तविक अर्थ है :—

“खानने सोनी छाइणि (भाईन नगर) को घेर लिया।

(७) तदनन्तर उसने बाली नगर में पडाव किया

(७) मूल पाठ है—

‘बाली नगर ढाही अडिठाण’

अर्थात् उसने नगर को जलाकर अधिस्थान-राज्यस्थान तथा प्रवान स्थानों को ढहा दिया। बाली का अर्थ ‘जला कर’ राजस्थानी भाषा में प्रसिद्ध है।

(८) ‘हम्मौर ने सूभार की कोठी लूटी।’

(८) यहाँ हम्मौर का राज्य था अतः सूभार की कोठी यदि कोई होती तो अपने ही राज्य की होती। मूल में ‘कोठी सूभार’ शब्द है इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है समभवतः शाही शिविर को हम्मौर ने

लूटा है। सुर्जन चरित में इस बात का उल्लेख है कि हमीर ने शाही कैद को लूटा और अलाउद्दीन ने दूत द्वारा इस पर अपना रोष प्रकट किया।

(९) वह करमदी बीटि में आधी रात को पहुँच गया।

(९) पाठ है :—करमदी बीटी आधी राति ॥६७॥
‘बीटी’ का अर्थ वही ‘घेर लिया’ है। उसने आधी रात करमदी को घेर लिया। ‘बीटी’ शब्द हमीरायण में अनेकशः प्रयुक्त है।

(१०) मीर मुहम्मद नाम का बड़ा पठान था जो खुरासान से आया था।

(१०) चउपई यह है :—
मुहम्मद मीर मोटा पठान, बे ऊमटी आव्या खुरसाण।
मुगले काफर ते अनि घणा, मलिक मीर मीया नहमणा
॥९९॥

इसमें सरहदी अनेक जातियों के नाम हैं जो सुल्तान की सेना में सम्मिलित हुई थीं। मोहमद, पठान, खुरसाण, मुगल काफिर आदि के नाम स्पष्ट हैं। मोहम्मदी, मीर, मोटे पठान, खुरसाण सभी उमड़ कर आए थे।

(११) “नगर की समस्त जनता से मिल कर उसने बधावा किया।”

११. चउपई यह है :—
नगर लोक सहु मिल्या, बद्दावइ चहुभाण ;
गठ बधावइ अति घणउ, भरि भरि अंखि अयाण ॥१०॥
अर्थ यह है, “नगर के सब लोग मिले। बे चौहाण (हमीर) को बधाई देने लगे। अज्ञानी (बेसमक) लोग आंख भर भर गठ को भी अत्यन्त बधाई देते थे।”

यह सब राजपूती प्रथा है। गढ़ के पूजन के लिए १९१ वीं चौपाई देखें। आगे गढ़ को विदा भी है।

(१२) केडि—क्रीडा १५०

१२ केडिका यह क्रीडा अर्थ उपयुक्त नहीं है। 'केडि' का अर्थ पीछे या पश्चात् होता है गुजराती और राजस्थानी में इस शब्द का प्रचुर प्रयोग पाया जाता है।

(१३) "यह इम्मीर है जो कि दुर्ग के दृढ कपाट दे कर अड गया है रण-धम्मीर दुर्ग से मिड कर ही तू उसका समतुल्य जान सकेगा।

१३ छपद की अन्तिम दो पंक्तियाँ ये हैं —
रे अलावदीन इम्मीर यह, दिढकिमाड आडउ खरउ ।
रिणथंमि दुर्गा लगंतडा, दिव जाणीयड पटन्तरउ ॥१५६॥

यहां वास्तव में इम्मीर दृढ कपाट है। वह कपाट दे कर अड नहीं गया है। 'मडकिवाड़' चारणी साहित्य का प्रसिद्ध शब्द है (मडकिवाड़ शब्द के लिए नेणसी की ख्यात, भाग २, पृष्ठ २७७ भी देखें। पटान्तर अर्थ शायद अन्त. सत्त्व हो।

(१४) इमीर ने कहा है कि नगर के नाम को मलिन कर वह दोनों अमीरों को न देगा और न शायी-घोड़े या गढ को अर्पित करेगा

१४ यहाँ मूल पाठ 'न परणावउ डीकरी को गुप्तजी ने 'नयर णाव ऊंडीकरी' लिखा है और 'नगर' के नाम को मलिन कर' अर्थ करने की कष्ट कल्पना की है। देवलदे पुत्री के लिए बादशाह की माँग थी जिसके उत्तर में इम्मीर ने कहलाया कि "पुत्री नहीं परणाऊंगा"

१५. छत्तीस राज-
पूत जातियों के नाम ।

१६. युद्ध के आरम्भ
में सुल्तानी सेना के आगे
हम्मीर की सेना में भगदड़
पड़ गई जब निसुरतखां
ने हम्मीर के नौ लाख
ैनिक मारे ।

१७. 'शत्रु दल में
हलचल पड़ गई और
शाह-ए. आलम गढ़ पर
चढ़ पड़ा ।

१५. इनमें खाइडा, महुउडा, और रणमल जाति
नाम नहीं है । इसके लिये उदयपुर की प्रतिका
पाठान्तर दृष्टव्य है ।

१६. यह फिर दुरर्थ है । वउपई यह है :—

मार्या मीर मलिक जाम,

सगला दल मांहि पञ्चउ भगाण ।

नवलखि मास्या निसरखान,

बंभारव पञ्चउ तेणि ठाणि ॥१७२॥

वास्तविक अर्थ यह है :—

“जब उन्होंने मीर और मलिकों को मारा
सब (सुल्तानी) सेना में भगदड़ पड़ गई । नवलखी
(द्वार) के पास नुसरतखान को जब राजपूतों ने
मारा, तो उस स्थान में चीखना चिल्लाना शुरू हो
गया

नुसरतखां की मृत्यु के लिए आगे दिया ऐति-
हासिक वृत्त देखें ।

१७. दोहा यह है :—

कटक मांहि हल हल हुइ, हुउ दमामे घाउ ।

सुमट सनाह लेह मला, चडिउ आलम साह ॥१७४॥

अर्थ यह है :—

“कटक में हलचल हुई । दमामों पर चोट पड़ी ।
बीरोषित अच्छा कबच धारण कर शाह-ए-आलम
(अल्लाउद्दीन) ने गढ़ पर चढ़ाई की” ।

१८. “हम्मीर के योद्धा तलवार सेल और सींगनियों से बाण चला रहे थे, जब कि सुल्तानी सेना के ओर से यंत्र, नालें और ढींकुलियाँ चल रही थीं और ऐयार मार काट कर रहे थे (१८६-१८७)

१९. “पहिले दिन का युद्ध समाप्त होने पर लोग भोजन बनाने के लिए लकड़ी जला रहे थे कि बादशाह का फर्मान वहाँ से हटने के लिए हुआ और सभी लोग अपना सीधा सामान लेकर वहाँ से हट गए” ।

१८. इन चौपाइयों में कहीं यह निर्देश नहीं है कि इस पक्ष के योद्धा इन अस्त्रों को और विपक्ष के योद्धा उनसे भिन्न अस्त्रों को प्रयुक्त कर रहे थे ।

१९ इतिहास और भूगोल दोनों पर बिना ध्यान दिए शायद यही अर्थ समझ हो ।

दोनों चउपड़ ये हैं .—

पहिलउ रिण पूरउ लाकड़े, देइ बाग बाल्यउ तिय मड़े ।
कटक सहू नइ हुयउ फुरमाण, बेलू नखाउ तिणि
ठाणि ॥१९८॥

सुथण तणी बाधइ पोटली, मीरमलिक बेलू आणइ मरी ।
न करइ कोई भूम गढवाल, बेलू आणइ सहि पोटली
॥१९९॥

इसके वास्तविक अर्थ के लिए पाठक गण ऐतिहासिक अवतरणों को देख लें । उससे उनको निश्चय होगा कि चौपाइयों का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित हैं :—

पहिले उन्होंने रिण (की खाई) को लकड़ी से मरा , किन्तु उसे (इम्मीर के) सैनिकों ने जला डाला । (फिर) सब सेना को आज्ञा हुई 'उस स्थान पर बालू डलवाओ' सूयण (पायजामे) की पोटली बांध बांध कर मीर और मलिक बालू भर कर लाते । गढ के घेरने वाले कोई युद्ध न कर रहे थे । सभी पोटली में बालू ला रहे थे ।”

गुप्त जी की भूल का कारण यहाँ बेलु का अर्थ बालू न करके ब्यालु (भोजन) समझना है जिससे वे दुरर्था कर सके हैं अन्यथा यहाँ भोजन और सीधा सामान का प्रसंग ही क्या था ? यह शाही सेना थी, न कि भोजनभट्ट ब्राह्मणों की मडली, जो सीधा सामान उठा कर चली गई ।

फरिस्ता ने 'रिण की खाई' नाम देकर सब घटना का वर्णन किया है । इसामी की फुतूहुस् सखातीन और इम्मीर महाकाव्यादि से सब कथा पढ़ी जा सकती है ।

२०. इसके बाद राजा
नित्य पाल पर आता ।

२०, चउपई का अंश यह है :—

'राउ आगलि नित पालउ पडइ' (२०३)

यहाँ राजा पाल पर नहीं आता । उसके सामने 'पालउ' पढ़ता है । 'पाला' का अर्थ 'अखाड़ा' है ; सम्भवतः 'पाला पढ़ना' यहाँ 'मजलिस लगने के अर्थ में है ।

२१- धीरे-धीरे कृष्ण
महीना समाप्त हो गया
और गढ़ के लोग चिन्ता
तुर हो उठे (२००)
हम्मीर भी चिन्तित हुआ
और उसने गढ़ देवता से
युद्ध का परिणाम जानना
चाहा (२०१)

२२ 'बार वर्ष (या
वर्ष दिन १) हो गए ।'

२३ 'जीमने में वह
हमें अपने पैरों के पास
बिठाता है ।'

२१ पद्यांश निम्नोक्त है :—

छट्टई मासि संपूरण भख्यउ, ते देखी लोक मनि डख्यउ
कोसीसइ जइ पहुता हाथ, तुरका नपी समी छइ बाच्छ
२००

राय हमीर चित्ततुर ह्यउ, रिण पूख्यउ दुर्ग हिव गयउ
गढ देवति लही परमाथ, आणी कुची दीधी हाथि २०१

इसमें रिण के पूरा भर जाने पर गढ़ के कोसीसों तक हाथ पहुँचने लगे जिससे हम्मीर चिन्नातुर हुआ । गढ़ के अधिष्ठातृ देव ने परमार्थ (वास्तविक स्थिति) को समझ कर हम्मीर के हाथ में चामी दी । राय ने तब बारीउघाडी और अधिष्ठातृ देव की माया से पानी बह निकला । पानी से बालू बह गई, वह भोल फिर खाली हो गया ।

२२ 'या वर्ष दिन' अर्थ के लिए यहाँ कोई अवकाश नहीं है । युद्ध का समय चउपई २१२, २१६, और २१७ में 'बार वरिस' है । चाहे युद्ध इतना न चला हो, हम्मीरायण के लिए यही अर्थ उपयुक्त है । मल्ल के २१ वें कवित्त में भी युद्ध का काल 'वरिस दुवादस' है । इससे 'बार' का ठीक अर्थ स्पष्ट है ।

२३ जीमने में पैरों के पास बिठाने में कौन संमान है ? पद्यांश यह है :—

“जिमणइ गोडइ बइसारइ पासि” (२२४)
यहां ‘जिमणइ’ का अर्थ ‘जीवणा’ या ‘दाहिना
अधिक उपयुक्त है। राज दरबार में राजा के निकट
दाहिनी ओर बैठना सदा से प्रतिष्ठा सूचक रहा है।
(देखो मानसोल्लास या बीकानेर, उदयपुर आदि
राज्यों की दरबारी रीति-रिवाजों पर कोई पुस्तक)।

२४ ‘पहले तुमने
बड़े बड़े राज्यों को
जीता है।’

२४ पद्यांश यह है :—

“ तं मोटउ अगंजित राव”

इसका अर्थ है, “तू बड़ा अजित राजा है।”

(अजित शब्द के महत्व को गुप्त सम्राटों की
मुद्राओं पर देखें)

२५. ‘यह तब
समझा जायगा कि कोई
बड़ा प्रधान तुम्हारे पास
आया था जब तुम हमें
सम्मान देकर वापस करोगे’

२५. पद्यांश यह है।

तउ तुमिह आव्या बड़ा प्रधान।

घर मुकलावउ अम्ह नइ देइ मान ॥ २२५ ॥

“यह तब समझा जायगा” अर्थ न प्रासङ्गिक है
और न शान्दिक।

२६. ‘उसे बल से
क्यों नहीं ले लेते हो ?’

२६ पद्यांश यह है :—

“बंधवगढ़ नवि लीजइ प्राणि।”

इससे अगली पंक्ति में प्रधान कहते हैं कि यदि
उन्हें पूरी बँदी दी जाय तो वे बल प्रयोग के बिना
गढ़ दिला सकते हैं। इसलिए उपयुक्त अर्थ होगा—

“इसे बल के प्रयोग से नहीं लिया जा सकता।”

२७. 'कोठारी से उन्होने कहा, "धान्य फेंक कर तुम भी सब के समान निश्चिष्ट पड़ जाओ।"

२७. पद्यांश यह है :—

कोठारी नइ बोत्यउ विरउ,

धान नखावि सहु तउ परउ ॥२३४॥

इससे अग्रिम चउपइ में हमें यह सूचना भी मिलती है। 'तिणि नीचि नाख्या सहु धान।' किन्तु दुर्ग में उस समय तक कोई निश्चेष्ट था ही नहीं। इसलिये निश्चेष्ट पढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। धान नखावि (नखाव) सहु तउ परउ का अर्थ यही है कि 'तू सब (सहु) धान्य दूर (परे, परउ) फिकवा दे (नखाव)।'

२८ 'वे राजा को यह विश्वास दिलाते रहे कि उसकी सेना के आगे शत्रु निरन्तर क्षीण पड़ता जा रहा है, केवल एक बार [और] उसे परिग्रह को [रणक्षेत्र में] देने की आवश्यकता थी।'

२८ चउपइ यह है :—

रिणमल रउपाल मांगइ पसाउ, एक बार परघउ दउ राउ,
कटक कीलउ करां अति मलउ, जे में तुरक पाडां
पातलउ ॥२३६॥

वास्तविक अर्थ यह है :—

'रिणमल और रायपाल ने यह प्रसाद (favour) मांगा, "एक बार राय हमें परिग्रह (सेना) दें। हम कटक में भली क्रीडा करेंगे, जिससे हम तुकों को कमजोर कर सकें।

अपभ्रंश और राजस्थानी के जानकार 'पसाउ' 'परघउ', 'कीलउ' 'पातलउ' आदि शब्दों से अच्छी तरह परिचित हैं। 'पातलउ' पातला (पतला) है।

२९. “इन दोनों ने प्रच्छन्न रूप से ऐसा कुछ किया कि सवा लाख (सपादलक्ष) का परिग्रह स्वामिद्रोह करके बादशाह से जा मिला ।”

(३०) जाजा ने कहा, “घर बड़ जावे जो माना पिता के अतिरिक्त तीसरे का जन्मा हो ।”

(३१) महिमाशाहि ने कहा कि तो वह कोठार के धान्य और गढ की रक्षा करेगा ।

२९. चउपड़ यह है :—
‘राय तणइ मनि नहीं बिशेष, द्रोहे कीधउ काम अलेख
सवालाख परिघउ (दइ) रावु, द्रोहे मिल्या जाइ
पतिसाहि ॥२३७॥
‘अलेख’ का अर्थ ‘अलेख्य है । इसी ‘अलेख्य’ कार्य को कवि ने २२२ वीं चउपड़े में भी इंगित किया है । द्रोह का उत्तरदायित्व शायद कवि ने प्रधानो पर ही रखा है ।

(३०) पयांश यह है:—

‘जाजउ कहइ ति जाउ,
जे जाया तिह जण तणा ॥२४८॥

समवत: ‘निह जण’ का अर्थ डा० गुप्त ने तीसरा जन किया है । वैसे “निह जण” का अर्थ ‘वह (अव-क्तव्य) पुरुष’ अर्थात् जार प्रतीत होता है । मल्ल के कवित्त में इसी प्रसंग में ‘तसै जणै’ है (पृष्ठ ४९ दूहा ३)

(३१) चउपड़े यह है:—

महिमासाहि इसिउं कहइ, निसुणि राय हमीर ।
धान जोवाडि कोठार ना, गढ राखां तउ मीर ॥२५४॥
अर्थ यह है:—

महिमा साहि ने कहा, ‘हे राय हमीर, सुनो । तुम कोठार के धान्य को दिखवाओ ।’
(‘धान्य होगा) तो हम गढ़ रखेंगे ।’

इससे अभ्रिम चौपाई में यह बणित है कि राज ने कोठारी से पूछा कि कोठार में कितना धान है। बनिये ने सब अंबार खाली दिखा दिए।

(३२) उसने भृत्य माहेश्वरी को प्रधान बनाने तथा दोनों अमीरों को सम्मान देने के लिए कह कर कुमार को विदा किया।

(३२) मूल पद्यांश 'रखे महेसरी करउ प्रधान (३२५) में 'रखे' शब्द का अर्थ डा० गुप्त ने गलत किया है यह अव्यय है और फलितार्थ निषेधात्मक है श्री जिनराजसूरि और श्रीमद् देवचन्द्रजी आदि राज स्थानी तथा गूजराती के कवियों ने इसका प्रचुरता से प्रयोग किया है। गूजरात में तो आज भी बोलचाल में निषेध पर बल देने के लिए यह शब्द पर्याप्त प्रचलित है। अतः यहां माहेश्वरी प्रधान बनाना निषिद्ध किया है। आगे महेसरी ना बाढिज्यो कान भी निषेध का ही समर्थक है।

(३३) मुकलावइ = मुक्त किया। (२७४)

(३३) मुक्त के स्थान पर 'विसर्जन करना या विदा देना अधिक उपयुक्त है।

(३४) "जमहर (जौहर) करने के लिए इम्मीर ने घोड़ा पलाणा।"

(३४) चउपड़े यह है:—

जमहर करी छड़उ हुयउ, इमीर टे चहुआण।

मवालाख समरि धणी, घोडई दियइ पलाण ॥२७९॥

इम्मीर ने जौहर करने के लिए नहीं अपितु जौहर कार्य से विरत होने पर घोड़ा पलाणा। जमहर स्त्रियों के लिए था, पुरुषों के लिए जौहर के बाद आमरणान्त युद्ध।

(३५) “[यह सुनकर]
राजा ने अपने आप ही
अपना गला काट डाला ।”

(३५) पद्यांश यह है:—

राव पवाडउ कीयउ मलउ

आपणही सारयउ जै गलउ ॥२९३॥

राजा ने यह बड़ा पवाड़ा किया कि अपने ही
हाथ अपना गला काट डाला ।

‘पवाड़ा’ के अर्थ पर हमने आगे विचार किया है ।

३६- उसने मांगा कि
रणमल, रायपाल तथा गद
के कोठारी की खाल एक
अंगूठा मोटी निकलवा ली
जाय ।

(३६) यह अर्थ संगत नहीं कहा जा सकता ।
मनुष्य की खाल और एक अगूठा मोटी व वह गेंडा
तो नहीं है । ‘अंगूठा थकी का अमिप्रेत अर्थ
‘अगूठा मोटी’ न होकर अंगूठे तक की (अर्थात् समस्त
शरीर की) खाल है । अंग्रेजी में इसे *Playing
alive* कहते हैं ।

हम्मीर महाकाव्य से तुलना

हम्मीर महाकाव्य में भी हम्मीर की कथा का विशद वर्णन है । हम्मीराबण
का रचना समय सं० १५३८ है । हम्मीर महाकाव्य की रचना ग्वालियर के तबर
राजा वीरम के समय हुई, जिसकी ज्ञात निश्चित तिथियाँ सं० १४५८ और
१४७९ हैं (तारीख मुबारकशाही, १७७, प्रशस्ति संग्रह, महावीर ग्रन्थमाला,
द्वितीय पुष्प, जयपुर, पृ० १७३, पक्ति २४) । हम्मीर महाकाव्य में हम्मीर की
सब जीवनी का वर्णन है, उसकी जानकारी कुछ अधिक परिपूर्ण और प्राचीन
आधारों पर आश्रित प्रतीत होती है । अलाउद्दीन से संघर्ष के बारे में दी हुई
दोनों काव्यों की सूचनाओं में जो अन्तर है, उसे कोष्टक रूप में हम इस प्रकार
प्रस्तुत कर सकते हैं :—

हम्मीरायण

१, जयतिगदे का पुत्र हम्मीर दे जब रणथम्भोर में राज्य कर रहा था, अल्लखान के विद्रोही सरदार महिमासाहि और मीरगामरू ने हम्मीर की शरण ली। महाजनों ने उनके व्यय भादि को ध्यान में रखते हुए राजा को उन्हें निकाल देने की सलाह दी। किन्तु राजा ने इस पर ध्यान न दिया। इस पर अल्लखान बहुत बड़ी सेना लेकर रणथम्भोर पर चढ़ आया। (१८-६६)

(२) अल्लखान की चुपचाप चढ़ाई का किसी को पता न था। किन्तु रास्ते में माग्यवशात् जाजा देवड़ा भी वहाँ आ उतरा जहाँ अल्लखान की कुछ सेना का पड़ाव था। जाजा ने उसकी सेना को नष्ट किया और खबर

हम्मीर महाकाव्य

(१) जैत्रसिंह के पुत्र हम्मीरदेव ने गद्दी पर बैठते ही दिग्विजय का निश्चय किया और मालवा, मेवाड़, आबू, बदनोर, अजमेर, सांभर, मरोठ, खंडेला, चम्पा, ककराला, तिहुनगढ आदि पर विजय प्राप्त कर रणथम्भोर वापस आया। तदनन्तर उसने कोटि यज्ञ किया और पुरोहित के कहने पर एक मास का मौनव्रत धारण किया। उसी समय अल्लखान को अला-उद्दीन ने कहा, 'रणथम्भोर का राजा हमें कर दिया करता था। उसका पुत्र हम्मीर तो हम से बात भी नहीं करता। इस समय वह व्रत में स्थित है। तुम जाकर उसके देश का विनाश करो' (सर्ग ९, १-१०४)

(२) अल्लखान बनास के किनारे पहुँचा। घाटी के अन्दर घुसने में अपने को असमर्थ पाकर वह वहाँ ठहरा। सेनापति भीमसिंह और मन्त्री धर्मसिंह ने उसकी फौज पर आक्रमण किया। मुसलमानी फौज हारी। इधर-उधर लूटपाट कर धर्मसिंह तो रणथम्भोर की ओर लौट गया। किन्तु दूर में प्रवेश करती समय भीमसिंह के सिपाहियों ने मुसलमानों से छीने हुए नगरों को बजा डाला। उसे अपनी जय का संकेत समझकर तितर-बितर हुए मुसलमानी

रणथंभोर में दी। उधर अल्लखान बढकर हीरापुर घाट पर जा उतरा। हम्मीरदे ने महिमासाहि और अनेक क्षत्रियों की सेना के साथ अल्लखान पर आक्रमण किया। अल्लखान पराजित होकर भागा और बादशाह तक पुकार हुई। (६७-८३)

३. अल्लाउद्दीन ने क्रुद्ध होकर बहुत बड़ी सेना एकत्रित की और रणथंभोर को जा घेरा। मोल्हठ भाट के मुख से की हुई देवलदेवी, गढ़, हाथी आदि की मांग हम्मीर ने ठुकरा दी।

सिपाही एकत्रित हो गए। भीमसिंह वीरता से युद्ध करता हुआ मारा गया।

व्रत के पूरा होने पर हम्मीर ने धर्मसिंह को नपुंसक, अघा आदि कहते हुए उसे वास्तव में शरीर से अन्धा और नपुंसक बना दिया। धर्मसिंह का पद उसने खांडाघर भोज को दिया। किन्तु कुछ दिन बाद धन की आवश्यकता पड़ने पर उसने अंधे धर्मसिंह को फिर अपने पुराने पद पर नियुक्त कर दिया। प्रजा को अनेक करों से पीड़ित कर उसने राजा के विरुद्ध कर दिया। भोज को भी राजा और धर्मसिंह ने इतना तग किया कि वह और उसका भाई पीथसिंह यात्रा के बढाने दिल्ली जाकर अलाउद्दीन के नौकर हो गए। भोज के चले जाने पर हम्मीर ने दण्डनायक का पद रतिपाल को दिया (सर्ग ९, १०६-१८८)

३ भोज की सलाह से अलाउद्दीन की सेना न फसल कटने से पहले रणथंभोर पर आक्रमण किया। उल्लखान जब इन्दूवाट पहुंचा तो हम्मीर के सेनानियों ने आठ ओर से उस पर आक्रमण किया, पूर्व से वीरम ने, पश्चिम से महिमासाहि ने, जाजदेव ने दक्षिण से, उत्तर से गर्भरुक ने, आग्नेय दिशा से रतिपाल ने, बायब्य से तिचर ने, ईशान से रणमल्ल ने और नैर्ऋत से वैचर ने। मुसल्मानी सेना बुरी

महिमासाहि और इम्मीर के राजपूतों ने मुसलमानी सैन्य को रौंद डाला और निसरखान को मार डाला । (८४-१७३)

४ अब सब प्रान्तों और देशों की फौज लेकर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया । इम्मीर ने भी इस अवसर पर कृत्तिस कुलके राजपूतों को बुलाया । युद्ध आरम्भ हुआ, बादशाह उसे एक ओर खड़ा देखता । बादशाही सेना हारी । बहुत से भीर और मलिक मारे गए । खबर लेने पर मालूम हुआ कि सवा लाख आदमी समाप्त हुए हैं । (१७४-१९२)

तरह पराजित हुई और उल्लूखान जान लेकर भागा । रतिपाल ने बन्दी मुसलमानी स्त्रियों से गाँव-गाँव में छाछ भिक्वाई । राजा ने रतिपाल को खूब पुरस्कृत किया (१०-१-६३)

इसी समय इम्मीर से आज्ञा प्राप्त कर महिमासाहि आदि ने भोज की जागीर पर आक्रमण किया और उसके भाई को सकुटुम्ब पकड़ कर ले आए । एक तर्फ से रोता धोता भोजदेव और दूसरी ओर से पराजित उल्लूखान अलाउद्दीन के दरबार में पहुँचा ।

अलाउद्दीन ने इम्मीर का समूल उच्छेद करने का निश्चय किया और राज्य के प्रत्येक प्रान्त से सेनाएँ मंगवाई (१०-६४-८८) सुल्तान के भाई उल्लूखान और निसुरत्तखान ने इम्मीर को पराजित करने के लिए प्रयाण किया । दरों को पार करना कठिन था इसलिए दोनों माहियों ने सन्धि-मन्त्रणा के बहाने मोल्हण को इम्मीर के पास भेजा, और छल से दरों में प्रवेश कर मुण्डी, प्रतौली और श्री मण्डपदुर्ग एवं जैत्रसर आदि के चारों ओर अपनी सेना के पड़ाव डाल दिए (११-१-२४)

मोल्हण यथा तथा दरबार में पहुँचा, और उसने इम्मीर से लाख स्वर्णमुद्राओं चार हाथियों, तीन सौ घोड़ों और राजकन्या की मांग की । विशेषतः

मांग चार मुगलों की थी जिन्होंने उन भाइयों की आज्ञा भंग की थी (११,५९-६०)। हम्मीर ने उसे धमकाते हुए कहा, यदि तुम दूत रूप में न आये होते तो मैं तुम्हारी जीम निकलवा डालता। जिस तरह हाथी आदि के जीवित रहते कोई हाथी के दाँत, सर्प की मणि और सिंह की केसर-पंक्ति को नहीं ले सकता, इसी तरह चौहान के धन को उसके जीते कोई ग्रहण नहीं कर सकता। शरणागत शत्रुओं की सामान्य पुरुष भी रक्षा करते हैं। मुझ से मुगलों को मांगने वाले तुम्हारे स्वामी तो सर्वथा मूर्ख होंगे। मैं एक विश्वे के शतांश को भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो तुम्हारे स्वामी से बन पड़े, वह करे (११-२५-६८)

हम्मीर ने उसके बाद पूरी तैयारी की मुसलमान सेनापतियों के दुर्ग-ग्रहण के अनेक प्रयत्नों को उसने विफल किया। एक दिन युद्ध में दुर्ग से चलाया हुआ एक गोला शत्रु के गोले से भिड़कर उड़ला और उससे निसुरत्तिखान मारा गया। (११-६९-९९)

निसुरत्तिखान का अन्तकृत्य कर इस बार अलाउद्दीन स्वयं रणथंभोर पहुँचा। प्रातःकाल होते ही हम्मीर ने आक्रमण किया। दिन भर घोर युद्ध हुआ। इसी प्रकार दूसरा दिन भी भयंकर युद्ध में

बीता। इस युद्ध में मुसलमानी फौज के ८५,००० योद्धा काम आए। (१२-१-८९)

५. एक दिन हम्मीर सिंहासन पर बैठा था। उसके आदेश से महिमासाहि ने अलाउद्दीन के सातों छत्र काट डाले। सुल्तान ने लकड़ों से खाई को भरने का यत्न किया। जब हम्मीर के सैनिकों ने लकड़ियाँ जलादी तो सुल्तान ने बालू से खाई को भर कर गढ़ लेने का प्रयत्न किया। किन्तु गढ़ के अधिष्ठातृ देव की माया से ऐसा पानी आया कि बालू बह गई।

(१९३-२०२)

हम्मीर के सामने धारू और बारू नर्त, कियों सुल्तान को पीठ दिखाकर नाचती थी। सुल्तान ने बन्धनमुक्त महिमासाहि के चाचा द्वारा उन्हें एक बाण में ही मरवा डाला।

५. एक दिन हम्मीर की मजलिस जमी थी। गाना हो रहा था। उसी समय सुन्दरी धारादेवी नर्तकी ने वहाँ आकर नृत्य शुरू किया। मयूरसन बन्ध से नृत्य करते हुए उसने ताल-त्रुटि के समय सुल्तान को पश्चाद्-भाग दिखाया। इससे खिन्न होकर अलाउद्दीन ने कहा, “क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसे बाण से मार गिराए। सुल्तान के भाई ने उत्तर दिया, ‘तुमने उद्धानसिंह को कैद में डाल रखा है। वही यह काम कर सकता है।’ बादशाह ने उद्धानसिंह की बेडियाँ कटवा दी और उस पर कृपा दिखाई। उस दुष्ट ने बाण से धारा को मार कर दुर्ग की उपत्यका में गिरा दिया। महिमासाहि ने बादशाह को मारना चाहा, किन्तु हम्मीर के मना करने पर उसने उद्धानसिंह को ही मारा। उसके विनाश से चकित होकर अलाउद्दीन ने अपना डेरा तालाब के दूसरी ओर कर दिया। (१३-१-३८)

सुल्तान ने खाई को पूलियों, उपलों, और लकड़ियों के टुकड़ों से भरवा दिया और एक और गढ़ के निकट सुरग पहुँचा दी। किन्तु हम्मीर ने खाई सामान को अभि के गोलों से और सुरग के आदमियों

बारह वर्ष तक इस तरह युद्ध चला (पृष्ठ २१२) (२०३-२१२)

६ दिल्ली से वापिस आने की अर्ज होने लगी। तब बादशाह ने इम्मीर को कहला कर भेजा, "बारह वर्ष युद्ध की सीमा है। हम पर्याप्त रण-क्रीड़ा कर चुके हैं। अब मुझे बिदा दो। मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ।" लोगों की सलाह से इम्मीर ने अपने दो अत्यन्त विश्वस्त प्रधानों को बात चीत के लिए भेजा। बादशाह ने उन्हें खूब मान दिया। उन्हें पूरी बून्दी और कुछ अन्य ग्राम का भी आश्वासन देकर बादशाह ने उन्हें अपनी ओर मिला लिया (२१३-२३०)

७ जब इम्मीर ने पूछा तो मन आई बात बना दो कि बादशाह तो

को लाख के तेल से जला दिया। इस प्रकार से उसने बादशाह के अनेक उपायों को व्यर्थ किया। (१३-३९-४८)

६. वर्षा आ गई। यथा तथा संधान की इच्छा से अलाउद्दीन ने दूतों द्वारा रतिपाल को बुलाया। उसे खूब प्रसन्न किया। और उसके सामने अचल पसार कर कहने लगा, "मैं उस दुर्ग को लिए बिना गया तो मेरी सब कीर्ति लुप्त हो जाएगी। किन्तु मेरे सौभाग्य से तुम आ गए हो। मैं तो केवल विजय का इच्छुक हूँ। यह राज्य तो तुम्हारा ही होगा।" सुल्तान ने उसे खूब मदिरा पिलाई। बादशाह को वचन देकर रतिपाल वापस लौटा।

(१३-४९-८२)

७ रणथंभोर लौट कर रतिपाल ने राजा को भड़काते हुए कहा, "अलाउद्दीन कहता है कि वह मूर्ख अपनी लड़की को न देगा तो मैं उसकी स्त्रियों को

देवलदे को मांगता है। देवलदे ने कहा, “मुझे देकर तुम अपने को बचाओ। समझ लेना कि मैं पैदा ही नहीं हुई, या ज़ोटी अवस्था में ही मर गई। किन्तु इम्मीर ने इस बात पर ध्यान न दिया। (२३१-२३३)

८. कोठारी से मिल कर उन्होंने सब धान दूर गिरवा दिया। उससे कहा, हमें पूरी बूँदी मिली है हम तुझे प्रधान बनाएंगे। फिर रणमल और रतपाल ने इम्मीर से सेना मांगी। उन्होंने कहा, हम ऐसी रणक्रीडा करेंगे कि शत्रु कमजोर बच

भी छीन लूँगा। इस पर मैं उसे मर्त्सना दे कर मैं चला आया हूँ। रणमल आप से नाराज है। इसलिए पाँच सान आदमी ले जा कर आप उसे राजी कर लें।” जब बीरम के पास हो कर रतिपाल निकला तो शराब की गंध से उसने अनुमान कर लिया कि रतिपाल शत्रु से मिल गया है। किन्तु राजा ने रतिपाल के विरुद्ध कार्य करना उचित न समझा। उधर रानियों के कहने से देवलदेवी पिता के पास पहुँची और अनेक नीतियुक्त वाक्यों से उसे अपने प्रदान के लिए समझाया। किन्तु इससे प्रसन्न होने के स्थान पर इम्मीर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ। उसने पुत्री की बातों का समाधान कर उसे वापस अपने स्थान पर भेज दिया। (१३-८४-१२९)

८ उधर रतिपाल ने रणमल के पास जाकर कहा, भाई! यहाँ से भागो। राजा तुम्हें पकड़ने आ रहा है। तुम्हें अभी विश्वास न हो तो सायंकाल के समय जब वह पाँच सान आदमियों के साथ आए तो मेरा वचन सत्य मान लेना।” राजा को उसी तरह आता देख रणमल गढ़ से उतर कर शत्रु से जा मिला। उनकी दुश्चेष्टा से खिन्न होकर जब राजा ने कोठारी जाहड़ से अन्न के बारे में पूछा तो सन्धि

जाएगा।” संशय रहित राजा ने उन्हें सब सेना दी। वे बादशाह से जा मिले। गढ़ में कोई ऐसा व्यक्ति न रहा जिसके हाथ में हम्मीर हथियार दे।

(२३४-२४०)

९ हम्मीर ने शेष लोगों को बुलाया और कहा, “मैं तुम्हारा ठाकुर हूँ, तुम मेरी प्रजा। कहो मैं तुम्हें कहाँ पहुँचाऊँ ?” किन्तु वे जाने को राजी न हुए। उसने जाजा से कहा, ‘जाजा तुम जाओ। तुम परदेशी पाहुणे हो।’ किन्तु जाजा ने भी यह कहते इन्कार किया कि ऐसे समय में वही लोग जाएंगे जो ऐसे वैसे व्यक्तियों की सन्तान है। दोनों मीरों ने तो यह भी कहा कि वह उनका समर्पण कर दुर्ग का उद्धार करे। किन्तु हम्मीर इसके लिए तैयार न हुआ।

की इच्छा से उसने कहा कि अन्न है ही नहीं।

(१३०-१३०-३७)

९ इस सार्वत्रिक कृतघ्नता से खिन्न होकर उसने महिमासाहि को बुलाया और कहा, तुम विदेशी हो। तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है। जहाँ कहो मैं तुम्हें पहुँचा दूँ। हम तो क्षत्रिय हैं। अपनी जमीन के लिए प्राणों की आहुति देना हमारा तो धर्म है।’ इन वचनों से मर्माहत होकर महिमासाहि घर पहुँचा और स्त्री, बालकादि सब को तलवार की धार उतार कर हम्मीर से कहने लगा, “तुम्हारी भाभी जाने से पूर्व एकबार तुम्हारे दर्शन करना चाहती है।” राजा वहाँ पहुँचा और घर के उस वीभत्स दृश्य को देख कर मूर्छित हो गया। सचेतन होते ही महिमासाहि के गले लग कर अपने को धिक्कारता हुआ वह विलाप करने लगा।

(१३८-१६६)

दुर्ग रक्षा का फिर विचार होने लगा। किन्तु हम्मीर ने जब कोठारी से धान्य के बारे में पूछा तो उसने जा कर खाली कोठे दिखा दिए (२४१-२५५)

१०. राजा ने अब जमहर (जौहर) करने का निश्चय किया। वीरमदे से उसने जाने के लिए कहा किन्तु वह राजा न हुआ। तब उसने कुमार को तिलक दिया, उचित शिक्षा दी, और उसकी मां के साथ उसे वहाँ से निकाल दिया। हाथियों और घोड़ों को हम्मीर के अनुयायियों ने मार डाला। घर घर में लोगों ने जमहर किए। तमाम रणथमोर ऐसा जला मानो हनुमान् ने लका में अग्नि लगाई हो।

इसके बाद हम्मीर ने फिर कोठे देखे तो उन्हें धान्य से परिपूर्ण पाया।

१० वहाँ से लौट कर जब उसने कोठागार को देखा तो उसमें उसे अन्न से परिपूर्ण पाया। जाहड़ ने झूठ बोलने का कारण भी बताया। “तेरी बुद्धि पर बज्र पड़े”, कहते हुए राजा ने बाहर जाने के इच्छुक नागरिकों के लिए मुक्ति द्वार खोल दिया और बाकी को जौहर की आज्ञा दी। स्वयं दानादि दे और भगवान् जनार्दन की अर्चना कर वह पद्मसर के किनारे पर बैठ गया। रंगदेवी आदि रानियों ने अपने को सुभूषित किया। राजा ने सतुष्ट हो कर अपनी केशपट्टिका काट कर उन्हें दी। फिर देवलदेवी को गले लगा कर वह रो पड़ा। रानियां हम्मीर की केशपट्टिका हृदय पर रख कर अग्नि में प्रवेश कर गईं। उन्हें अन्त्याञ्जलि देकर राजा ने जब जाजा को भेजा तो वह नौ हाथियों के सिर काट कर राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, जिस प्रकार रावण ने शिव की अर्चना की थी, वैसे ही मैं तुम्हारी अर्चना करता हूँ। ये नौ सिर हैं, और दसवाँ सिर मेरा होगा।”

जाजा वीरभदे और दोनों मीर गढ़ की रक्षा के लिए तैयार थे, किन्तु इम्मीर ने कहा, “अब अनर्थ हो चुका है। अब जीने से क्या लाभ ?”

(२५६-२७७)

११ गढ़ में केवल ये रहे-वीरभदे, इम्मीरदे, मीर (गामरू), महिमासाहि, माट और पाहुणा जाजा। इम्मीर घोड़े पर चढा, किन्तु वीरभ को पैदल देख कर घोड़े से उतर पड़ा और घोड़े को अपने हाथ से मार डाला। दोनों मीर, फिर जाजा, उसके बाद वीरभ ने युद्ध किया इम्मीर ने स्वयं अपने हाथों गला काट कर अपनी इह लीला समाप्त की।

संवत् १३७१ ज्येष्ठ

वीरभ ने राज्य को तिरस्कृत कर दिया, तब राजा ने प्रसन्नता पूर्वक जाजदेव को राज्य दिया, और स्वप्नागत पद्मसर के आदेशानुसार उसने सब द्रव्य पद्मसर में डाल दिया। फिर इम्मीर की आज्ञा से वीरभ ने छाहड़ का सिर काट डाला (१३-१६९-१९२)

११. वीरभ, सिंह, टाक, गङ्गाधर, चारों मुगल बन्धु और क्षेत्रसिंह परमार इन वीरों के साथ इम्मीर युद्ध में उतरा। पहले वीरभ काम आया। फिर शत्रुबाणों से महिमासाहि को मूर्च्छित देख कर इम्मीर आगे बढ़ा और अनेक शत्रुओं का वध कर स्वयं अपने हाथ से ही मरा। उसके लिये यह असह्य था कि शत्रु उसे जीता पकड़े। युद्ध की तिथि श्रावण शुक्ल षष्ठी रविवार था। (१३-१९२-२२५)

सूर वशी रतिपाल को और रणमल्ल को धिक्कार है। अभिनंद्य वह जाजा है जिसने इम्मीर की मृत्यु के बाद भी दो दिन तक दुर्ग की रक्षा की। दो न न कहने से हाँ का अर्थ बनता है यह सोचकर जिसने इम्मीर के “जा, जा” का अर्थ ‘ठहर जा’ किया और स्वामि की आज्ञा का भङ्ग किए बिना उसकी सेवा की वह जाजा चिरजयी हो। अहङ्कार निकेतन उस महिमासाहि का बणन तो क्या किया जाए जिसने प्राणान्त पर भी शत्रु के सामने सिर न झुकाया। उस वीर महिमासाहि की बराबरी कौन कर सकता है जो पकड़े जाने पर पैर को आगे दिखाता हुआ

अष्टमी शनिवार के दिन हम्मीर काम आया और गढ़ टूटा । (२७८-२९४)

अलाउद्दीन की सभा में हुआ, और जिसने यह पूछने पर कि यदि मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूँ तो तुम मेरे लिए क्या करोगे, यह उत्तर दिया, 'वही जो तुमने हम्मीर के लिए किया है ।' (१४-१-२०)

१२. युद्ध के बाद अलाउद्दीन रणक्षेत्र में आया । जब उसने हम्मीर के विषय में पूछा तो रणमल ने पैर से उसे दिखाया । इनने में भाट नल्ह ने हम्मीर की विरुदावली पढ़ी और बादशाह को सब सिर दिखाए—जाजा का जिसने जलहरी रूपी रणधंभोर में स्थित अपने स्वामीरूपी महादेव की अपने सिर से पूजा की थी, वीरम का गामरू और महिमासाहि का और हम्मीर का भी । जब बादशाह ने उसे वर देना चाहा तो उसने यही प्रार्थना की कि स्वामिद्रोही रतिपाल आदि को प्राण-दण्ड दिया जाए और उसके बाद उसकी भी इह-लीला समाप्त की जाए । बादशाह ने रायपाल, रणमल, और बनिए की खाल निकलवा कर भाट को प्रसन्न किया । भाट का इनन कर उसने उसकी इच्छा पूर्ति भी की । राजा, मीर भादि की उसने उचित अन्त्य-क्रिया की । (२९५-३२३)

१२. पूछने पर जिसने रणक्षेत्र में पड़े हम्मीर के सिर को पैर से दिखाया, और पूछने पर राजा से प्राप्त कृपाओं का भी वर्णन किया, उस रतिपाल की अलाउद्दीन ने जो खाल निकलवा ढाली वह ठीक ही किया । (इससे मानों उसने यह उपदेश दिया कि) कोई स्वामिद्रोह न करे । (१४-२१)

काव्य कथाओं में सत्यासत्य का विवेचन

हम ऊपर हम्मीरायण का सार दे चुके हैं । किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से विषय के अध्ययन के लिए कोष्ठकों में किसी अंश में उसकी पुनरावृत्ति आवश्यक हुई है । उन्हें देखने से यह स्पष्ट है कि हम्मीरायण और हम्मीरमहाकाव्य की कथाओं में पर्याप्त समानता है । हम्मीरमहाकाव्य के अनुसार हम्मीर की मृत्यु के बाद कवियों ने हम्मीर विषयक अनेक छोटी मोटी रचनाएं की । शायद यही रचनाएं हमारे काव्यों की मूलस्रोत हों । किन्तु वह भी असम्भव नहीं है कि 'भाण्डव' व्यास ने हम्मीरमहाकाव्य को सुना और उसका कुछ आश्रय भी लिया हो ।

विशेषतः कथाओं का अन्तर विवेच्य है । जहाँ दोनों कथाओं में भिन्नता है, उसमें कौन प्राह्य है और कौन अप्राह्य ? न केवल यह कहना पर्याप्त है कि यह कथा कल्पित प्रतीत होती है, या 'यह अधिक प्रमाणिक है क्योंकि इसमें अधिक विस्तार नहीं है' । और न हम पारस्परिक कथाओं को केवल अन्य कथाओं के मौन के आधार पर ही एकान्ततः तिलांजलि दे सकते हैं । जो बात हमें एक स्थान पर न मिली है वह शायद अन्यत्र मिल सके । समसामयिक आत ग्रंथों और अभिलेखों के विरुद्ध जानेवाली परम्परा का हमें अवश्य त्याग करना पड़ता है । किन्तु वहाँ भी आसता आवश्यक है । पूर्वाग्रह वहाँ भी हो सकता है । मुसलमान इतिहासकार यदि हिन्दू राजा के विषय में कुछ लिखें या चारण और भाट किसी सुल्तान, अमीर आदि के विषय में तो दोनों के लेखों की कुछ परीक्षा करनी पड़ती है । इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम अभिलेखों, खजानेजुल फुलह, तारीखे फिरोजशाही, फुतू हुस्सलातीन, तारीखे फरिश्ता आदि तबारीखों

और चारणी साहित्य की अनेक पुस्तकों का विषय विवेचन में यथासमय प्रयोग करेंगे।

हम्मीरायण ने हम्मीर के पिता का नाम जयतिमदे दिया है और हम्मीर महाकाव्य ने जैत्रसिंह। हम्मीर के वि० १३४५ के शिलालेख में जैत्रसिंह नाम ही है, किन्तु यह सम्भव है कि बोलचाल की भाषा में जैत्रसिंह का नाम जैनिग ही रहा हो। हम्मीरायण ने युद्ध का केवल मात्र यही कारण दिया है कि हम्मीर ने विद्रोही मुगल सरदार महिमाशाहि और गर्भरूक को शरण दी थी। हम्मीरमहाकाव्य को भी यह कारण अज्ञान नहीं है। किन्तु उसने मुख्यता अन्य राजनैतिक कारणों को दी है। एक देश में दो दिग्विजयी नहीं हो सकते। अलाउद्दीन को यह बात खलती थी कि रणथंभोर उसे कर नहीं दे रहा था, वही रणथंभोर जो किसी समय दिल्ली के अधीन था उधर हम्मोर कोटिमुखी था, उसे अपने बल का गर्व था। भोज के प्रतिशोध की कथा बाद में आती है उससे काव्य में रोचकता अवश्य बढ़ी है, किन्तु यह समझना भूल होगा कि हम्मीरमहाकाव्य ने उसे प्रमुखता दी है। वास्तव में उसका दृष्टिकोण प्रायः वही है जो तारीखे फिरोजशाही का। उसे भी मुहम्मदशाह की कथा ज्ञात थी, तो भी प्रमुखता उसने अलाउद्दीन की दिग्-जिगीषा को ही दी है। और वास्तव में यह बात है भी ठीक। इन दोनों उच्चाभिलाषी व्यक्तियों में युद्ध अवश्यम्भावी था चाहे मुहम्मदशाह हम्मीर के दरबार में शरण ग्रहण करता या न करता। उत्तर के अन्य राज्यों में कौन मुहम्मदशाह पहुँचे थे जो अलाउद्दीन ने उनपर आक्रमण किया ? विरोधाग्नि तो अलाउद्दीन के समय से पहले ही ज्वलित ही चुकी थी। उसमें मुहम्मदशाह को शरणदान ने एक प्रबल अहङ्गि देखकर

धूर्णतः प्रज्वलित कर दिवा । इसके अतिरिक्त अन्य घटनाएँ भी हुईं जिनसे अल्लाउद्दीन को रणथम्भोर लेने के लिए और भी दृढ़प्रतिज्ञ होना पडा । अतः विवेचना से सिद्ध है कि युद्ध के कारण दोनों काय्यों में ठीक हैं । किन्तु हम्मीरायण ने केवल तात्कालिक कारण देकर सन्नोष किया है । हम्मीरमहाकाव्य की दृष्टि और कुछ गहराई तक पहुंची है^१ ।

युद्ध की घटनाओं के वर्णन में कुछ अन्तर है किन्तु मुसलमानी तबारीखों को पढ़ने से प्रतीत होता है कि हम्मीरमहाकाव्य ने जलालुद्दीन के समय की कुछ घटनाएँ सम्मिलित की हैं । भीमसिंह की मृत्यु और धर्मसिंह का अन्धीकरण शायद सन् १२९१ के लगभग हुए हों । धर्मसिंह पर पुनः कृपा सन् १२९१ और १२९८ के बीच में हुई होगी । हम्मीरायण आदि में इन घटनाओं का अभाव सम्भवतः इनके सन् १२९८ के पूर्व होने के कारण है । किन्तु भोजादि की कथाएँ कल्पित नहीं हैं । खांडाधर या खड्गधर भोज भारतीय एतिह्य का प्रसिद्ध व्यक्ति है । उसने तन मन से अल्लाउद्दीन की सेवा की और वह अन्ततः कान्हडदे और सानल के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया^२ । यही भोज सम्भवतः खेम के पन्द्रहवें कवित्त का भोज है; और यह भी बहुत सम्भव है कि मल्ल के दशवें पद्य में भी (जिसके आधार पर खेम का पन्द्रहवाँ पद्य लिखा गया है) भोज का नाम रहा हो । श्री

१—अल्लाउद्दीन की नीति के लिए देखें तारीखे फ़िरोजसाही, जिल्द ३, पृष्ठ १४८ (इलियट और डाउसन का अनुवाद), आगे दिए हुए मुस्लिम तबारीखों के अवतरण, “अर्ली चौहान डायनेस्टीज” पृ १०८, १०९ और प्रस्तावना के अन्त में प्रदत्त हम्मीर की जीवनी ।

२—देखें मरुभरती, भाग ८, पृ ११३-११४

अगरचन्द्रजी को प्राप्त प्रति में यह कवित्त त्रुटि है। भोज का साई पीधम या पृथ्वीसिंह इसी तरह मल्ल के कवित्त ९ का 'प्रीथीराज हो सकता है जिसके रणथम्भोर से प्रयाण और बादशाह से मिलने का स्पष्ट निर्देश, "प्रीथीराज परवाण कियौ, पतिसाहां भेलो" शब्दों में है। ११ वें पद्य में फिर यही 'पीथल' के रूप में वर्तमान है। इसलिए यदि इम्मीरमहाकाव्य की प्रामाणिकता के लिए भोजादि व्यक्तियों का 'कवितादि' में निर्देश अभीष्ट हो, तो वह निर्देश भी वर्तमान है।

धर्मसिंह की कथा को कल्पित क्यों माना जाय ? उसमें न असंगति है और न अलौकिकता। विद्यापति आदि ने उसका नाम न लिया है तो उसके अनेक कारण हैं। उनकी कथा अत्यन्त सक्षिप्त है। वह उन अमात्यो में भी न था जो भागकर अलाउद्दीन से जा मिले थे। वह इम्मीर के पतन का कारण बनता है, किन्तु केवल ऐसे रूप में जिसका अनुमान मात्र किया जा सकता है। ठोक पीठ कर देखने से मालूम पड़ना है कि नयचन्द्र को नाम घड़ने की आदत न थी और उसे इतिहास की अच्छी जानकारी थी। और तो क्या उसकी तिथियाँ तक ठीक हैं। नयचन्द्र ने रणथम्भोर पर अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण उसकी दिग्गिगीषा, और रणथम्भोर के पतन का कारण मुख्यतः इम्मीर की गलत आर्थिक नीति को समझा है। नयचन्द्र ने वास्तव में जिस रूप से कथा को प्रस्तुत किया वह उसे काव्यकार के ही नहीं, इतिहासकार के पद पर भी आरूढ करता है। अलाउद्दीन से विग्रह बन्ध चुका था। बहुत बड़ी सेना, विशेषतः घुड़सवारों को रखना आवश्यक था। अतः धर्मसिंह को अपना अर्थ-सचिव बनाकर उसने प्रजा पर खूब कर लगाए। यह आर्थिक उत्पीड़न इम्मीर के पतन का मुख्य

कारण बना। यही तथ्य हम्मीरायण के कर्ता 'भाण्डउ' को भी ज्ञात था। हम्मीरायण के महाजन भी सैनिक व्यय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं; किन्तु सब व्यय के विरुद्ध नहीं, अपितु उस व्यय के जो मीर साह्यों के वेतन के कारण उन पर लद गया था।^१

हम्मीर महाकाव्य और हम्मीरायण दोनों ही जाजा को प्रमुखता देते हैं, किन्तु दोनों के स्वरूप में कुछ अन्तर है। हम्मीरायण का जाजा प्राहुणा है। वह घोड़े बेचने निकला है, और दैववशात् उसी स्थान पर पहुंच जाता है जो उल्लखां ने घेरा है। उसके सवार मुस्लिम सेना विनाश करते हैं और वह उल्लखां के आने की सूचना रणथम्भोर पहुंचाता है। हम्मीर उसे बहुत धन देता है। जब उल्लखां हीरापुरघाट होकर छाइणी (भाईन) नगर को जलाकर उसके राज्य स्थान को ढहाकर बढ़ता है और हम्मीर, महिमासाहि और गामरू को साथ लेकर रात के समय मुसलमानी सैन्य पर आक्रमण करता है, हम्मीरायण के जाजा का इसमें कुछ विशेष हाथ नहीं है।

हम्मीर महाकाव्य में जाजा हम्मीर के वीर सेनानी के रूप में वर्तमान है। वह हम्मीर के आठ प्रधान वीरों में एक है। वह उन सेनानियों में से

१ मुसलमानी लवारीखों में धर्मसिंह का नाम नहीं है। किन्तु उन्होंने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा न कि हम्मीर के राज्य का। अन्य बातों में भी हिन्दू साधनों पर अनैतिहासिकता का आक्षेप करते समय लेखकों को मुसलमानी इतिहासों की अपूर्णता और उनके पूर्वाग्रहों का भी ध्यान रखना चाहिए। उनमें परस्पर विरोध भी पर्याप्त है।

जिनहोंने अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति उल्लखला के छत्रके छुड़ा दिए थे। इम्मीर शम्भु तो जाजा उसके लिए सिर अर्पण करने के लिए समुद्यत रावण है।^१ जाजा वह वीर है जो अन्तिम गढ़रोध में अभिषिक्त होकर स्वामी की मृत्यु के बाद भी ढाई दिन तक गढ़ की रक्षा करता है। वह जाति से 'चौहान' है।

इम्मीरायण ने भी आगे जाकर जाजा के शौर्य की पर्याप्त प्रशंसा की है। उसमें भी एक स्थान पर रणधम्मोर को जलहरी, इम्मीर को शम्भु जाजा को सिर प्रदान करनेवाले भक्त से उपमित किया गया है (३०५) किन्तु उसके कुछ कथन इम्मीर महाकाव्य के विरुद्ध पड़ते हैं। वह सर्वत्र प्राहुणे के रूप में वर्णित है। वह देवड़ा भी है जो चौहानों की शाखा विशेष है। देवड़े चौहान हैं; किन्तु उन्हें देवड़ा कहकर ही प्रायः सम्बोधित और वर्णित किया जाता है। इससे अधिक खटकनेवाली बात यह है कि वह विदेशी के रूप में वर्णित है :—

जाजा तुं घरि जाइ, तु परदेसी प्राहुणउ ।

म्हे रहीया गढ़ मांहि, गढ़ गाढउ मेलहाँ नहीं ॥ २४७ ॥

इम्मीर गढ़ में रहेगा, वह उसकी चीज है, उस द्वारा रक्ष्य है। किन्तु जाजा परदेशी अतिथि है। उसे गढ़ की रक्षा में प्राणोत्सर्ग करने की आवश्यकता नहीं। वह अपने घर जाए तो इसमें कोई दोष नहीं। यही बात सामान्यतः परिवर्तित शब्दों में 'कवित्त रणधम्मोर रै राणै इमीर इठालै रा' में भी वर्तमान है (पृ० ४९, दोहा १-२)। किन्तु उसका कर्ता कवि मल्ल 'माण्डउ' से एक कदम और आगे बढ़ गया है। उसने जाजा को बढ़

१ रावणः शम्भुमानचं तथा त्वामर्चयाम्यहम् ।

गूजर बना दिया है (पृ० ४४, पद्य २) । इससे अधिक कथा का विकास 'भाट खेम रचित राजा हम्मीरदे कवित्त' में है जिसके अनुसार 'जाजा बड़ गूजर प्राहुणा (मेहमान) होकर आया था । उसे राजा हमीर ने अपनी बेटी देवलदे विवाही थी । वह मुकुटबद्ध ही मरा । देवलदे राणी वालाब में डूब कर मर गई' (देखें 'बात', पृ० ६४)

किन्तु जाजा-विषयक प्राचीन सूचनाओं में तो उसका परदेशित्व आदि कहीं सूचित नहीं होता । प्राकृतपैङ्गलम् के अन्तर्गत जाजा-सम्बन्धी पद्यों में हम्मीर उसका स्वामी है (पृ० ३९, पद्य ३), और वह उसका अनुयायी मन्त्रि-वर है^१ (पृ० ४०, पद्य ४) वह प्राहुणा नहीं, हम्मीर का विश्वस्त योद्धा है । 'पुरुष परीक्षा' में भी हम्मीर जाजा को चला जाने के लिए कहता है, किन्तु इसका कारण जाजा का विदेशित्व नहीं है (देखें परिशिष्ट ३, पृ० ५४) । हम्मीर विषयक प्राचीन प्रबन्धों में विदेशित्व तो महिमासाहि आदि तक ही परिमित है । हम्मीर महाकाव्य में हम्मीर महिमासाहि से कहता है :—

प्राणानपि मुमुक्षामो वयमात्मक्षितेः किल ।

क्षत्रियाणामय धर्मो न युगान्तेऽपि नश्वरः ॥ १४९ ॥

यूय वैदेशिकास्तद्व स्थातु युक्त न सापदि ।

यियासा यत्र कुत्रापि ब्रूत तत्र नयामि यत् ॥ १५१ ॥

१ पुर जज्जला मतिवर, चलिभ वीर हम्मीर ॥

डा० माताप्रसाद गुप्त 'मल्ल' पाठ को विशेष उपयुक्त समझते हैं ।

इस पाठ पर हम अन्यत्र विचार करेंगे ।

“हम अपनी भूमि के लिए प्राण त्याग के लिए भी इच्छुक रहते हैं । यह क्षत्रियों का वह धर्म है जो प्रलयकाल में भी प्रलुप्त नहीं होता । तुम विदेशी हो, इसलिए आपत्तियुक्त इस स्थान में तुम्हारा रहना उचित नहीं है । जहाँ कहीं जाने की इच्छा हो, कहो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ ।”

पुरुष परीक्षा का कथन और भी ध्येय है । जब इम्मीर जाजादि से चले जाने के लिए कहता है तो वे उत्तर देते हैं :—

“आप निरपराध राजा (होते हुए भी) शरणागत पर कृपाकर संग्राम में मरण को अङ्गीकृत करते हैं । हम आपकी दी हुई आजीविका खानेवाले हैं । अब स्वामी आपको छोड़कर हम कैसे कापुरुषों की तरह आचरण करें । किन्तु कल सुबह महाराज के शत्रु को मारकर स्वामी के मनोरथ को पूर्ण करेंगे । हाँ, इस बिचारे यवन को भेज दीजिए ।” यवन ने कहा, “हे देव । केवल एक विदेशी की रक्षा के लिए आप अपने पुत्र, स्त्री और राज्य को क्यों नष्ट कर रहे हैं । राजाने कहा, ‘यवन, ऐसा मत कहो । किन्तु यदि तुम किसी स्थान को निर्भय समझो तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ ।’ (परिशिष्ट ३, पृ० ५४) । उक्ति-प्रत्युक्ति से स्पष्ट है कि इम्मीर के योद्धा-समाज में केवल एक विदेशी है, और वह जाजा नहीं, अपितु महिमासाहि है ।

‘भाण्डउ’ ने न जाने क्यों जाजा पर विदेशित्व का ही आरोपण नहीं किया, अपितु महिमासाहि के लिए प्रयुक्त युक्तियों को भी जाजा के लिए प्रयुक्त किया है । महिमासाहि को जो वचन इम्मीर ने कहे थे उन्हें हम अभी उद्धृत कर चुके हैं । भाण्डउ की कृति में इम्मीर प्रायः वही शब्द जाजा से कहता है : —

जाजा तु घरि जाह, तुं परदेसि प्राहुणउ ।

म्हे रहीया गढ माहि, गढ गाढउ मेलहां नहीं ॥

एक उक्ति मानों दूसरे का भावानुवाद है । जाजा के विदेशित्व के स्वीकृत होने पर कथा जिस रूप में बढ़ी हम ऊपर उसका निर्देश कर चुके हैं ।

प्रसङ्गवश जाजा के विषय में इतना लिख कर^१ हम फिर इन दोनों काव्यों में वर्णित घटनावली पर विचार करेंगे । यह सर्वसम्मत है कि अलाउद्दीन स्वयं रणथंभोर के घेरे के लिए पहुंचा । किन्तु इम्मीरायण में इम्मीर के रात्रि के आक्रमण के अनन्तर ही सुल्तान रणथंभोर आ पहुंचता है । इम्मीर महाकाव्य का घटना क्रम कुछ भिन्न है । उलुगखां की पराजय के बाद मीर साइयों ने भोज की जगहा पर आक्रमण किया । भोज वहाँ न था । किन्तु उसका भाई और दूसरे कुटुम्बी मुहम्मदशाह के हाथ पड़े । भोज ने जाकर अलाउद्दीन के दरबार में पुकार की । किन्तु इस बार भी अलाउद्दीन स्वयं न आया । उसने उल्लू और निसुरतखान (उल्लूखान और नुसरतखान) को ही युद्ध के लिए भेजा । सन्धि का बहाना कर अब की बार ये घाटी को पार कर गए । मुण्डी और प्रतौली में नुसरतखान और मण्डप

-
१. जज्जल के महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व पर हमने आज से बारह वर्ष पूर्व इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, १९४९, पृष्ठ २९२-२९५ पर एक लेख प्रकाशित किया था । डॉ० हजारीप्रसादजी द्विवेदी की 'हिन्दी साहित्य के आदिकाल' की 'आलोचना' में आलोचना करते समय भी हमने यह भी सिद्ध किया था कि प्राकृत जज्जल का जज्जल कवि नहीं अपितु इम्मीर का सेनापति जाजा है ।

में उल्लूखों की सेना जा पहुँची, और वहीं से उन्होंने मोल्हण को अपना दूत बनाकर हम्मीर के पास भेजा। हम्मीरायण में स्वयं अलाउद्दीन मोल्हा को भेजता है। मुसलमानी तबारीख फुतूहुस्सलातीन के आधार पर हमें हम्मीरमहाकाव्य का ही कथन मान्य है।^१ दोनों की माँग में कुछ अन्तर है। हम्मीरमहाकाव्य में यह माँग लाख स्वर्णमुद्राओं, चार हाथियों, चार मुयलों, राजकन्या, और तीन सौ घोड़ों के लिए है। हम्मीरायण में अलाउद्दीन कुछ माँगता ही नहीं, अपनी माँग के स्वीकृत होने पर माड़, उज्जयिनी, सांभर आदि भी देने के लिए तैयार है। उसमें हाथियों की संख्या अनिश्चित और मुयलों की दो है, जो शायद ठीक है। साथ ही इसमें धारु और वारु नाम की नर्तकियों के लिए भी माँग की गई है। दोनों काव्यों का उत्तर एक सा। ऐसा ही उत्तर 'सुर्जन चरित' में भी वर्णित है, और इसकी सत्यप्रत्ययता फुतूहुस्सलातीन द्वारा समर्थित है।^२

नुसरतख़ाँ की मृत्यु का प्रसङ्ग दोनों काव्यों में है। किन्तु नुसरतख़ाँ किस तरह मरा इसका ठीक वर्णन तो हम्मीरमहाकाव्य में है। तारीखे फ़िरोज शाही से भी हमें ज्ञात है कि जब नुसरतख़ाँ पाशीव और गड गज तैयार कर रहा था, दुर्ग पर की किसी मगरिबी का गोला उसे लगा और वह बुरी तरह घायल हो कर तीन चार दिन में मर गया। हम्मीरमहाकाव्य में और तारीखे फ़िरोजशाही में भी अलाउद्दीन इसी के बाद ससैन्य रणथंभोर पहुँचता है। उसके पीछे दिल्ली में बिद्रोह हुआ और अन्यत्र भी, किन्तु सुल्तान रणथंभोर के सामने से न हटा।^३

१. फुतूहुस्सलातीन का अवतरण आगे देखो।

२. " " " " "

३. तारीखे फ़िरोजशाही का अवतरण आगे देखें।

फरिस्ता ने इम्मीरमहाकाव्य के इस कथन का भी समर्थन किया है कि इम्मीर ने दुर्ग से निकल कर मुसल्मानों को बुरी तरह से हराया। यह पराजय इतनी करारी थी कि एकबार तो मुसल्मानी सैन्य को घेरा उठा कर भाईन के दुर्ग में आश्रय लेना पड़ा।^१ इम्मीरायण में मारी गई मुसल्मानी सेना की संख्या सवा लाख और इम्मीरमहाकाव्य में ८५,००० है। वास्तव में मारे गए मुसल्मानी सैनिकों की संख्या ८५,००० से भी पर्याप्त कम रही होगी। एक दो दिन की लड़ाई में उन दिनों इतने आदमियों का हत होना असम्भव था।

इम्मीर की नर्तकी धारू के मारे जाने की कथा दोनों काव्यों में है। इम्मीरायण ने बारू नाम और बढा दिया है। मल्ल और खेम की कविस्तों में भी एक ही नर्तकी है। वारू, वारङ्गना का ही पर्याय है, भाण्डउ ने उसे अलग समझ लिया मालूम देना है। इस कथा की वास्तविकता का कोई निश्चय नहीं किया जा सकता। प्रायः ऐसी ही कथा कान्हड़दे—प्रबन्ध में भी है।

गढ़ रोध के वर्णन में भी समानता है। इम्मीरमहाकाव्य में अलाउद्दीन के खाई को पूलियों और लकड़ी के टुकड़ों से भरने और दुर्ग तक सुरंग पहुँचाने के प्रयत्नों का वर्णन है। जिस तरह इम्मीर ने इन प्रयत्नों को विफल किया उसका भी इसमें निर्देश है। यह वर्णन मुसल्मानी इतिहासकारों द्वारा समर्थित है। इम्मीरायण में खाई को बालू के थेलों से पाट कर और उन्हीं के बृहत् ढेर पर चढ़ कर गढ़ के कंगूरों तक पहुँचने का मनोरञ्जक वर्णन है। मुसल्मान इतिहासकारों ने लिखा है कि अलाउद्दीन ने बाहर से मँगवा कर सेना में थेले बाँटवाए थे। 'भाण्डउ' ने उनके पायजामों की ही बालू की पोटलिया बनवा दी है। इस वर्णन में इम्मीरमहाकाव्य और

१. आगे दिया तारीखे फरिस्ता का अबतरण देखें।

हम्मीरायण ने एक दूसरे की अच्छी अनुपूर्ति की है और दोनों का ही वर्णन तत्कालीन इतिहासों से समर्थित है। बोरी पर बोरी डालकर मुसल्मान सैनिकों ने एक पाशीब तैयार की। जब यह पाशीब दुर्ग की पश्चिमी बुर्ज की ऊँचाई तक पहुँची, तो उन्होंने उस पर मगरिबियाँ रखीं और उनसे किले पर बड़े-बड़े मिट्टी के गोले चलाने शुरू किए, चौहानों ने अपनी मगरिबियों के गोलों से पाशीब को नष्ट कर दिया। सुरग बनाने वाले सिपाहियों को रालयुक्त तेल के प्रयोग से चौहानों ने मार डाला।^१

दोनों ओर की यह रफ्तार कई दिन तक चलती रही। किन्तु हम्मीरायण का उस समय को बारह वर्ष बतलाना अशुद्ध है। चारणी शैली में गढ़ रोध को बारह वर्ष तक पहुँचाना सामान्य-सी बात रही है। अलाउद्दीन ने राजस्थान के अनेक दुर्गों को लिया। प्रायः हर एक गढ़रोध का समय बारह साल है, चाहे वास्तव में बारह महीने से अधिक समय दुर्ग को हस्तगत करने में न लगा हो।

दोनों काव्यों में लिखा है कि अन्ततः अलाउद्दीन गढ़रोध से थक गया। यह कथन किसी अंश में मुसल्मानी इतिहासों द्वारा समर्थित है। दिल्ली और अवध में बिद्रोह के समाचारों से मुसल्मानी सिपाहियों की हिम्मत टूट रही थी। किन्तु उनके हृदय में सुल्तान का इतना भय था कि किसी को इतना साहस न हुआ कि वह रणथंभोर को छोड़कर चला जाए।^२

अलाउद्दीन से बातचीत का वर्णन दोनों काव्यों में है। किन्तु हम्मीरा-

१. तारीखे फिरोज़शाही इ० डी० ३, पृ० १७४-५

२. वही, पृ० १७७

यण के वर्णन में शुरू से ही रतिपाल (रायपाल) और रणमल्ल (रिणमल) अलाउद्दीन के दरबार में पहुँचते हैं। हम्मीरमहाकाव्य में रणमल्ल का विद्रोह रतिपाल की कारिस्तानी का फल है। किन्तु इनमें से कोई भी कथन ठीक हो, यह तो निश्चित ही है कि हम्मीर के ये दोनों प्रधान सेनानी शत्रु से जा मिले थे।^१

हम्मीरायण और हम्मीरमहाकाव्य में कोठारी के विश्वासघात या मूर्खता के कारण हम्मीर को यह झूठी सूचना मिलती है कि दुर्ग में धान्य नहीं है। किन्तु खज़ाइनुल फुतूह के वर्णन से तो प्रतीत होता है कि दुर्ग में अन्न का वास्तव में अकाल पड़ चुका था। अमीर खुसरो ने लिखा है, “हाँ, उनकी सामग्री समाप्त हो चुकी थी। वे पत्थर खा रहे थे। दुर्ग में धान्य का अकाल इस स्थिति तक पहुँच चुका था कि एक चावल का दाना दो स्वर्णमुद्राओं से वे खरीदने को तैयार थे और यह उन्हें न मिलता था।^२ अलाउद्दीन को इस अन्नाभाव की सूचना देकर रतिपाल और रणमल्ल ने मानों दुर्ग के पतन को निश्चित ही बना दिया। हम्मीरायण और हम्मीरमहाकाव्य का यह कथन कि वास्तव में मण्डार अन्न परिपूर्ण थे, सम्भवतः ठीक नहीं है। इसी अन्नाभाव के कारण सम्भवतः हम्मीर की बहुत सी सेना उसे छोड़कर चली गई थी।

दुर्ग में जौहर की कथा सभी ग्रंथों में वर्तमान है। मुसल्मानों ने भी इसकी ज्वालाओं को देखा; और अनुमान किया कि गङ्गरोध समाप्ति पर

१. हम्मीर के कवित्त में भी (देखो पृ० ४७) में अनेक स्वामिद्रोहियों के नाम हैं। इनमें वीरम को झूठ मूठ समेट लिया गया है।

२. हबीब (अनुवादक), खज़ाइनुलफुतूह, पृ० ४०।

है।^१ यह कथा दोनों ही काव्यों में वर्तमान है कि महिमासाहि ने अन्त तक हम्मीर का साथ दिया। किन्तु हम्मीरमहाकाव्य में मुहम्मदशाह के अपने बाल-बच्चों और स्त्री को असिसात् करने की कथा अधिक है। एक मुसल्मान वीर के लिए सम्भवतः जौहर का यही उचित स्वरूप था। बाकी का जौहर का वर्णन आज कल की Scorched earth Policy की याद दिलाती है जिसमें इस लक्ष्य से कि कोई वस्तु शत्रु के हाथ में न पड़े, सभी वस्तुएँ भस्मसात् कर दी जाती हैं। जौहर में स्त्रियों की आहुति ही न होती, हाथी, घोड़े आदि उपयोगी जीव मार दिए जाते, और सार द्रव्य प्रायः वावड़ी, कुएँ आदि ऐसे स्थानों में फेंक दिए जाते जहाँ से शत्रु उनको न प्राप्त कर सकें। रणथंभोर के दुर्ग में भी इसी नीति का अनुसरण किया गया था।

जौहर से पूर्व राजवंश के एक कुमार को गद्दी देकर बाहर निकालने की कथा हम्मीरायण में वर्तमान है। हम्मीरमहाकाव्य के अनुसार राजा ने प्रसन्नतापूर्वक राज्य जाजा को दिया। इस विरोध का परिहार शायद किया जा सकता है। हम्मीर ने एक स्ववशज कुमार को बाहर निकाल दिया; किन्तु अपनी मृत्यु के बाद भी दुर्ग के लिए युद्ध करने का भार जाजा को दिया। जालोर में यही कार्यभार कान्हडदे के वीर पुत्र बीरम ने समाला था।^२

हम्मीरायण ने अन्तिम युद्ध में ६ व्यक्तियों की उपस्थिति लिखी है

१. देखें हमारी पुस्तक Early Chauhan Dynasties

पृ १६६, टिप्पण ५८

२. वही पृ ११४।

वीरम, हम्मीर, नीर गामरू, महिमासाहि और जाजा । हम्मीरमहाकाव्य में हम्मीर के अन्तिम युद्ध में जाजा उसका साथी नहीं है । उसे राज देकर दुर्ग में छोड़ दिया गया है । उसके साथी चार मुगल बन्धु, टाक गङ्गाधर वीरम, क्षेत्रसिंह परमार और सिंह हैं । इस युद्ध में सम्बन्ध हिन्दू-हिन्दू का नहीं, केवल अभिन्न मंत्री और स्वामिभक्ति का है । हम्मीर के सेवक एक एक करके उसे छोड़ गये तो भी मुगल बन्धु अन्त तक उसके साथ रहे । हम्मीरायण के अनुसार महिमासाहि (मुहम्मद शाह) ने युद्ध में प्राण त्याग किया । किन्तु हम्मीर महाकाव्य में उसके मूर्च्छित होने और सचेतन होने पर अलाउद्दीन से उत्तर प्रत्युत्तर का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं । हम्मीरमहाकाव्य ही का कथन इसमें ठीक है । तारीखे फिरिश्ता और तबकाते अकबरी ने भी इसके वीरोचित उत्तर का उल्लेख किया है । अलाउद्दीन ने मुहम्मदशाह को घायल पड़े देखा तो कहने लगा, “मैं तुम्हारे घावों की चिकित्सा करवाऊँ और तुम्हें इस आफत से बचा लूँ तो तुम मेरे लिए क्या करोगे और इसके बाद तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा ?” वीर मुहम्मदशाह ने उत्तर दिया “मैं ठीक हो गया तो तुम्हें मारकर हम्मीरदेव के पुत्र को सिंहासन पर बिठाऊँगा, इस उत्तर से क्रुद्ध होकर अलाउद्दीन ने उसे मस्त हस्ती से कुचलवा दिया । किन्तु उसने मुहम्मदशाह को अच्छी तरह दफनाया । स्वामीभक्ति की वह कद्र करता था^१ दूसरों को जैसा काव्यों में लिखा है समुचित सजा मिली । रणमल्ल, रतिपाल और उनके साथियों को मरवा दिया गया । फिरिश्ता के शब्दों में “जो लोग अपने चिरंतन स्वामी को धोखा देते हैं, वे किसी दूसरे के नहीं हो सकते^१ ।”

हम्मीर महाकाव्य में हम्मीर के देहावसान के बाद दो दिन तक जाजा के युद्ध का वर्णन है। “प्राकृतपैङ्गलम्” भादि में जो अनेक उक्तियां जाजा के सम्बन्ध में हैं, उन में कुछ का जाजा के इस अन्तिम युद्ध से सम्बन्ध हो सकता है। जाजा हम्मीर के लिए क्या नहीं करने को उद्यत था, सेना में सब से अप्रसर हो युद्ध करने के लिये, सुल्तान के सिर पर अकेले बढ़ कर तलवार चलाने, सुल्तान के क्रोधानल में आहुति देने, और अपने स्वामी की शिरः कमल द्वारा पूजा करने के लिए, स्वामिभक्ति के इतिहास में जाजा का नाम अप्रगण्य है। हम्मीरायण ने गढ़ पतन की तिथि संवत् १३७१ रखी है जो सर्वथा अशुद्ध है। अमीर खुसरो की दो हुई तिथि १० जुलाई, सन् १३०१ (वि० स० १३५८) है और हम्मीर महाकाव्य की तिथि १२ जुलाई बैठती है जो जाजा के राज्य के दो दिनों को सम्मिलित करने से ठीक ही बैठती है।

हम्मीरायण और कान्हड़दे प्रबन्ध

हम ऊपर इस बात का निर्देश कर चुके हैं कि हम्मीर महाकाव्य और हम्मीरायण के मूल स्रोत सम्भवतः कई ऐसे फुटकर काव्य हैं जिनकी रचना हम्मीरदेव के देहावसान के थोड़े समय के अन्दर हुई थी। ‘भाण्ड’ व्यास और हम्मीर महाकाव्य की कथा में साम्य का यह कारण हो सकता है। किन्तु स्थान-स्थान पर यह भी प्रतीत होता है कि भाण्ड व्यास ने हम्मीर महाकाव्य से कुछ बातें ली हैं ; और ऐसा करना अस्वाभाविक भी तो नहीं है।

कान्हड़दे प्रबन्ध और हम्मीरायण में भी काफी समानता है। कथा का

विन्दास प्रायः वही है। बालोर और रणयंभोर का वर्णन, सेना का प्रयाण, महमद अहमद, काफर और नाफर जैसे शब्दों की सूची, राजपूत जातियों के नामोल्लेख और यद् का शृङ्गारादि अनेक अन्य एकसे वर्णन हम्मीरायण के पाठक को कान्हड़दे प्रबन्ध की याद दिलाते हैं। नीचे हम कुछ समान शब्दावली का उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके आधार पर कोई बात निश्चित रूप से तो नहीं कही जा सकती, किन्तु यह विचार कभी-कभी उत्पन्न होता है कि भांडउ ने शायद कान्हड़दे प्रबन्ध सुना हो। किन्तु यह ध्यान भी रहे कि यह साम्यता विषय के साम्य और प्रचलित सामान्य प्रणाली के कारण भी हो सकती है।

कान्हड़दे प्रबन्ध

हम्मीरायण

- | | |
|---|--|
| १. दउ मुक्त निर्मल मति १.१ | १. कथा करंता मो मति देहि १ |
| २. मुडोधानी कुँअरी घणी,
अंतेउरी कान्हड़दे तणी ४.५२ | २. ऊलग करइ मोडोधा घणी । १९
मोटा राय तणी क्यूरी
परणी पांचसइ अतेउरी । २५ |
| ३. टांका बाधि भयाँ घी तेल,
वरस लाख पुहुचइ दीवेल ॥४.३६ | ३. धीव तेल री बावळि जिसी ।
जीमता नहीं कदे खूटसी ॥२४॥ |
| ४. इणि परि राजवंस जे सबइ,
लहइ ग्रास ग्राम भोगवइ ॥४.४५॥ | ४. जे कुलवंता मला छइ सूर,
तिह नइ दइ ग्रास तणा सवि पूर २१ |
| ५. अगा टोप रंगाउलि षोडा ॥१.१८९ | ५. अंगाटोप रिगावली तणा ॥२३॥ |
| ६. कान्ह तणइ संपति इसी,
जिसी इंद्रचरि रिद्धि ॥१.९ | ६. पुहबी इन्द्र कहीजइ सोइ
इन्द्रसभा हम्मीरा होइ ॥६॥ |

७. अहि महिमद नइ हाजीऊ ॥४.६५
८. घांची मोची सूई सूतार ॥४.१९॥
गांछा छीपा नइ तेरमा ॥४.२०
९. दल चलत धरणी कांपइ,
सेषन भालइ मार ।
सायर तणां पूर ऊलटियां,
जेहवां रेलणहार २.६३
१०. मारइ देस, फिरइ घण फोजइ ।
अनइ लूस्यइ धान ।
बोलइ ठोरधार सपराणा ।
माणस भालइ बान ॥१.७०॥
११. कटक तणी सामगरी दीठी,
सांतल करिउ बषाण ।
धन्य धन्य दिन आज अम्हारउ,
जे आव्यउ सुरताण । २ १०७
१२. तरल त्रिकलसा भलइलइ रे,
धन धरीइ विसाल । ३.१५४
१३. माली तम्बोली सोनार,
चालइ घाट घडा सोनार ४ ८४
१४. साम्हा सौंगणी तीर विछूटइ,
निरता बइइ नलीयार । २.१२५
यंत्र गरवी गोला नाखइ २.१२८
१५. राउलि विहूँ सिखावण कही ।
॥४.१४३॥
७. अहमद महमद महवी कीया १०५
हाजी कादू ऊंबरा बडा ॥१०४॥
८. मोची, घांशी नई तेरमा, ११०
सूई सूतार तणी नही मणा ॥१०९॥
९. ढोली थकउ चाल्यु सुरताण,
सेषनाग टलटलीया ताम ।
डूंगर गुडइ समुद्र भलइलइ,
त्रिभुवन कोलाहल ऊलइ । ॥९४॥
१०. सवालाख माहि दीधी बाह,
लूमइ बधइ माणस आह,
ढाडइ पोलि नगर प्राकार,
देश माहि बलि फिर्या अपार ॥११७॥
११. आज अम्हारउ जिव्यउ प्रमाण,
हूँ मलउ ऊपनउ चहुआण ।
रिणथंभोर हउ होवउ राय,
मुक्त घरि ढोली आव्यउ पतिसाह ।
॥१३२॥
१२. सोवन कलस डंड भलइलइ ।
ऊपरि थकी धजा लइलइइ ॥११॥
१३. तबोलीय मालीय कलाल,
नाचणी मोची नइ लोहार ॥१०९
१४. सौंगणी तणा विछूडइ तीर । १८६
यंत्र नालि बइइ ढोकुली ॥१८७॥
१५. राय सिखावण दीधी मली ॥२६०

हम्मीरायण के स्वतन्त्र प्रसंग

हम्मीरायण में कुछ ऐसे प्रसङ्ग भी हैं जो कान्हड़के काव्य से ही नहीं हम्मीर महाकाव्य से भी सर्वथा स्वतन्त्र है। महिमासाहि और मीर गरमरू को शरण मिलने पर महाजनों का हम्मीर के पास पहुँच कर उसे इस नीति के विरुद्ध समझाना ऐसा ही प्रसंग है। कान्हड़के प्रबन्ध में महाजन कान्हड़के के पास अवश्य पहुँचते हैं, किन्तु उनका व्यवहार इनसे सर्वथा भिन्न है। उनमें स्वामिभक्ति तो इनमें स्वार्थ है, जब मुसलमानी सेना रणथंभोर पर आक्रमण करती है तो सहायता प्रदान न कर वे दुकानों में बैठे हँसते हैं। अन्त में एक बणिक जौहर का कारण बनता है। किन्तु सांसारिक दृष्टि से महाजनों की सलाह ठीक थी, और माण्डउ ने उसे बहुत सुन्दर शब्दों में दिया है :—

विष वेली उगनही, नहे न खूटी जे (होइ) ;

इणिवेलि जे फल लागिस्सइ, देखइलउ सहूसइ कोइ ॥ ६१ ॥

इणिवेली जे फल लागिस्सइ, थोडा दिन मांइ ते दीसिसइ ;

तिहरा किसान हुस्यइ परिपाक, स्वादि जिस्या हुस्यइ ते राख ॥ ६२ ॥

जब मुसलमानी सेना रणथंभोर की ओर बढ़ती है, तब भी उसी रूपक को प्रयुक्त करते हुए कवि ने कहा है :—

हाटे बइठा इसइ वाणिया, वेलितणा फल जोअउ सयाणिया ॥ ७३ ॥

जाजा को विदेशी प्राहुणा कहकर इस बात का अन्त तक निर्वाह करना भी माण्डउ व्यास की ही सूक्त प्रतीत होती है। विजय होने

पर नगर में उत्सव के वर्णन हम्मीर महाकाव्य में हैं, और कान्हड़दे प्रबन्ध में भी । किन्तु वर्धापन के वर्णन में भाण्डउ ही कह सका है :—

रणथंभवरि बधावउ करइ, ते मूरिख मनि हरख जि धरइ”

नाल्हभाट का अलाउद्दीन के दरबार में जाना, अलाउद्दीन से उत्तर प्रत्युत्तर करना, और अन्त में अलाउद्दीन द्वारा स्वामिद्रोहियों को मरवाना भी सम्भवतः भाण्डउ की ही सूक्त है । वीर भाट जाति की युद्ध में उपस्थिति और उसके महत्त्वपूर्ण कार्य का यह एक पर्याप्त पुराना उदाहरण हैं ।

कान्हड़दे प्रबन्ध में अनेक राजपूत जातियों की सूची है । किन्तु हम्मीरायण की सूची में संदा, वदा, कलवाहा मेरा, मुकिमाण, बोडाणा, भाटी, गौड, तँवर, सेल, डामी, डाडी, पयाण, रूप, गुहिलत्र, गाँहल, सिंधल, मंडाण, चंदेल, खाइडा, जाडा, और निकुँद नाम अधिक है । संख्या भी जोड़ने पर पूरी छत्तीस बैठती है । घेरे के वर्णन में भी सामान्यतः कुछ नई बातें हैं जिनका ऊपर निर्देश हो चुका है । रणमल्ल और रायपाल किस चाल से एक लाख सैनिकों को किले से निकाल ले गए—यह भी कुछ नवीन सूचना है ।

हम्मीर के अन्तिम युद्ध के वर्णन में भी भांडउ ने अच्छी सफलता प्राप्त की है । ये पद्य पठनीय है :—

जमहर करी छडउ हुयउ, हमीर दे चहुयाण ,

सवालाख सभरि धणी; घोडइ दियइ पलाण ॥ २७९ ॥

छत्रीसइ राजाकुली, ऊलगता निसि दीस:

तिणी वेला एको नहीं, उवाठउ लेबहु ईस ॥ २८० ॥

हाथी बोझा बरि हूँता, उलबगणा रा लाख ;

सात छत्र धस्ता तिहाँ, कोई न साहइ बाण ॥ २८१ ॥

अन्त में इम्मीर की राजलक्ष्मी के अन्त से भी भाण्डव ने एक अपने ढग का नवीन निष्कर्ष निकालते हुए लिखा है :—

(ए) खाज्यो पीज्यो बिलसज्यो, ज्यारइ संपइ होइ ।

मोह म करिज्यो लख्मो तणउ, अजरामर नहिं कोइ ॥ २८७ ॥

(ए) खाज्यो पीज्यो बिलसज्यो. धनरउ लेज्यो लाइ ;

कवि “मांडव” असउ कहइ, देवा लाबी बाँइ ॥ २८८ ॥

मोल्हा भाट ने भी जिस रूप से अलाउद्दीन का सन्देश इम्मीर के सामने पेश किया है उसमें अच्छा उक्ति वैचित्र्य है। “भाट ने कहा ‘हे राजा सुनो, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे वरण करने के लिए आई है। सच कह तू किस से विवाह करेगा। तू वर है, वे दोनों सुन्दर तरुणियाँ हैं। सुल्तान ने स्वयंवर रचा है। हे इम्मीरदे, जिसे तू ठीक समझे ग्रहण कर।’ राजा ने कहा, ‘हे बारहट, कीर्ति और लक्ष्मी में कौन भली है? लक्ष्मी से बहुत द्रव्य घर आएगा। कीर्ति देश, विदेश में होगी।’ मोल्हा ने कहा, ‘मुझे सुल्तान ने भेजा है। उससे तू कुमारी देबलदे का विवाह कर और उसके साथमें धारू और बारू को भेज। सुल्तान ने बहुत से हाथी और दो मीर भी मांगे हैं। इतना करने पर वह तुम्हें निहाळ कर देगा। वह तुझे मांडव, उज्जैन, और सवालख सारंग देगा।’ ये चारों बातें पूरी कर अनन्त लक्ष्मी का भोगकर। राजा सुनो, कीर्ति दुर्लभ

१—यह अर्थ सर्वथा स्पष्ट नहीं है। वास्तव में वे स्थान उस समय व बादशाह के अधीन थे, और न इम्मीर के।

होती है। यदि तू नमन न करेगा तो तुझे दुःख ? (विषहर) की प्राप्ति होगी। यदि तू क्षरण न देगा तो तुम्हें कीर्ति की प्राप्ति न होगी।” (१४६-१५२) इसका जो उत्तर हम्मीर ने दिया, वह उसके चरित के अनुरूप ही है।

वीरों की गाथा के गायन को मध्यकालीन कवि पवित्र मानते रहे हैं। पद्मनाभ ने कान्हड़दे प्रबन्ध को पवित्र ग्रन्थों और तीर्थों के समान पवित्र समझा है। भाँडव व्यास को भी अपने ग्रन्थ की पवित्रता में विश्वास है :—

रामायण महाभारथ जिसउ, हम्मीरायण तीजउ तिसउ ;
पढ़इ गुणइ संभलइ पुराण, तियां पुरषां हुइ गग सनान ॥ ३२४ ॥
सकल लोक राजा रंजनी, कलियुगि कथा नबी नीपनी ,
भणतां दुख दालिद सहु टलइ, भाँडउ कहइ मो अफलां फलइ ॥ ३२६ ॥

प्रतीत होता है कि रामायण नाम को ध्यान में रख कर ही भाँडव व्यास ने अपने ग्रन्थ का नाम हम्मीरायण रखा है।

रणथंभोर का भौगोलिक वृत्त

रणथंभोर की चढ़ाई के वर्णन को उसकी स्थिति के ज्ञान के बिना अच्छी तरह समझना असम्भव है। इसीलिए शायद भाण्डव व्यास ने रणथंभोर का कुछ वृत्त दिया है जो भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उस नगरी में अनेक विषम घाट बापो, और सरोवर थे (७),

और चार मुख्य फ़ाटक थे। इनमें पहड़े दरवाजे का नाम नवलखी था, जो अब भी इसी नाम से प्रसिद्ध है (९)। कलशख्वादि से मंडित उसमें अनेक मन्दिर थे, उसमें कोटिखज अनेक व्यापारियों की दान-शालाएँ थी, नगर में अनेक जती, ब्रती रहते। हजारों वेध्याएँ भी उसमें थी। राजा त्रैलोक्यमन्दिर शैली के बने महल में रहता। पास ही गरमी और सर्दी के लिए उपयुक्त महल भी थे।

रिण और थंम के बीच में नीची जमीन थी (१७)। जब अलाउद्दीन रणथंभोर पहुंचा तो इम्मीर ने चारों दरवाजे सजाए (१३५) गढ़ को सेना के बल से लेने में अपने को असमर्थ पाकर उसने गढ़ की बनावट को ध्यान में रखते हुए उसे लेने के अन्य उपाय किये थे (१९३)। हम ऊपर बता चुके हैं किस प्रकार रिण पर पाशीब बनाने का प्रयत्न किया था। भाण्डउ ने इसका वृत्तान्त खूब मनोरञ्जक बनाया है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने सब फौज को आज्ञा दी कि वह उस झोल को बालू से भरे। मुसलमानी फौजियों ने लड़ना छोड़ दिया सूथन की पोटली बनाकर उस से बालू ला लाकर वे वहाँ डालने लगे। छठे महीने यह काम पूरा हुआ। कंगूरों तक अब मुसलमानी फौज के हाथ पहुँचने लगे उससे राजा इम्मीर को अत्यन्त चिन्ता हुई (१९८-२०१)। किस प्रकार यह प्रयत्न विफल हुआ यह ऊपर बताया जा चुका है।

इम्मीर महाकाव्य में रणथंभोर के पद्मसर का वर्णन है (१३-९२)। यह तालाब अब भी पद्मला के नाम से प्रसिद्ध है। अबुलफजल ने इस प्रसिद्ध दुर्ग के बारे में लिखा है, 'यह दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में। इसलिए लोग कहते हैं कि दूसरे दुर्ग नंगे हैं, किन्तु यह बल्लरबन्द है।

इसका वास्तविक नाम रन्तपुर (रण की घाटी में स्थित नगर) है, और रण उस पहाड़ी का नाम है जो उसकी ऊमरी ओर है (अकबरनामा, २, पृ- ४९०), रणथंभोर के दुर्ग को हस्तगत करने के लिए अकबर ने रण की घाटी के निकट ऊँची सबात बनाई और रण की पहाड़ी पर से यथा तथा सबात के सिर तक पत्थर फेंकनेवाली तोपें पहुँचाई ।

वीरविनोद में भी लिखा है, “ऊपर जाकर पहाड़ की बलन्दी ऐसी सीधी है कि सीढ़ियों के द्वारा चढ़ना पड़ता है और चार दबाजे आते हैं । पहाड़ की चोटी करीब एक मील लम्बी और इस कद्र चौड़ी है, जिस पर बहुत संगीन फसील बनी हुई है । जो पहाड़ की हालत के मुवाफिक ऊँची और नीची होती गई है और जिसके अन्दर जा बजा बुर्ज और मोच्च बने हुए हैं ।”

इम्पीरियल गेजेटियर में भी प्रायः यही बातें हैं । साथ ही यह भी लिखा है कि पूर्व की ओर नगर है जिसका दुर्ग से सम्बन्ध पैदियों द्वारा है ।

डा० ओम्हा का भी यह टिप्पण पठनीय है, “रणथंभोर का किला अंडाकृति वाले एक ऊँचे पहाड़ पर बना है, जिसके प्रायः चारों ओर अन्य ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ भा गई हैं जिनको इस किले की रक्षार्थ कुदरती बाहरी दीवारें कहें, तो अनुचित न होगा । इन पहाड़ियों पर खड़ी हुई सेना शत्रु को दूर रखने में समर्थ हो सकती है । इनमें से एक पहाड़ी का नाम रण है जो किले की पहाड़ी से कुछ नीची है और किले तथा उसके बीच बहुत गहरा खड्डा होने से शत्रु उधर से तो दुर्ग पर पहुँच ही नहीं सकता ।” (उदयपुर का इतिहास, भाग १, पृ० ४)

नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १५, पृष्ठ १५७-१६८, में श्री पृथ्वीराज चौहान का 'रणथंभोर' पर लेख भी पठनीय है। इसके मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं :—

- (१) मोरकुण्ड से पहाड़ी का चढ़ाव है। यहाँ से कुछ चढ़ कर पक्का परकोटा और मोर दरवाजा नाम की एक पोली है।
- (२) यहाँ से उतर कर और फिर उतार चढ़ाव के बाद दूसरा परकोटा है जिसका नाम बड़ा दरवाजा है।
- (३) इससे उतर कर एक बड़ा मैदान है जिसके तीन तरफ पहाड़ियाँ और चौथी ओर रणथंभोर का दुर्ग है। इसी मैदान में पद्मला तालाब है, छोटा पद्मला दुर्ग में है।
- (४) आधे कोस चलने चलने पर किले पर चढ़ने का फाटक आता है जिसे नौलखा कहते हैं। किले का पहाड़ ओर से छोर तक दीवार की तरह सीधा खड़ा है। उस पर मजबूत पक्का परकोटा और बुर्ज बने हुए हैं।
- (५) नौलखा दरवाजे से ऊपर तक पक्की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जिन पर तीन फाटक बीच में पड़ते हैं।
- (६) किले में पाँच बड़े तालाब हैं।
- (७) दिल्ली दरवाजे पर शंकर का मन्दिर है। 'यहीं राव हम्मीरदेव का सिर है जो मनुष्य के सिर के बराबर है। कहते हैं राव हम्मीर जब अलाउद्दीन को परास्त करने आए तो गढ़ में राजियों को न पाया। वे सब भस्म हो गई थीं। राव को इससे इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने आत्मघात करने का निश्चय कर लिया, लेकिन कुछ विचार कर शिव के मन्दिर में गया और पूजन कर कमल काट कर शिव पर चढ़ा दिया।

(८) गढ़ केवल साढ़े तीन कोस के घेरे में है, पर है सीधे खड़े पहाड़ पर। किले के तीन ओर प्राकृतिक पहाड़ी खाई और झुरमुट हैं। खाई के उस ओर वैसा ही खड़ा पहाड़ है जैसा किले का। उस पर परकोटा खिंचा है। फिर चौतरफा कुछ नीची जमीन के बाद तीसरे पहाड़ का परकोटा। इस प्रकार किला कोसों के बीच में फैला हुआ है।

हम्मीरायण के १२५ वें पद्य 'सतपुड़ा' का नाम है यह वह पर्वतमाला है जिस में से निकल कर बनास दक्षिण प्रवाहिनी बनती और चम्बल नदी से जाकर मिलती है। सतपुड़ा के अद्रिघट्टों को पार करना आसान न रहा होगा।

हम्मीरायण का चरित्र-चित्रण

हम्मीरायण में कुछ पात्रों का अच्छा चरित्र-चित्रण हुआ है। हमीरदे शरणागत रक्षक (३०७), 'रण अभंग' (२९) 'अगंजित राव' (२१६) और कीर्तिधनी (१४८) है। अलाउद्दीन की मांगों को टुकराते हुए वह सुल्तान के दूत मोल्हण से कहता है।

कीरति मोल्हा बरिजि मइ, लाछी तुं ले जाह;

डाभ अग्रि जे ऊपडइ, ते न आपउं पतिसाह "१५३"

जइ हारउं तउ हरि सरणि. जइ जीपउं तउ डाउ,

राउ कहइ बारइट, निसुणि, बिहूँ परि मोनइं लाह "१५४"

हम्मीर कीर्ति का प्रेमी है लक्ष्मी का नहीं। बादशाह ने उससे गढ़ मांगा था, वह उसे दमाग्रि भी देने को तैयार नहीं है, उसे जय और पराजय दोनों में ही लाभ दिखाई पड़ता है, जय में अपनी बात रहेगी, युद्ध में

मृत्यु हुई तो वैकुण्ठ की प्राप्ति होगी। स्वार्थी महाजन और सुल्तान ऐसे वीर को शरणागतों को समर्पित करने के लिए राजी या विवश न कर सके तो आश्चर्य ही क्या है ? किन्तु इस वीर राजपूत में नौकरों की पूरी पहचान नहीं है, इसीलिए यह अपने प्रधानों से धोखा खाता है। अपनी 'आण' की रक्षा में स्वयं को या प्रजा को भी कुछ सहना पड़े तो इसकी उसे चिन्ता नहीं है। शत्रु के आगे झुकना तो उसने सीखा ही नहीं :—

मान न मेत्यउ आपणउ, नमी न दीधउकेम ।

नाम हुबउ अबिचल मही, चंद सूर दुय जाम ॥३०८॥

हम्मीर महाकाव्य में हम्मीर के चरित में कुछ विकास भी है। अन्तिम युद्ध के दृश्य में अपने भाई के प्रेम के कारण घोड़े से उतर कर लहू-लहान पैरों से युद्ध में अग्रसर होते हम्मीर का दृश्य हृदयद्रावक है। यहाँ करुण और वीर रसों का एक विचित्र मेल है जो अन्यत्र नहीं मिलता।

दूसरा मुख्य चरित्र महिमासाहि का है। वह अद्वितीय धनुर्धर, स्वामिमानी और दृढप्रतिज्ञ है, हम्मीर ने उसे भाई के रूप में स्वीकार किया है और दोनों इस-भ्रातृत्व की भावना का अन्त तक निर्वाह करते हैं। किन्तु हम्मीरायण में महिमासाहि (मुहम्मदशाह) के चरित्र की उदात्तता पूर्णतया प्रस्फुटित न हो सकी है।

रामलल और रायपाल हम्मीर के कृतघ्न स्वामिद्रोही अमात्य हैं जिन्हें अन्त में अपनी करणी का फल भोगना पड़ता है। स्वार्थी महाजनों का भी 'भाण्डउ' ने अच्छा खाका खींचा है। परिजनों में नाटक भाट का चरित्र अच्छा बना है। जाजा के विषय में हम ऊपर पर्याप्त लिख चुके हैं। उसका चरित प्रस्तुत करने में 'कवि' ने सफलता प्राप्त की है। हम्मीर को ईश और

उसे भक्त के रूप में देखने के रूपक को अन्त तक निबाहते हुए भाण्डव ने लिखा है :—

‘जाजउ’ सिर सिर ऊपरि कीयउ, जाणे ईश्वर तिणि पूजीयउ ॥२९५॥

‘वीरमदे’ रउ माथउ देठि, वेउ भीर पळ्या पग हेठि ॥२९६॥

जाजा का मस्तक हम्मीर के सिर पर था, मानों ईश्वर का उसने अपने सिर से पूजन किया हो ।

देवलदे सरल स्वभाव की राजपूत कन्या है जो पिता को बचाने के लिए अपना बलिदान देने के लिए उद्यत है । शायद कई अन्य राजपूत कन्याओं ने भी इसी प्रकार कहा हो :—

देवलदे (इ) कहइ सुणि बाप, मो वरइ उगारि नि आप,

जाणे जणी न हुंती घरे, नान्हीं थकी गई त्या मरे ॥ २३२ ॥

प्रतिनायक अलाउद्दीन का चरित्र खींचने में भी भाण्डव ने कुछ कौशल से काम लिया है । वह दिग्विजयी है । (८३) उसे यह सख्य नहीं है कि उसका अपमान कर कोई मनुष्य सजा पाये बिना रह जाय (८६-८८) किन्तु वह देश की व्यर्थ लूट पाट के विरुद्ध है (११८-११९) किन्तु हम्मीर के भाट का वह सम्मान करता है । उसमें वह चालाकी और फरेब भी है जिससे एक शत्रु को वश में कर वह दूसरे को नष्ट कर सके । किन्तु वास्तव में वह कृतघ्नता का विरोधी और स्वामिभक्ति का आदर करता है । हम्मीर की मृत्यु होने पर वह स्वयं पैदल रणक्षेत्र में जाता है हम्मीर आदि के बारे में पूछ कर उनकी उचित अन्त्य क्रिया करवाता और स्वामिद्रोही रणमल्ल आदि को उचित दण्ड देता है । हम्मीर की मृत्यु से उसे कुछ दुःख है :—

सींगधी गुण तोड़ खुरताण. आरुम साह न खाई (न) काव्य (२६८)
उलूखर्खां आदि के चरित सामान्यतः ठीक हैं । वर्णन बहुत होने के कारण अन्य अनेक प्राचीन काव्यों की तरह यह काव्य चरित्र के विकास पर विशेष बल न दे सका है ।

सामंतशाही जीवन और सैन्य सामग्री

उस समय के जीवन के अनेक पहलुओं पर, विशेषतः तत्कालीन सामन्तशाही जीवन और सैन्य सामग्री पर हमें इस काव्य से पर्याप्त सामग्री मिली है । राजा की मुख्यता तो स्वीकृत ही है । उस की नीति पर सब कुछ निर्भर था और यह नीति शान्ति की भी हो सकती थी और विग्रह की भी । किन्तु नीति का निर्धारण करने पर भी उसके लिए यह आवश्यक था कि वह समाज के दो प्रभावशाली वर्गों, सामन्तों और महाजनों को अपनी ओर रखे । यही उसकी जनशक्ति और धनशक्ति के आधार थे । सामन्तों का और सामन्तों के प्रति राजा के व्यवहार का इस काव्य में अच्छा वर्णन है । राजा के सामन्तदल में सवालाख घोड़े थे (१९) । कुलवान् और अच्छे शूर व्यक्तियों को राजा पूरा वेतन (ग्रामादि) देता । समय पढ़ने पर वे उसका काम निकालते । वह उनका कमी अपमान न करता (२१) । वे कभी किसीको प्रणाम (जुहार) न करते, घर बैठे भंडार खाते, युद्ध में वे किसी से भी न डरते । भगवान् से भी लड़ने के लिए तैयार रहते (२२) । उनके पास कबूच और अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र थे । सूर वंश के रणमल और रायपाल हम्मीर के प्रधान थे । उन्हें आधी बूंदी प्राप्त (जागीर) में मिली थी । जब मुहम्मदशाह और

उसका साईं रणथंभोर पहुँचे तो राजा ने उन्हें भी अच्छी जागीर दी और साथ ही नकद वेतन भी दिया (५१-२)। युद्ध का आरम्भ होते ही इन वीरों के पास संदेश पहुँचता :—

लहता प्रास अम्हारइ घणा । डिध अन्तर दाखउ आपणा (७५)

और ये सब नियत स्थान पर आकर एकत्रित हो जाते (देखो ७५-७९, १६६-१७१) इनमें सभी राजकुलों के लोग रहते। यह भ्रान्तिमात्र है कि परमारवंशी राजा के अनुयायी परमार और चौहान के चौहान ही होते। रणमल्ल और रतिपाल सूर वंश के थे। हम्मीर के अन्तिम संग्राम में उसका साथ देनेवाले चार राजपूतों में एक टाक, एक परमार, एक चौहान और एक अज्ञातवंशीय राजपूत था।

दूसरी शक्ति धनी महाजनों की थी। युद्ध के आर्थिक साधन इन्हीं के हाथ में थे। इसलिए राजनीति में भी इनका दखल था। हम्मीरायण में महाजनों को हम्मीर के पास पहुँचना और स्पष्ट शब्दों में हम्मीर की नीति को अपरीक्षित और अयुक्त कहना—इसी महाजनी प्रभाव का प्रमाण है। उनका असहयोग उमके पतन का एक मुख्य कारण भी है। जालोर में इसी वर्ग का समर्थन कान्हड़देव के अनेक वर्षीय सफल विरोध की नींव बन सका था^१।

स्वयं राजा के पाँच सौ हाथी और 'सहस्र एक सह्र 'पंच' घोड़े थे और वह सवालख सांभर का प्रभु था (१९-२०)। अनेक प्रकार के योद्धाओं के और हाथी घोड़ों के तनु-त्राण आदि उसके पास थे उसके कोष्टागारों में धान्य का सप्रह था (२३-२४)। उसके ५०० मन सोना और करोड़ों

का धन था। कहने का तात्पर्य यह है कि तत्सामयिक राजा बुर्गी में इन सब सामग्री को तैयार रखते। दुर्ग की अच्छी तरह सज्जित रखना तो उस समय राजपूतों के लिए सर्वथा आवश्यक था ही। यही मज्जकालीन राजपूतों के स्वातन्त्र्य संग्राम के साधन और प्रतीक थे। इन्हीं के सामने से मुसल्मानी सेनाओं को हताश होकर अनेक बार पीछे लौटना पड़ता था। जब तक जल और धान्य की कमी न होती, दुर्गस्थ सेना प्रायः लड़ती ही रहती। कई बार रात में सहसा दुर्ग से निकल कर ये शत्रु पर आक्रमण करते (७९)। शत्रु को चिढ़ाने के लिए कंगूरों पर छोटी पताकाएं लगाते, दरवाजों का शृङ्गार करते और बुर्ज-बुर्ज पर निशान बजाते। गाना बजाना भी होता। दोनों ओर से बाण छूटते। मगरिबी नाम के यन्त्रों से नीचे की सेना पर गोले बरसाए जाते। ढेंकलियों से भी पत्थर फेंके जाते। नलियारों का भी हम्मिरावण और हम्मिर महाकाव्य में वर्णन है। (११३-१८७)

खजाह नुलफुतुह पत्थर बरसाने वाले यन्त्रों में से इरादा, मंजनीक और मगरिबों के नाम हैं। जिस प्रकार के पत्थर फेंके जाते थे, उन्हें कई वर्ष पूर्व मैंने चित्तौड़ में देखा था। शायद अब भी वे अपने स्थान पर हों। दुर्ग से राल मिले तेल, जलते हुए बाण, और दूसरी आग लगाने वाली वस्तुओं का भी प्रयोग होता। खजाहनुलफुतुह में रणधर्मोत्तरे के घेरे के वर्णन से स्पष्ट है कि मुसल्मानी सिपाहियों को कदम कदम पर आग में से बढ़ना पड़ा था। ऊपर से पादकों ने बाणों की वर्षा की। अन्ततः मुसल्मानों को हताश होकर वापस लौटना पड़ा।

दुर्ग लेने के उपनयों को भी हम हम्मिरावण में पाते हैं। नद को इतनी बुरी तरह से घेरा जाता कि उसमें से कुछ न आ जा सके :—

गढ़ गाढ़उ बिंठ्यउ सुरतापि, को सलकी न सकइ तिपि ठामि ।

माहो माहि मरइ लखकोकि, पातिसाह नबि जाए छोकि ॥२११॥

ऐसी अवस्था में दुर्ग में प्रायः भन्न की कमी पड़ जाती और उसे आत्मसमर्पण करना पड़ता । अन्दर के लोगों में से किसी को लालच देकर फोड़ लेना दूसरा साधन था । राजपूतों के अनेक दुर्गों को इसी साधन के प्रयोग से मुसल्मानों ने प्रायशः हस्तगत किया था । सुरंग लगा कर रणथंभोर लेने के प्रयत्न का हम्मीर महाकाव्य में वर्णन है । पाशीब या शीबा बना कर रणथंभोर को हस्तगत करने की भी कोशिश की गई थी । पाशीब बनाने में लकड़ियां डाल-डाल कर एक ऊँची बुर्ज तैयार की जाती और जब उसकी उँचाई प्रायः दुर्ग की उँचाई तक पहुंच जाती तो उस पर मगरिबियां रख कर दुर्ग के अन्दर के भागों पर गोलाबारी की जाती । बालू की बोरियों से भी पाशीब तैयार हो सकता था । हम्मीरायण (१६८-२००) और खजाइनुलफुतूह के अस्पष्ट वर्णनों से प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन ने कुछ ऐसा ही प्रयत्न किया था, किन्तु वह कृतकार्य न हुआ । हम्मीरायण ने जलप्रवाह से बालू बहजाने पर घाटी का रिक्त होना लिखा है (२०२), किन्तु खजाइनुलफुतूह ने मुसल्मानी सेना को रोकने का श्रेय वीर दुर्गस्थ राजपूतों को ही दिया गया है । उनके अभिबाणों में से हो कर जाना आग में से गुजरना था । साथ ही ऊपर से बाणों की वर्षा और मगरिबियों की निरन्तर मार भी थी ।

यंत्र नालि बहइ ढींकुलि, सुभट राय मनि पूजइं रलि ।

मरइ मयंगल आवटइ अपार, आहुति लइ जोगिणि तिपि बार ॥१८७॥

(देखें खजाइनुलफुतूह, जर्नल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री ८, पृ० ३६१-३६२)

इसी तरह बर्नी में भी इस उपाय के निष्फल होने का निर्देश किया है । दुर्गभ्रम होने पर हथियार न डालना, राक्षसों की विशेषता थी । इसी कारण से शत्रु यथाशक्ति अन्य उपायों द्वारा ही दुर्ग को हस्तगत करने का प्रयत्न करते । दुर्ग में सीधा घुसना तो सर्प के मुँह में हाथ डालना था । *

सामाजिक जीवन

हम्मिरायण आदि काव्यों के आधार पर तात्कालिक सामाजिक जीवन के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है । संक्षेप में ही ब्राह्मणों के प्रति आदर, महाजनों की दृढ़ आर्थिक स्थिति, वीरों का धर्मगत भेद होने पर भी परस्पर सौहार्द, वैश्य प्रथा का प्रयास प्रचार, नाट्य नृत्य संगीतादि में जनता की रुचि और दानशीलता आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिनका हमें इस काव्य से अच्छा ज्ञान होता है । विशेष रूप से नाल्द भाट का चरित पठनीय है । चारण और भाट मध्यकाल में प्रायः वही महत्त्व रखते हैं जो सामन्त और सरदार । चौदहवीं शताब्दी के महान् कवि पण्डित ज्योतिरीश्वर के वर्णरत्नाकर का निम्नलिखित भाटों का वर्णन इतना सजीव और मध्यकालीन स्थिति का परिचायक है कि पाठकों के समक्ष उसे उपस्थित करना हम उचित समझते हैं, वर्णन निम्नलिखित है :—

अथ भाट वर्णना—मारपरिकली परिहने । सारु सोनाक टाड चारि परिहने । खडनीक पाग एक मथा बन्धने । सो न सूंचीक कराबो एक । देवगिरिबा पछेओला एक फाण्ड बन्धने । तीषि त्रोषि, बाङ्कि, नीकि सोना

* गङ्गाज आदि कुछ अन्य ग्रन्थों की परिभाषा के लिए आगे दिये सुसलमानी तबारीखों के अवतरण देखें ।

के पर जे निङ्ग बानी । लोहाक निर्म्म उलि सोनसक कोर छुरी एक
 वाम कह बन्धने । पुनु कहसन भाट, संस्कृत, प्राकृत, अबहठ, पैशाची,
 सौरसेनी, मागधी कह भाषाक तत्वज्ञ, शकरी, भिरी, चाण्डाली, साबत्री,
 दाविली, औतकलि, विजातीया ॥ सातहु उपभाषाक कुसलह । पत्तिनि,
 चान्द्र, कलाप, दामोदर, अर्द्धमान, माहेन्द्र, माहेश, सारस्वत, प्रभृति ये
 भाठओं व्याकरण ताक पारग । धरणि, विश्व, व्यालि, अमर, नामलिङ्ग,
 अजयपार, शाश्वत, रुद्रट, उत्पलिनी, मेदिनीकर, हारावली प्रभृति अठारह
 ओकोषतं न्युत्पन्न । ध्वनि, वामन, दण्डी, महिमा, काव्यप्रकाश, दशरूपक,
 रुद्रट, शृङ्गारतिलक, सरस्वतीकण्ठाभरणदि अनेक अलङ्कारक विज्ञ । शम्भु,
 वृत्तरत्नाकर, काव्यतिलक, छन्दोविचिति, भारतीभूषण, कविशेखर प्रभृति
 अनेक छन्दोप्रन्थ तं कुशल । कादंबरी, चक्रवाल बायस, गद्यमाला, अपूर्व छह
 हर्षचरित, चम्पू, वासवदत्ता, शालमञ्जरी, कर्पूरमञ्जरी, प्रभृति अपूर्व प्रन्थ
 कृताभ्यास । केवारी, गोहरिआ, साफिक, शुद्धमुख, निरपेक्ष, दाता, कवि
 सातओये मट्टगुण ते सम्पूर्ण ।

स्वामि बर्णाङ्कित पीछा कह मण्डलि ज्ञातीए धर ओले भाट देखुअह ।
 तका पछा केओ बिछालि चलल, के ओ पएरेहि, काहुका नालिका ज्ञाती
 धएले, काहुका पुत्र, काहुका बहुभारी, कभोनमो सुतह ज्ञाती धरल ।
 जभो बुलाधिअ तमो मन्द बोलता बलबट चरि चरि औषध खएले ।
 ओगला सैचानक अइसनि आँखि कएले । ओकहुलक माला एकहोंक
 परिहएले, मथाये भानक मारि से तन्हक सिङ्गाळ धारले चिरले अछबाहे
 पेटे बाज्जे वाइ बोलइ समथहे । हथ ओ नाक साप अइसनाह । कार्तिक
 कन्याण करइन माह, नगारि बिस तीसतें परिबेष्टित भाट देखु”

इस उद्देश्य में भाट की केश-भूषा, विद्या, व्यवहारादि समीकन वर्णन है। उसके बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और आयुध उक्त्युक्त के अनुरूप हैं। उसका शास्त्रीय ज्ञान इतना प्रगाढ़ है कि बड़े बड़े पण्डितों और कवियों के ज्ञान को मान करता है। वह सर्वभाषाविज्ञ, अष्ट-व्याकरण पारंग, अष्टादश कोष व्युत्पन्न, अनेक अलङ्कार विज्ञ, एवं बहुत ग्रन्थ कृताभ्यास है। वह कवि भी है और दाता भी। अनेक व्यक्ति उसके पीछे पीछे चलते हैं। अर्वाचीन भाटों से परिचित व्यक्ति मध्यकालीन भाटों के महत्त्व को कठिनता से ही समझ पाते हैं। किन्तु वर्णरत्नाकर का वर्णन पढ़ने वाला व्यक्ति भासानी से ही चन्द, मोल्हण (कान्हड़ दे प्रबन्ध), मोल्हा और नाल्ह (हम्मीरायण) आदि के व्यक्तित्व और प्रभाव को समझ सकता है। पृथ्वीराज विजय का पृथ्वीमट भी इसी श्रेणी का है।

हम्मीरायण के कुछ शब्द

हम्मीरायण के ३२६ छन्दों में पर्याप्त अध्येय सामग्री है। किन्तु हम उनमें से कुछ ऐसे ही शब्दों पर यहाँ विचार करेंगे जिनका अर्थ या तो विवादग्रस्त है या जिनके अर्थ पर विवाद की संभावना है।

उलग, उलगणा—इन शब्दों का इस काव्य में अनेकशः प्रयोग है। विशेषतः (सैनिक) सेवा के अर्थ में उलग शब्द का प्रयोग हुआ है। 'उलगणा' उलग करने वाले के लिए प्रयुक्त है। हम्मीर की अनेक मोडोधा धणी (मुकुटधर सरदार) उलग करते थे (१९, २०९) महिमासाहि और उसका भाई अलुखान को उलगते थे (४४, ४५) 'उलगणा' शब्द ३३वें पद्य में इन्हीं दोनों भाइयों के

लिए प्रयुक्त है। हम अन्यत्र भी इन शब्दों का यही अर्थ प्रदर्शित कर चुके हैं। इस शब्द के प्रयोग का बहुत सुन्दर उदाहरण हम्मीरायण का यह दोहा है:—

उलगाणा खायइ सदा, ऊरण हुइ इकवार।

चाडं बषी ठाकुर तणी, सारइ दोहिली वार ॥१८९॥

गुडी—यह शब्द छोटी पताका या फर्री के अर्थ में प्रयुक्त है। (१३४)^१ बहुत सम्भव है कि इसका मूल किसी द्रविड़ भाषा से लिया गया हो।

प्रास—सामन्ती बोलचाल में इस शब्द का प्रयोग बहुत अधिक है। योद्धाओं की आजीविका के लिए प्रदत्त 'जागीर और नकद द्रव्य आदि दोनों ही प्रास के अन्तर्गत हैं (देखो २१, ५०, ५१, ५२, १९०, २२४ आदि)

असपति (८८)—यह अश्वपति शब्द का अपभ्रष्ट रूप है। सर्वप्रथम यह शब्द केवल उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के मुसलमान राजाओं के लिए प्रयुक्त हुआ था। इसका कारण शायद उनकी बलशाली अश्वारोही सेना रही हो। किन्तु परवर्ती काल में दिल्ली, गुजरात आदि के सुल्तानों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होने लगा। हम्मीरायण का प्रयोग इसी दूसरी प्रकार का उदाहरण है।

आलमशाह (८४, ८५, ८८, ९१, १२०, १७५ आदि)—यह शब्द व्यक्ति वाचक सा प्रतीत होता है। किन्तु वास्तव में यह चक्रवर्ती के अर्थ में प्रयुक्त है।

१ देखें वरदा वर्ष ४ के अङ्क में 'गुडी उछली' पर हमारा टिप्पण।

आरी सीरा तोरण (१३५) उत्सव के समय तोरण खड़े करने की परिपाटी विरकाल से भारत में चली आई है । अन्य ग्रन्थों में तलिया तोरण का वर्णन है । आरीसारी तोरण भी सम्भवतः तलिया तोरण ही है ।

पवाडउ (२१०, २६३)—पवाडा शब्द के मूलार्थ के विषय में पर्याप्त मतभेद है । मरुभारती, वर्ष, अङ्क में हमने इसका प्राचीन अर्थ 'युद्ध' या ऐसा ही कोई वीरकार्य मानने का सुझाव दिया है । हर्म्मारायण सोलहवीं शताब्दी की कृति है । किन्तु इसमें भी पवाडउ के उसी प्राचीन अर्थ की झलक है । २९३ वीं पंक्ति इस प्रकार है:—

राय पवाडउ कौयउ मलउ, आपण ही सार्यउ जै गलउ ॥

(राजा ने अच्छा 'पवाडा' किया । उसने अपने आप ही अपना गला काटा)

पवाडे के युद्ध या युद्ध के सन्निकट अर्थ को ध्यान में रखते हुए हमने उसे 'प्रपातक' से व्युत्पन्न करने का भी सुझाव दिया था । किन्तु 'प्रवाद' शब्द भी लगातार हमारे ध्यान में रहा है । प्रवाद से मिलता-जुलता शब्द 'भट्टवाद' (वीरत्व की ख्याति) प्राचीन राजस्थानी और गुजराती में प्रचलित रहा है, जिसका अपभ्रष्ट रूप भडवाउ अनेक ग्रन्थों में मिलता है । 'भडवाडउ' शब्द की भी गवेषणा की; किन्तु उसकी कहीं प्राप्ति न हुई ।

जमहर—इसके लिये आजकल जौहर शब्द प्रचलित हो चुका है । डा० वसुदेवशरण जी अप्रवाल ने जौहर को जतुगृह से व्युत्पन्न माना जो भाषाशास्त्र की दृष्टि से सर्वथा ठीक है (जतुगृह ∟ जउगृह ∟ जउघर ∟

जउहर (जौहर)। किन्तु कान्हड़दे प्रबन्ध में पद्मनाभ ने और हम्मीरायण में (२६२, २६३, २७३, २७५) माण्डव व्यास ने जमहर शब्द का प्रयोग किया है जो स्पष्टतः यमगृह का अपभ्रष्ट रूप है। जमहर शब्द ही यदि ठीक हो तो आधुनिक जौहर तक का परिवर्तन शायद कुछ इस प्रकार से निर्दिष्ट किया जा सकता है। यमगृह < जमगृह < जमघर < जमहर < जंबहर < जौहर < जौहर। अचलदास खीचीरी वचनिका में जउहर शब्द प्रयुक्त है। अचलदास द्वारा गिनाए हुए 'जउहर' जोगा जोगाहत सीहोर के रोलू, और रणथंभोर के हम्मीर के स्थानों में हुए थे। वचनिका की अपेक्षाकृत एक नवीन प्रति में 'जौहर' शब्द प्रयुक्त है। उसमें कुछ अन्य जोहर गिनाए गए हैं, जैसे समियाणों में सोमसातल के घर, जैसलमेर में दूदा के घर, जामलोर में करमचन्द चहुषाण के घर, तिलक छपरी के गहलोलों के घर, जालोर में कान्हड़दे के घर। वचनिका की अन्य प्रतियों में जहर, जमहर और जिमहर शब्द भी प्रयुक्त हैं जो हम्मीरायण और कान्हड़दे के यमगृह के सन्निकट हैं।^१

परघउ, परिघउ—(२३०, २३३, २३६, २३७)—यह शब्द परिग्रह का अपभ्रष्ट रूप प्रतीत होता है जिसका अर्थ नौकर-चाकर, लबाजमा या सेना किया जा सकता है। रायपाल और रणमल ने अलाउद्दीन से मिलकर यह निश्चय किया कि वे रणथंभोर से सेना भी निकाल लाएंगे (परिघउ ले आवां छा तिहां, २३०)। जाकर उन्होंने हम्मीर से प्रार्थना की कि वह कृपाकर उन्हें 'परघउ' (सेना) दे जिससे वे कटक में मलि,

१ देखें सादूल राजस्थान रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित संस्करण 'अचलदास खीचीरी वचनिका'

कीड़ा करों और दुकों को 'पातला' (दुर्बल) कर दें (२३७) । हम्मीर ने उन्हें सबाकास 'परिषद' (सेना) दी (२३८) ।

समाध्यत, समाध्यो (३१६, ३१९)—यह शब्द साधारण के प्रयुग्म-चरित में समदिठ (१८४) के रूप में प्रयुक्त है । संस्कृत में इसका अर्थ समाहित शब्द से किया जा सकता है । इन सब प्रसंगों में इसका अर्थ 'प्रसन्न होकर' किया जा सकता है ।

कणहलउ (४५) :—महिमासाहि ने अपने विषय में कहा है.

“अहानइ मान हुतउ एतलउ, घरि बइठा लहता कणहलउ”

इससे अनुमान किया जा सकता है कि इसका अर्थ भोजनादि से है । हम्मीर के सामन्तों के विषय में कवि ने कहा है :—

ते नवि कीणइ करइ जुहार, घरि बइठा खाई भडार (२२) ।

यहाँ भण्डार से मतलब सम्भवतः अन्न भंडार का होगा, और यही अर्थ शायद 'कणहलक' से अभिप्रेत है ।

नवलखि - यह शब्द चउपइ ९ और १७२ में है । रणथम्भोर दुर्ग की चढ़ाई में यह पहला दरवाजा है । इसी के पास नुसरतखां मारा गया । हम ऊपर डा० माताप्रसाद के नौलखी शब्द के अर्थों का विवेचन कर चुके हैं ।

हेडाउ (६८) इस शब्द पर भी हम ऊपर कुछ विचार कर चुके हैं । अभी और उदाहरण अपेक्षित हैं ।

बीटी (६७, ७१)—यह निश्चित है कि इसका अर्थ बौढ़ी नहीं है । प्रसंग से लूटनाया घेरना अर्थ हो सकता है । कान्हड़दे, प्रबन्ध में बीटी शब्द प्रयुक्त है ।

डीलइ (९६), डीलज (१००), डील (१९०) :—डील का अर्थ शरीर है । डीलइ स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त है । डीलज = डील ही धइवड़ (१३५) = ध्वजपट

हम्मीर सम्बन्धी अन्य साहित्य और प्राचीन उल्लेख

हम्मीर विषयक साहित्य हम्मीरमहाकाव्य और हम्मीरायण तक ही सीमित नहीं है । हम्मीर का जीवनोत्सर्ग एक महान् आदर्श के अनुसरण में हुआ था । जब कभी ऐसे अवसर उपस्थित हुए, जनता उसे याद करने से न भूली । रणमल्ल छन्द में एक राठौर वीर के युद्ध का कीर्तन है । किन्तु कवि श्रीधर काव्य के आरम्भ में ही हम्मीर का स्मरण करता है । रणमल्ल उपमेय तो हम्मीर उपमान है:—

हम्मीरेण त्वरित चरितं सुरताण फोज संहरणम् ।

कुरुत इदानीमेको वरवीरस्त्वेव रणमल्लः ॥ ३ ॥

(हम्मीर ने शीघ्र ही सुल्तान की फौज का सहार किया । अब वही अकेला श्रेष्ठ वीर रणमल्ल करता है ।)

अचलदास खीचीरी वचनिका का रचयिता शिवदास तो हम्मीर को भूल पाता ही नहीं । जब हुशगशाह की फौज चलती है तो लोग पूछते हैं कि “बादशाह किसके विरुद्ध बढ रहा है । अब तो सोम सातल कान्हड़वे नहीं हैं । इठीला राव हम्मीर भी अस्त हो चुका है” (९-४) । अन्यत्र हम्मीर की तरह अचलदास भी कलियुग को बदलने वाले और आदर्शपूति के लिए मरणोद्यत व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट है । (१४-१५) “सिंहासन पर बैठा अचलदास सातल सोम और हम्मीर से भी बढ़कर दिखाई पड़ता था (१५८) । अपनी रानियों के सामने जौहर के आदर्श को उपस्थित

करता हुआ अचलेश्वर कहता है, “कल ही के दिन तो रणधम्मोर में राज हम्मीरदेव के घर में जौहर हुआ था। उन जौहरों में जो हुआ वही तुम पूरी कर दिखाओ (२१.९)।” काव्य के अन्त में भी फिर शिवदास ने हम्मीर का स्मरण किया है। सातक, सोम, हम्मीर और कन्हड़दे ने किस तरह जौहर जलाया, उसी तरह रणक्षेत्र में पहुँचकर चौहान (अचलदास) ने अपने आदिम कुलमार्ग को उज्ज्वल किया (२७)”।

कान्हड़दे प्रबन्ध में पद्मनाभ हम्मीर का स्मरण करना न भूला। जब अलाउद्दीन की सेना गढ़रोध छोड़कर जाने लगी तो हम्मीर का पदानुगमन करने की इच्छा से वीर कान्हड़दे भी कहता है।

तुम्ह वीनवूँ आदि योगिनी, पाछा कटक आणि तू बनी।

हमीररायनी परि आदरूँ, नाम अहारउ उपरि करउं ॥

वर्णनों में प्राकृत पैज़लम् के हम्मीर और जाजा विषयक पद्य भी पठनीय हैं। इनके विषय में डा० माताप्रसाद गुप्त ने लिखा है, “इन छन्दों में वास्तविक ऐतिहासिकता नहीं मिलती है। उदाहरणार्थ एक छन्द में कहा गया है कि हम्मीर ने खुरासान की विजय की थी, जिसमें उमने खुरासान के शासक से ओल (जमानत) में उसके किसी आत्मीय को ले लिया था। किन्तु हम्मीर का खुरासान पर आक्रमण करना ही इतिहास-सम्मत नहीं है।” किन्तु क्या वास्तव में इस उदाहरणार्थ प्रस्तुत पद्य में खुरासान की विजय का वर्णन है? पद्य यह है:—

ढोला मारिय ढिल्ली मह मुच्छिय मेच्छ सरिर।

पुर जजला मंतिवर चलिय वीर हम्मीर।

चलिअ वीर हम्मीर पाअ मर मेइणि कपइ।

दिगमगणह अंधार धूलि सूरह रह मीपिअ।

दिग्गमगणह अघार भाष खुरासाणक ओह्ला ।

दरभरि दवसि विपकख मारअ दिह्नी महं डोल्ख ॥

यहाँ पांचवी पंक्ति में 'खुरासाण' शब्द को देखते ही, यह परिणाम निकालना ठीक न था कि कवि के मतानुसार हम्मीर ने खुरासान पर विजय प्राप्त की थी और उस देश के शासक को 'ओल' में ले आया । यहाँ प्रसंग दिल्ली या दिल्ली राज्य पर आक्रमण का है, खुरासान पर किसी चढ़ाई का नहीं । इसलिए देखने की आवश्यकता तो यह थी कि खुरासान का कोई दूसरा अर्थ है या नहीं । डिगलकोष को आप उठाकर देखते या किसी वृद्ध चारण को पूछते तो आपको ज्ञात होता कि यहाँ खुरासान शब्द मुसलमान के अर्थ में प्रयुक्त हैं । कविराजा मुरारिदान ने मुसलमान शब्द के ये पर्यायवाची शब्द दिए हैं:—

रोद खद खदड़ो तुरक मीर मेछ कलमाण ।

मुगल असुर बीबा मिर्या रोजायत खुरसाण ॥ ५७३ ॥

कलम जवन तणमीट (कह) खुरासान अर खान,

चगथा आसुर (फेर चब मानहु) मूसलमान ॥५७४ ॥

पृथ्वीराज के प्रसिद्ध पत्र में भी खुरसाण इसी अर्थ में प्रयुक्त है:—

धर रहसी, रहसी धरम खप जासी खुरसाण ।

अमर विसम्भर ऊपरां राखो नइचो राण ॥

पद्य के प्रसंग और डिगलकोष के इस अवतरण से स्पष्ट है कि 'खुरसाण' का अर्थ दिल्ली का कोई मुसलमान ही हो सकता है । इसके खुरासान तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं है ।

हम्मीर के विषय के कुछ अन्य पद्य भी प्रकृतपैङ्गलम् में हैं । एक में

हम्मीर अपनी प्रेयसी से म्लेच्छों के विरुद्ध रणाङ्गण में जाने की अनुमति चाहता है। दूसरे में म्लेच्छों के विरुद्ध हम्मीर के प्रयाण का वर्णन है। तीसरा पद्य अज्जल विषयक है। एक पद्य में हम्मीर की मलय, चोलपति, गुर्जर, मालव और खुरसाण पर विजय का वर्णन है। यह खुरसाण भी भारत देशीय कोई मुसलमान राजा है। छठे पद्य में सेना के प्रयाण का बहुत ही सजीव वर्णन है। सातवें पद्य में बीभत्स रणस्थली में विचरते हुए हम्मीर का वर्णन है।

इन पद्यों में पर्याप्त अतिरञ्जना है। किन्तु इस अतिरञ्जना के आधार पर इनके समय पर कुछ कहना असम्भव है। इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जब कवि समसामयिक होते हुए भी अतिरञ्जना करता है। वाक्पति का 'गौडवहो' ऐसी ही कृति है। नरवर्मन् द्वारा लक्ष्मवर्मन् की विजय का वर्णन रघुवंश के दिग्विजय की बाद दिलाता है। गौड, चोक, बग, अग, गुर्जर, मलय, चोल, पाण्ड्य, कीर, मोटादि की भर्ती जिस आसानी से होती है वह अनेक शिलालेखों में दर्शनीय है। भाषा की दृष्टि से प्राकृतपैञ्चलम् के पद्यों को छायाद सन् १४०० के आसपास रखना ठीक हो।

शाङ्गधर का हम्मीरविषयक उल्लेख और वर्णन भी पर्याप्त प्राचीन हैं। ग्रन्थ के आरम्भ में ही अपने वंश के वर्णन के प्रसङ्ग में शाङ्गधर ने लिखा है कि 'पहले शाकम्भरी (सामर) देश में श्रीमान् हम्मीर राजा चाहुषाण वंश में उत्पन्न हुआ, वह शौर्य में अर्जुन के समान स्थात थ। परोपकार के व्यवसन में निष्ठ, पुरन्दर के गुरु (वृहस्पति) के समान, राघवदेव नाम का द्विजश्रेष्ठ उसके सभ्यों में मुख्य था'। शाङ्गधर

इस राघवदेव का पौत्र था, और जिस विद्वान् को नयचन्द्रसूरि ने भी 'षडभाषा-कविचक्र-सक' और 'अखिल-प्रामाणिकाग्रेसर' कहा है उसके लिए उसके पौत्र के हृदय में कुछ अभिमान होना स्वाभाविक ही है। साथ ही नयचन्द्र के उल्लेख से यह भी सम्भावना होती है कि हम्मीर की सभा में अनेक षडभाषाकवियों और ताकियों का मण्डल था जिनमें मुख्य राघवदेव था। पद्यति का १२५७ वाँ श्लोक भी हम्मीरपरक है। कवि अज्ञात है। हम्मीर की सेनाके प्रयाण को उद्दिष्ट कर वह कहता है, 'हे चक्र (चक्रवाक !) ककी (चक्री !) के विरह ज्वर से तू कातर मत हो। रे कमल तू सकुचित न हो। यह रात्रि नहीं है। हम्मीर भूप के घोड़ों की टाप से विदीर्ण भूमि की धूलि के समूहों से यह दिन में ही अन्धकार हो गया है।'

हम्मीर-विषयक अन्य प्राचीन रचना विद्यापति की पुरुष-परीक्षा है। राजस्थान से बहुत दूर रहने पर भी कवि को हम्मीर विषयक अनेक तथ्य ज्ञात थे। उसका अदीन अलाउद्दीन और महिमासाह मुहम्मदशाह है। अलाउद्दीन और हम्मीर के सन्देश और प्रतिसन्देश भी इतिहास सम्मत तथ्य हैं। मन्त्रियों के नाम रायमल और रामपाल हैं जो रणमल्ल और रतिपाल के विकृत स्वरूप से प्रतीत होते हैं। जाजमदेव (जाजा) आदि योद्धाओं और महिमासाहि के अन्त तक हम्मीर का साथ देने की कथा भी पुरुष-परीक्षा में है। किन्तु जाजा के लिये इसमें 'योध' शब्द प्रयुक्त होने से यह अनुमान करना कि जाजा किसी उच्चपद पर प्रतिष्ठित न था कुछ विशेष तर्कानुमत प्रतीत नहीं होता। योद्धा होना तो उच्च से उच्च पदस्थ राजपूत के लिए भूषण है, दूषण नहीं। जोधपुर के राज्य के संस्थापक का नाम केवल जोधा मात्र था।

मल्ल और खेम के कवियों में तो जाजा का इतना महत्त्व है कि इम्मीर मुहम्मदशाह से कहता है कि जब तक रणधर्मोर का गढ़, जाजा-बकगूजर और उसका बन्धु वीरम रहेंगे, तब तक वह उसको त्याग न करेगा। खेम के ११ वें कवित्त में वह 'बड राउत' है, और ऐसा ही निर्देश सम्भवतः मल्ल के म्रुटित कवित्त में भी रहा होगा।

पुरुष परीक्षा में जौहर का भी वर्णन है। किन्तु क्या इतनी संक्षिप्त है कि उसमें इम्मीर विषयक बहुत-सी बातें छुट गई हैं। लेखक का लक्ष्य केवल इम्मीर की दयावीरता सिद्ध करना था। इसके लिए जितनी सामग्री उसने प्रयुक्त की है वह पर्याप्त है।

इससे अग्रिम कृति इम्मीर हठाले के कवित्त हैं जिनकी मूँधड़ा राखरूप ने संवत् १७९८ में देशनोक में नकल की। कर्ता "कविमल्ल" (कवित्त ३,६) या 'कवि माल' (कवित्त ५) है और इस छोटी सी २१ कवित्तों की कृति में वीर रस की अच्छी परिपुष्टि हुई है। पहले कवित्त में 'महिमा मुगल' शरण की प्रार्थना करता है। जाजा और वीरम के महत्त्व को प्रदर्शित करते हुए द्वितीय कवित्त में इम्मीर की उक्ति हम अभी देख चुके हैं। तीसरे कवित्त में बादशाह की ओर से राजकुमारी के सुल्तान से विवाह, धारू वारू नर्तकियों के समर्पण, और हाथी, घोड़ों और द्रव्य आदि की मांग है। चौथे कवित्त में इम्मीर का दर्पपूर्ण उत्तर है। उसकी मांग अल्लाउद्दीन से भी बढ़कर है। वह गजनी माँगता है, उसके भाई अलीखान (उलूखान) से बास कटवाना चाहता है, उससे 'मरइठी नारी' माँगता है, और यह भी चाहता है कि बादशाह अनेक अन्य बादशाहों के साथ आकर उसकी सेवा करे। पाँचवें कवित्त में अल्लाउद्दीन का इत

दोनों सेनाओं की शक्ति की तुलना करता हुआ सुल्तान को बाज से और हम्मीर को चिड़िया से उपमित करता है। छठे कवित्त में हम्मीर का उत्तर है, 'जो मैं बादशाह के सामने सिर मुकाऊँगा, तो सूर्य आकाश में न उदित होगा, यदि मैं दण्ड (कर) दूँगा तो हरिहर ब्रह्म और सुकृत सब विसृष्ट होंगे। मैं पुत्री को देने की कहूँ तो जीम के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे मैं बादशाह से आकर मिला तो पृथ्वी डूब जायगी। उत्तर में फिर दूत सातवें कवित्त में अलाउद्दीन की सामर्थ्य का बखान करता है। उत्तर में हम्मीर आठवें कवित्त में कहता है, "तू इसको देवगिरि मत समझ। यह यादव राजा नहीं है। तू इसको चित्तौड़ मत समझ। वह कर्ण चालुक्य नहीं है। इसको गुजरात मत समझ जिसे करोड़ों छल करके लिया है। भरे, अलाउद्दीन मैं हम्मीर हूँ जो इस क्षेत्र का खरा और रक्षक कपाट है। अब रणधर्मोर का रोध करने पर तेरे सत्त्व का पता लगेगा।'

उत्तर में नवम कवित्त में दूत बताता है कि रणमल, बादशाह से जा मिलेया, वीरम्म घर का भेद देगा, राजा छाहड़दे अभी उसके विरुद्ध है, पृथ्वीराज अलाउद्दीन से जा मिला है^१। जिन भूत्वों से यह भरोसा था कि वे युद्ध में साथ देंगे वे तो शत्रु से जा मिले हैं। किन्तु इससे हम्मीर विचलित नहीं होता। वह कहता है, 'चाहे पीथल मिले,

१ डा० माताप्रसाद गुप्त ने कवित्त का अर्थ सर्वथा भूतार्थक किया है जो ठीक नहीं है। दूत 'मिले' धातु से रणमल और वीरम्म के लिए भविष्य की सम्भावना का द्योतन करता है। छाहड़दे विरुद्ध (अमेल) हो गया है और पृथ्वीराज बादशाह से जा मिला है।

चाहे प्रतापसी, चाहे कुल मार्ग को लजा कर, दूसरे ठाकुर चन्द, सूर्य और भी चाहे कर्नाधिधि आदि भी अल्लाउद्दीन से जा मिलें तो भी यह उससे सन्धि न करेगा। ग्यारहवें कवित्त में विगदिगन्त से आई मुसलमान सेना और हम्मीर के प्रसन्न होकर उसका सामना करने का वर्णन है। बारहवें कवित्त में उद्गाणसिंह के हाथ नर्तकी धारू की मृत्यु का उल्लेख है। तेरहवें कवित्त में मोमूसाह (मुहम्मदशाह) हम्मीर से बीड़ा लेकर अलाउद्दीन का छत्र काट डालता है।

चौदहवें कवित्त में यह वर्णित है कि आठ लाख औषधियों के चूर्ण (पाउडर) को प्रयुक्त कर अलाउद्दीन ने जब नाल (तोप ?) चलाई तो रणथम की दीवार एक ओर से टूट गई। फिर भी (कवित्त १५) हम्मीर ने देवगिरि के राजा की तरह कायर होकर किला न छोड़ा। उसने बढ़ती मुसलमान सेना पर अच्छी चोट की।

‘राज पलट जाता है, दिन पलट जाते हैं, किन्तु बड़े आदमियों के बचन नहीं पलटते’, यह कहते हुए हम्मीर ने जाजा से चले जाने को कहा। वह तो ‘परदेसी पाहुना था’। किन्तु जाजा ने ऐसे आचार को दोगली संतान के लिए ही उपयुक्त बताकर गढ़ छोड़ने से इन्कार कर दिया (दोहा १-३)। और अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण कर घोर युद्ध करता हुआ काम आया। (कवित्त १६-१७) आगे के दो कवित्तों में युद्ध का वर्णन है। मीर भी अन्व स्वामिसक्तों के साथ युद्ध में काम आए। (१८-१९) श्रावण की पंचमी, शनिवार के दिन सम्बत् “अगणमै” में हम्मीर युद्ध करता हुआ काम आया। रणमल शत्रु से जा मिला (२०)। बारह वर्ष तक युद्ध चला। अलाउद्दीन के ग्यारह लाख सैनिकों में से केवल एक लाख बचे (कवित्त २१)।

इतिहास की दृष्टि से इस कृति का कुछ महत्त्व है। महिमासाहि का शरण में आना, धारू की उड्डानसिंह के हाथ मृत्यु, हम्मीर और अलाउद्दीन के दूत का कथोपकथन, रणमल का विश्वासघातादि ऐसी सामग्री है जो अन्यत्र भी मिलती हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बातों में जाजा का महत्त्व है। हम्मीर को उस पर बड़ा भरोसा है। जाति से इन कविस्तो के अनुसार वह बड़गूजर है (कवित्त २) दूहे २ में वह 'परदेसी पांहणों' के रूप में अभिहित है (पृ० ४९, दूहा २), किन्तु वह हम्मीर का विश्वस्त 'स्वामिधर्मी' सेवक है। (१६) उसके पिता का नाम वैजल है (१७) और उसके एवं राव के मरने पर ही गढ़ का पतन होता है। कवित्त में जाजा को 'बड़गूजर', हम्मीरायण में 'देवड़ा', हम्मीर महाकाव्य में 'चाहमान' और भाट खेम की कृति में फिर बड़गूजर के रूप में देखकर जाजा की जाति को निश्चित करना कठिन पड़ता है। किन्तु इनमें सबसे प्राचीन कृति हम्मीर महाकाव्य है; और उसीका कथन सम्भवतः सबसे अधिक विश्वस्त है^१। युद्ध को बारह वर्ष तक चलाना (२१) अशुद्ध है। हम्मीर के स्वर्ग प्रयाण के लिए श्रावण मास, पञ्चमी तिथि और शनिवार ठीक हो सकते हैं। किन्तु 'छमीछर अगणमै' अशुद्ध है (२०)। नवें कवित्त का पृथ्वीराज हम्मीर महाकाव्य के भोजदेव का भाई हो तो हम्मीर-महाकाव्य की भोज की प्रतिशोध कथा कल्पित नहीं है।^२ छितिपति छाहडदेव और चन्दसूर के विषय में कुछ और शोध की आवश्यकता है।

भाट खेम की रचना "राजा हम्मीरदे कवित्त" (पृ० ६०-६६) की

१. इसी प्रस्तावना में ऊपर हमारा जाजा-विषयक विमर्श पढ़ें।

२. डा० माताप्रसाद गुप्त कथा को कल्पित मानते हैं (देखें हिन्दुस्तानी १९६१, पृ० ६-७)

प्रति का लेखन-काल सवत् १७०६ है। इसलिए कवित्त की रचना इस सवत् से परतर नहीं हो सकती।

इसके प्रथम कवित्त में मंगोल की शरणागति और दूसरे में शरण-प्रदान का वर्णन है। इसके बाद अलाउद्दीन के दूत मोलण और हम्मीर का वार्तालाप है। इसमें मोलण अलाउद्दीन की सामर्थ्य का बखान करता है। हम्मीर उससे गजनी, उलूगखाँ, नसरतखाँ, मरहठी नारी, ठट्टा, तिलंग आदि का मॉग करता है। (३-७) उसके बाद अलाउद्दीन के घेरे (९) उड्डानसिंह के हाथ धारू की मृत्यु (११) अलाउद्दीन के छत्र कटने (१२-१४), इसके बाद और युद्ध के आरम्भ होने का वर्णन है। साथ ही गद्य-भाग में यह सूचना भी है, “जाजा बड़गूजर प्राहुणा होकर आया था। राजा हमीर ने उसे अपनी बेटी देवलदे विवाही थी। वह मोड़ बांधे ही काम आया। राणी देवलदे तालाब में डूबकर मर गई। किन्तु कवित्त में फिर वही कथानक चालू रहता है। हम्मीर जाजा को परदेसी पाहुणा कहते हुए जाने के लिए कहता है, किन्तु जाजा इन्कार करता है (दूहा २)। पन्द्रहवें कवित्त में हम्मीर कहता है कि चाहे राणा रायपाल, चाहे बाहड, भोजदेव, रावतभोज, रंतौ (रतिपाल), वीरमदे, रावत जाजा, चन्दसूर, और सभी देवी देवता भी शत्रु से मिल जाएँ तो भी वह अपने वचन का त्याग न करेगा (१५)। उसके बाद उसने अपूर्व युद्ध किया। सम्वत् १३५३, माघ सुदी एकादशी मंगल के दिन अलाउद्दीन ने रणथम्भोर लिया और मध्याह्न के समय हम्मीर ने अपना सिर सतप्रोख दरवाजे पर महादेव को श्रदाया।

इन कवित्तों का स्वतन्त्र मूल्य विशेष नहीं है ‘भाटखेम की कृति भी

हम इन्हें कहें या न कहें इसमें भी हमें सन्देह है, क्योंकि यह प्रायः 'रणधमोर रै राणै हमीर हठालै रा कवित्त' का शब्दानुवाद या भावानुवाद मात्र है। कहीं कहीं मल्ल की कृति त्रुटित या अस्पष्ट है। उसकी पूर्ति और समझ में यह रचना अवश्य सहायक है। दोनों काव्यों के पहले दो कवित्त कुछ शब्द भेद होने पर भी वास्तव में एक ही हैं। मल्ल के तीसरे कवित्त को खेम ने पाँचवाँ बना दिया है। चौथे कवित्त के स्थान पर खेम के आठवें कवित्त हैं। किन्तु कुछ नाम मल्ल के कवित्त से अधिक शुद्ध हैं। अलीखान से उलखाँ नाम उल्लगखान के अधिक सन्निकट है। साथ ही नुसरतखाँ 'थटा' और 'तिलंग' के नाम बड़ा दिए गए हैं। खेम का सातवाँ कवित्त मल्ल के पाँचवें कवित्त का, और नवाँ कवित्त मल्ल के ग्यारहवें कवित्त का और दसवाँ कवित्त मल्ल के आठवें कवित्तका रूपान्तर है। मल्ल का बारहवाँ कवित्त खेमका ग्यारहवाँ है। बारहवें कवित्त में मल्ल के कवित्त की सामान्य छाया ही आ सकी है। खेम का बारहवाँ पद्य प्रायः नवीन है। किन्तु चौदहवाँ पद्य फिर मल्ल के पन्द्रहवें पद्य का रूपान्तर है। 'बात' खेम माट की या तो निजी कृति है या इसे किसी अन्य माट ने जोड़ दी है। जाजा के बडगूजर होने में ही हमें अत्यधिक सन्देह है उसे देवलदेवी का पति बनाकर तो खेम ने कल्पना की परकाष्ठा कर डाली है। हममीर महाकाव्य का कथन तो इसका विरुद्ध है ही; यह अन्य प्राचीन और नवीनकृतियों से भी असमर्थित है। खेम का पन्द्रहवाँ पद्य मल्ल के नवें पद्य का रूपान्तर है; किन्तु कुछ फेरफार सहित। इसका बाइड मल्ल का छाइड है। रायपाल, भोजदेव और राउत जाजा आदि के नाम इसमें अधिक हैं।

खेम का सोलहवाँ पद्य उसकी कृति है। रणधमोर के पतन का

समय भी उसका निजी ही नहीं, सर्वथा अशुद्ध भी है। हम्मीर के रणथम्भोर के दरवाजे पर आकर 'कमल-पूजा' की कथा अब भी प्रसिद्ध है। प्राचीन पारम्परिक कथा से इसका विरोध है।

नैणसी ने गढ़ के पतन की दो तिथियाँ दी हैं, सम्वत् १३५२ श्रावण-बदी ५ (नैणसी की ख्यात, भाग १, पृ० १६०) और दूसरी संवत् १३५८ (भाग दूसरा, पृ० ४८३)। इनमें दूसरा संवत् ठीक है।

महेशकृत 'हम्मीर रासो' की दो प्रतियाँ श्री अग्रचन्द्रजी नाइटा के संग्रह में हैं और कुछ प्रतियाँ अन्यत्र भी हैं। 'भावा डिगल से प्रभावित राजस्थानी है।' इस कृति की कुछ उल्लेख्य विशेषताएं निम्न-लिखित हैं।

(१) महिमासाहि को अलाउद्दीन की किसी बेगम से अनुचित सम्बन्ध के कारण निकाला जाता है। गामरू बादशाह की सेवा में रहता है।

(२) छाणगढ़ का रणधीर हम्मीर की सहायता करता है। इसलिए रणथम्भोर को लेने से पहले बादशाह छाणगढ़ लेता है।

(३) नर्तकी को गामरू गिराता है।

(४) सुर्जन कोठारी के मिल जाने से अलाउद्दीन को ज्ञात होता है कि दुर्ग में धान्य नहीं है।

(५) बादशाह सेतुबन्ध जाकर भगवान् शिव का पूजन कर समुद्र में कूद कर अपने प्राणों का त्याग करता है।

इस कथा में कल्पना अधिक और ऐतिहासिक तथ्य कम है।

जोधराज कृत हम्मीर-रासो प्रकाशित रचना है। इसके बारे में

इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह प्रायः महेश के हम्मीर-रासो का रूपान्तर है। इसी प्रकार चन्द्रशेखर बाजपेयी का 'हम्मीर हठ; भी प्रकाशित है' इतिहास की दृष्टि से इसका महत्व भी विशेष नहीं है।

ग्वाल कविका 'हम्मीर हठ सं० १८८३ की कृति है। यह चन्द्रशेखर के 'हम्मीर-हठ' से बहुत कुछ मिलती-जुलती है।^१

“भाण्डव की हम्मीरायण के अतिरिक्त एक 'वृहद् हम्मीरायण' भी जिसका सम्पादन श्री अजरचन्द नाइटा कर रहे हैं। श्री नाइटा की सूचना के अनुसार 'हम्मीरायण की दो प्रतियों में से एक प्रति तो पूर्ण है और दूसरी प्रति में केवल २४८ पद्य हैं, जबकि पूरी प्रति में अन्तिम पद्य संख्या १३७३ है। ऐसा प्रतीत होता कि अधूरी प्रति इस पूर्ण प्रति से ही नकल की जा रही थी जो पूरी नहीं हुई।” मूल प्रति सं० १७८४ की है। भाषा हिन्दी है, और किसी अंश तक जान की भाषा से मिलती है।

कविता का आरम्भ सरस्वती, गजानन, चतुर्भुज आदि को प्रणाम कर किया गया है। लक्ष्य वही है जो किसी वीरगाथा का होना चाहिए—

सांवत रूप हमीर की, सांवत सुण है बात ।

सुरापण हुवै चौगनो, सुरां सदा सुहात ॥

प्रति के अन्न में सेना की सख्या है। 'अन्तेवरी', निधान, रतन, मुकुटबन्ध राजा, सोना रूपा का आगर, पट्टण, धूल के गढ, रत्न आदि की भी संख्याएँ हैं जो अतिशयोक्ति पूर्ण हैं।

इस ग्रंथ की समीक्षा हम यथासक्य अन्यत्र करेंगे।

१ देखें श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र—'ग्वाल कवि', धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक हिन्दी अनुशीलन, पृ० २३३,

राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर सं० ४९०२ पर एक ग्रन्थ का आरम्भ 'श्रीगनेसाय नमः' हमीराइन लीषतै शब्दा से होता है। किन्तु इसका आरंभ गणेशवन्दन है। उसके बाद सरस्वती की आराधना कवित्त है, जिसमें कृति का नाम 'हमीररासो' है। अन्तिम कवित्त में, जिसकी संख्या २८५ है, फिर पुस्तक 'हमीराइन' ग्रंथ के नाम से निर्दिष्ट है। समस्त ग्रन्थ देखने पर कुछ निश्चित रूप से लिखना सम्भव है। आरम्भ दूसरी हमीरायण से कुछ भिन्न है।

आगरे के श्री उदयशङ्कर शास्त्री के पास एक कृति है जिसका नाम "पातसाह अलावदीन चहुवांन हमीर की वचनका मट्ट मोहिल कृत है।" किन्तु कृति के अन्दर कवि का नाम मल्ल है जो हम्मीर के कवित्तों के कर्ता मल्ल से भिन्न तथा पर्याप्त अर्थाचीन है।

इस ग्रंथ का आरम्भ गणपति की स्तुति से है। रणथम्भोर के दुर्ग का भी अच्छा वर्णन है (७-१४)। इसके बाद वचनिका में हम्मीर-विषयक एक विचित्र कथा है। हम्मीर बादशाह का 'राजपूत' है, किन्तु उसे पूरे हाथ से सलाम न कर एक अंगुली दिखाता है। इसलिए उसे लोग बाँका हमीर कहते थे।

इस वैर का कारण बताने के लिए कवि ने सुल्तान के पूर्वजन्म की वार्ता दी है। सोमनाथ पट्टण में दो अनाथ ब्राह्मण बालकों ने जिनके नाम अलैया और कनैया थे, बारह वर्ष तक बिना किसी वृत्ति के गौएँ चराईं। फिर बारह वर्ष उन्होंने तीर्थयात्रा की और अनेक तीर्थों से सोमनाथ पर चढ़ाने के लिए जल ग्रहण किया। किन्तु शिव ने पण्डा भेजकर कहावा कि यदि वे उस पर चल चढ़ायेंगे तो मन्दिर गिर पड़ेगा और शिवछिन्न भन्न होगा।

इससे दुःखी होकर दोनों काशी गए और काशी-करोल लेकर उन्होंने प्राण छोड़े। अन्तिम समय में अलैया ने बादशाह बनकर गोवध और रुद्रमूर्ति के मङ्ग की प्रार्थना की और कनैया ने उनकी रक्षा के लिए श्यामसिंह सोनिचरा के घर में अवतार की।

भाग्य की कथा मुझे प्राप्त नहीं है। किन्तु इतने से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस ग्रंथ में विशेष ऐतिहासिकता नहीं है। यह केवल जन मनोरंजन के लिए घड़ी हुई बात है जिसके तत्व अनेक स्थलों से सगृहीत है।

संस्कृत काव्यों में 'हम्मीर महाकाव्य' के अतिरिक्त सुर्जन चरित में हम्मीर की कथा है। वह जैत्रसिंह का पुत्र (११-७) और त्रिविध वीर था (११-८)। आसमुद्रान्त भूमि को विजित कर उसने तुरुष्को पर आक्रमण किया और आसानी से दिल्ली जीत ली (११-१५-१६)। चम्बल में स्नान कर और मृत्युञ्जय भगवान् शिव का अर्चन कर उसने तुलादान दिया (११-४२-४६)। शुभ मूर्हत में उसने 'कोटिमख' यज्ञ का आरम्भ किया (११-५८)। इस अवसर को उपयुक्त समझकर अलाउद्दीन रणथम्भोर के लिए रवाना हुआ (११-६४)। उसका भाई उल्लखान भी ५०,००० सवारों सहित चला (११-६५), और जगरपुर में उसने डेरे डाले। हम्मीर के सेनापति रण (रग) मल्ल ने उल्लखान को हराया (११-६९) इससे क्रुद्ध होकर अलाउद्दीन ने रणथम्भोर को जा घेरा (११-७१)। हम्मीर कृत्य की समाप्ति पर रणथम्भोर वापस आया (११-७४)।

अलाउद्दीन का दूत सन्देश लेकर उसके पास पहुँचा (१२-३)। उसने कहा, बादशाह को राज्य करते सात वर्ष बीत चुके हैं। तुमने न कर

द्वारा और न सेवा द्वारा उसे प्रसन्न किया है । तुमने बादशाह का बिगाड़ करने वाले महिमासाहि आदि को अपना सेनापति नियुक्त किया है । और कहने से क्या लाभ ? तुमने जगरा तक को लूटा जहाँ उसके भाई के सामन्तों का निवेश था । महिमासाहि आदि को पिंजरे में डालकर नज़र करो । सात साल का कर दो । अपने हाथी बादशाह को दो । सौ नर्तकी भी अर्पण करो । इतना करने से तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी और तुम्हारा राज्य समृद्ध होगा (१२-८-२०)

हम्मीर ने इसका समुचित उत्तर दिया (१२-२३-३८) । किन्तु धीरे-धीरे दुर्ग की आन्तरिक स्थिति को हम्मीर ने बिगड़ते देखा । उसकी बहुत सी सेना शत्रु से जा मिली । किसी ने धन के लोभ से और किसी ने मय से अलाउद्दीन की नौकरी स्वीकार की । कई चिर-निरोध की यंत्रणा से बाहर निकल गए । ऐसी स्थिति में हम्मीर ने युद्ध का ही निश्चय किया (१२-४५-४७) राणियों ने जौहर किया (१२-५५) और हम्मीर ने अपूर्व युद्ध (१२-५८-७६) युद्ध में धराशायी होकर उसने अनुपम कीर्ति रूपी शरीर की प्राप्ति की (१२-७७)

इस काव्य का रचयिता चन्द्रशेखर कवि अकबर का समकालीन था और उसने सुर्जन हाडा के बार बार कहने पर सुर्जन चरित की रचना की थी । काव्य में एकाध बात अतिरिज्जत है । उदाहरण के लिए हम्मीर ने कमी दिल्ली पर अधिकार नहीं किया । किन्तु अधिकतर इसके कथन इतिहास सम्मत हैं ।

मुसलमानी साहित्य

हम्मीर विषयक इतिहास का दूसरा पक्ष मुसलमानी इतिहासकारों ने

प्रस्तुत किया है। समसामयिक लेखक होने के कारण उनके कथन में पर्याप्त सत्य की मात्रा है। माना कि पूर्वाग्रह वश उन्होंने अनेक बातें छिपाई हैं। किन्तु ऐसी बातें भी हमें उनसे प्राप्य हैं जिनके सम्यक् ज्ञान के बिना हम्मीर के जीवन को समझना कठिन है।

अमीर खुसरो—हम सबसे पहले अमीर खुसरो की रचनाओं को लेते हैं जिसके इतिहास ग्रन्थों की रचना सन् १२९१ से १३२० के बीच में हुई है। दिबलरानी में (जिसकी रचना सन् १३१६ की है) अमीर खुसरो ने लिखा है :—^१

“देहली की विजय के उपरान्त जब सिन्ध और पहाड़ों तथा दरियाओं के प्रदेश सुल्तान के अधीन हो गए तो उसने निश्चय किया कि गुजरात का राय भी उसके अधीन हो जाय। उसने उलुगखाँ को आदेश दिया कि वह उस प्रदेश पर आक्रमण करे। उलुगखाने मुअज्जम भायान की ओर रवाना हुआ। रणथम्बोर पर उसने बड़ी तेजी से रक्तपात प्रारम्भ कर दिया। वहाँ का राव हमयाराय (हम्मीरदेव) राय पिथौरा के वंश से था। दस हजार सवार देहली से २ सप्ताह में धावा मारकर वहाँ पहुँचे थे। वहाँ की चहारदीवारी ३ फरसग^२ के घेरे में थी और पत्थर की बनी हुई थी। (६४-६५) सुल्तान भी युद्ध के लिए वहाँ पहुँच गया, किन्तु उलुगखाँ को किले पर आक्रमण करने का आदेश देकर स्वयं चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमा लिया”।

१. खलजी कालीन भारत, पृ० १७१।

२. फरसंग तीन मील के बराबर होता था।

अलाउद्दीन और हम्मीर के संघर्ष का इससे अधिक विस्तृत विवरण खुसरो के ग्रन्थ 'खजाइनुलफूतूह' में है जिसकी रचना उसने सन् १३११-१२ में की। भाषा अत्यन्त आलङ्कारिक है। खुसरो ने लिखा है, "जब भगवान् के ढाये का आसमानी चित्र रणथम्बोर पहाड़ी पर पहुँचा तब अत्यधिक ऊँचा किला, जिसकी अट्टालिकाएँ नक्षत्रों से बात करती थीं घेर लिया गया। हिन्दुओं ने किले की दसों अट्टारियों पर आग लगा दी, किन्तु अभी तक मुसलमानों के पास इस अग्नि को बुझाने के लिए कोई सामग्री एकत्रित न हुई थी। थैलों में मिट्टी भर भर कर पाशेब^१ तैयार किया गया। कुछ अभाग्यवाने नव मुसलमान जो कि इससे पूर्व मुगल थे हिन्दुओं से मिल गये थे। रजब से जीकाद (मार्च से जुलाई) तक विजयी सेना किले को घेरे रही। किले से बाणों की वर्षा के कारण पक्षी भी न उड़ सकते थे। इस कारण शाहीबाज़ भी यहाँ तक न पहुँच सकते थे। किले में अकाल पड़ गया। एक दाना चावल दो दाना सोना देकर भी प्राप्त नहीं हो सकता था। नव रोज के पश्चात् सूर्य रणथम्बोर की पहाड़ियों पर तेजी से चमकने लगा। राय को ससार में रक्षा का कोई भी स्थान न दिखाई पड़ता था। उसने किले में आग जलवा कर अपनी स्त्रियों को आग में जलवा दिया। तत्पश्चात् अपने दो एक साथियों के साथ पाशेब तक पहुँचा किन्तु उसे मगत दिया गया। इस प्रकार मंगलवार ३ जीकाद ७०० हिजरी (१० जुलाई, १३०१ ई०) को किले पर विजय प्राप्त हो गई। भायन जो इससे पूर्व बहुत आबाद था और काफिरों का निवास स्थान था, मुसलमानों

१ "मिट्टी का मचान जो किले की दीवारों की ऊँचाई के बराबर बनाया जाता था। इस पर आगे और पत्थर फेंकनेवाली मशीनें रखी जाती थीं।

का नया नगर बन गया। सर्व प्रथम बाहिर देव के मन्दिर का विनाश कर दिया गया। इसके उपरान्त कुफ्र के घरों का विनाश कर दिया गया। बहुत से मजबूत मन्दिर जिन्हें कयामत का बिगुल भी न हिला सकता था, इस्लाम के पवन के चलने से भूमि पर सो गए।”^१

जलाउद्दीन से संघर्ष १३०१ में हुआ। उससे लगभग १० वर्ष पूर्व जलालुद्दीन से हम्मीर का संघर्ष हुआ था। इसका अच्छा विवरण खुसरौ ने सन् १२९१ में ही रचित मिफ ताहुल फुतूह नाम के ग्रंथ में दिया है। हम्मीर की पूरी जीवनी के लिए यह अंश भी उपयोगी है इसलिए हम उसे भी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं।

“(व्यवहारी से) दो सप्ताह यात्रा करके सुल्तान रणथंभोर की पहाड़ियों के निकट पहुँच गया। तुर्कों ने देहातों का विनाश प्रारम्भ कर दिया। अभिप्रम दल के सवार भेजे जाने लगे और हिन्दुओं की हत्या होने लगी। सुल्तान स्वयं भ्रमण से चार फरसंग की दूरी पर रहा। कुछ सवार शत्रुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये भेजे गये। (२६) ने पहाड़ियों में शिकारियों की भाँति शत्रुओं की खोज करने लगे। इसी बीच में उन्हें पाँच सौ हिन्दू सवार दृष्टिगोचर हुए, दोनों सेनाओं में युद्ध हो गया। हिन्दू “मार-मार” का नारा लगाते थे। एक ही घावे में ७० हिन्दुओं की हत्या कर दी गई। वे लोग पराजित होकर भाग गये। शाही सेना विजय प्राप्त करके अपने शिविर की ओर वापस हो गई और सुल्तान तक समस्त समाचार पहुँचा दिया गया। उस प्रारम्भिक विजय से सुल्तान का बल और बढ़ गया। दूसरे दिन एक हजार वीर सैनिक भेजे गए...सेना से भ्रमण

दो फरसंग की दूरी पर था, किन्तु बीच में बड़ी कठिन पहाड़ियाँ थीं। शाही सेना एक ही धावे में पहाड़ियों में प्रविष्ट हो गई। उसके वहाँ पहुँच जाने से म्हायन में भी हलचल मच गई। राय को जब सूचना मिली तो उसके हाथ-पैर फूल गए। उसने साहिनी को बुलाया जो हिन्दू नहीं, अपितु लोहे का पहाड़ था और उसके अधीन चालीस हजार सैनिक थे जो मालवा तथा गुजरात तक धावे मार चुके थे। (२७-२८) उससे युद्ध करने के लिये कहा। उसने दस हजार सैनिक एकत्रित किये। वे लोग म्हायन से शीघ्र-तिशीघ्र चल खड़े हुए। तुर्क धनुर्धारियों ने बाणों की वर्षा प्रारम्भ कर दी। (७९) घमसान युद्ध होने लगा। साहिनी भाग गया। एक ही धावे में हजारों रावत मारे गए। तुर्कों की सेना का केवल एक खासादार मारा गया। म्हायन में कोलाहल मच गया। रातों रात राय और उसके पीछे बहुत से हिन्दू म्हायन से रणथम्बोर की पहाड़ियों की ओर भाग गए। (३०) शाही सैनिक विजय प्राप्त करके रणभूमि से सुल्तान की सेवा में उपस्थित हो गए। बन्दी रावतों को पेश किया गया। जब छूट की धन सम्पत्ति पेश की गई तो सुल्तान बड़ा प्रसन्न हुआ।...

तीसरे दिन दोपहर में सुल्तान म्हायन पहुँचा और राय के महल में उतरा। महल की सजावट और कारीगरी देखकर वह चकित रह गया। वह महल हिन्दुओं का स्वर्ग ज्ञात होता था। चूने की दीवारें आइने के समान थीं। उसमें चन्दन की लकड़ियाँ लगी थीं। बादशाह कुछ समय तक उस महल में रहकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वहाँ से निकल कर उसने मन्दिरों और उद्यानों की सैर की। मूर्तियों को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उस दिन तो वह मूर्तियों को देखकर वापस हो गया। दूसरे दिन

उसने सोने की मूर्तियाँ पत्थर से तुड़वा डाली । महल, किला तथा मन्दिर तुड़वा डाले गये । लकड़ी के खम्भों को जलवा दिया गया । (३२) म्हायन की नींव इस तरह खोद डाली गई कि सैनिक धन सम्पत्ति द्वारा मालामाल हो गये । मन्दिरों से आवाज आने लगी कि शायद कोई अन्य महमूद जीवित हो गया । दो पीतल की मूर्तियाँ जिनमें से प्रत्येक एक हजार मन के लगभग थी तुड़वा डाली गई और उनके टुकड़ों को लोगों को दे दिया गया कि वे (देहली) लौटकर उन्हें मस्जिद के द्वार पर फेंक दें । तत्पश्चात् दो सेनाएँ दो सरदारों की अधीनता में भेजी गईं । एक सेना का सरदार मलिक खुर्रम था और दूसरी सेना का सरदार महमूद सर जानदार था । (३३) म्हायन से भागकर कुछ काफिर पहाड़ी के दामन में छिप गये थे । मलिक खुर्रम सूचना पाते ही वहाँ पहुँच गया और अत्यधिक लोगों को बन्दी बना लिया । असंख्य पशु भी प्राप्त हुए । मलिक दासों को लेकर सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ । सर जानदार ने चबल तथा कुवारी नदी पार करके मालवा की सीमा पर धावा मारा और वहाँ बहुत लूट मार की । सुल्तान ने म्हायन से प्रस्थान किया ।^१ जलालुद्दीन के समय के संघर्ष का कुछ वर्णन अमीर खुसरो के तुगलक नामे में भी है । जिसका रचना काल सन् १३२० है । खुसरोखान पर विजय के बाद तुगलकशाह के माषण को सुनकर लोगों ने कहा, “हे अमीर, तू अपने गुणों को दूसरों के नाम से क्यों बताता है । हम लोगों को तेरे विषय में पूर्ण जानकारी है, जिस समय बादशाह (जलालुद्दीन खल्जी) ने रणथम्बोर को घेर लिया और अपनी सेना के चारों ओर एक घेरा तैयार कर लिया तो उस समय राय

रघुचम्बोर की एक चुनी हुई सेना ने उस घेरे पर धावा बोल दिया। इससे बादशाह की सेना में कोलाहल मच गया। उस समय बादशाह ने तुझे भी आदेश दिया और तू ने ही अपनी बीरता तथा परिश्रम से आक्रमण-कारियों को पराजित किया। इस विजय के फलस्वरूप बादशाह ने तुझे विशेष रूप से सम्मानित किया।”^१

अमीर खुसरो की रचनाओं में से उद्धृत ऊपर के अवतरणों में हम्मीर विषयक अनेक तथ्य हैं। किन्तु ये पुस्तकें तत्कालीन सुल्तानों को प्रसन्न करते और उनसे धन बटोरने के लिए लिखी गई थीं। इसलिए इनमें एक भी कटु सत्य न आने पाया है। विवरण एकांगी है और इसे पर्याप्त सावधानी से प्रयुक्त न करने पर कुछ असत्य के प्रचार की सम्भावना है।

एसामी :—एसामी ने ‘फतूहूसलतीन’ की रचना सन् १३५० में की। उसके इतिहास में कई ऐसे तथ्य हैं जो अमीर खुसरो और नयचन्द्र की रचनाओं की अनुपूर्ति करते हैं।

सुल्तान जलालुद्दीन के बारे में उसने लिखा है कि “सुल्तान ने शिकार के नियम से भ्गयन की ओर प्रस्थान किया। भ्गयन पहुँचकर सुल्तान के आदेशानुसार सेना ने किले को टुकड़े-टुकड़े कर दिया। मन्दिरों का विध्वंस तथा हिन्दुओं का विनाश कर दिया।”^२

अलाउद्दीन के माई उलुगखां ने गुजरात की विजय के बाद वापस लौटती समय उलुगखां ने बलात् सरदारों लूट में से सुल्तान का हिस्सा वसूल कर लिया। “कमीज़ी मुहम्मदशाह, कामरू, यलचक तथा बर्क जो

१ खलजी कालीन भारत, पृ० १९२

२ ” ” ” पृ० १९५-९६

पहले मुगल थे, धन सम्पत्ति मांगने पर उलुगखाँ की हत्या करने पर कटि-बद्ध हो गए। उलुगखाँ उस स्थान पर न था जहाँ वह सोया करता था। उन लोगों एक शस्ता का जो कि शिविर के सामने था सिर काट लिया और उसे माले की नौक पर चढ़ाकर सेना में घुमाया। उलुगखाँ चुपके से नुसरतखाँ के पास पहुँचा। नुसरतखाँ ने विद्रोहियों पर आक्रमण कर दिया। यलचक तथा बर्क करणराय के पास भाग गए। कमीजी मुहम्मद शाह तथा कामरू रणथम्बोर के किले की ओर चल दिये।...

“उलुगखाँ ने म्नायन पर आक्रमण किया। जब उलुगखाँ को ज्ञात हुआ कि मुगलों (मुसलमानों) से दो व्यक्ति राय हमीर की शरण में पहुँच गए हैं तो उसने एक दूत राय के पास भेजा और उसे लिखा कि कमीजी मुहम्मदशाह तथा कामरू दो विद्रोही तेरी शरण में आ गए हैं। (२७०-२७१) तू हमारे दुश्मनों की हत्या कर दे अन्यथा युद्ध के लिये तैयार हो जा। हमीर ने अपने मन्त्रियों से परामर्श किया। उन्होंने उसे राय दी कि हमें युद्ध न करना चाहिए और उन दोनों को उनके सिपुर्द कर देना चाहिए। हमीर ने उत्तर दिया कि जो मेरी शरण में आ चुका है। मैं उसे किसी प्रकार हानि नहीं पहुँचा सकता चाहे प्रत्येक विश्वास से इस किले पर अधिकार जमाने के लिए तुर्क एकत्रित क्यों न हो जायँ। राय हमीर ने उलुगखाँ को उत्तर लिख भेजा कि “जो लोग मेरी शरण में आ गए हैं उन्हें मैं किसी प्रकार तुम्हको नहीं दे सकता। यदि तू युद्ध करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ।” उलुगखाँ ने यह उत्तर पाकर रणथम्बोर पर आक्रमण करके किले के निकट पहाड़ी के दामन में शिविर लगा दिए। किन्तु उसने देखा कि किले तक पक्षी भी न पहुँच सकते थे। यह देख

कर उलुगखाँ ने सुल्तान से सहायता करने की प्रार्थना की। (२७२-२७३) सुल्तान ने तुरंत इम्मीर पर आक्रमण करने के लिए शहर के बाहर शिबिर लगा दिए। दूसरे दिन वह तिलपट से म्नायन की ओर रवाना हो गया। शाही सेना ने इम्मीर के किले के निकट पहुँचकर किले के चारों ओर शिबिर लगा दिए। रात-दिन युद्ध होने लगा। प्रत्येक दिशा में ऊँचे-ऊँचे गरगच्च^१ तैयार किए गए। शाही सेना जो भी युक्ति करती, राय उसकी काट कर देता। यदि तुर्क खाइयों को लकड़ी से पाट देते थे तो रात्रि में हिन्दू लकड़ी को जला देते थे। एक वर्ष तक किले को कोई हानि न पहुँच सकी। इसके उपरान्त बादशाह ने एक ऐसी युक्ति की जिसकी काट राय न कर सका। उसने आदेश दिया कि समस्त सैनिक चमड़े तथा कपड़ों के थैले बना कर मिट्टी से भर दें और उन थैलों द्वारा खाई को पाट दें। इस प्रकार किले पर आक्रमण करने लिए मार्ग तैयार हो गया। दो तीन सप्ताह तक घोर युद्ध होता रहा। राय इम्मीर ने जौहर का आयोजन किया। अपनी समस्त बहुमूल्य वस्तुएँ जला डालीं। इसके उपरान्त सबसे विदा होकर युद्ध के लिए निकला। फीरोज़ो मुहम्मद शाह और कामरू भी युद्ध के लिए उसके साथ निकले। राय इम्मीर युद्ध करता हुआ मारा गया^२।”

१ “एक प्रकार का चलता फिरता मंचान जिसे ऊँचा करके किले की दीवार के बराबर कर दिया जाता था और किले पर आक्रमण करने में सुविधा होती थी। कभी-कभी इस पर छत भी होती थी, जिससे किले के भीतर से आक्रमण करने वाले इन्हें कोई हानि न पहुँचा सकें।” (खलजी कालीन भारत पृ० ३)

२ खलजी कालीन भारत, पृ० १९५-६, १९८, २००

जिआउद्दीन बरनी—जियाउद्दीन बरनी का जन्म सन् १२८५ में हुआ। उसने तारीखे फोरोजशाही की समाप्ति सन् १३५७ में की जब बसकी आयु ७२ वर्ष की थी। उसके इतिहास में भी हम्मीर सम्बन्धी अनेक उपयोगी सूचनाएँ हैं। उनमें से मुख्य ये हैं :—

(१) 'सन् ६८९ हिजरी (१२९० ई०) में सुल्तान जलालुद्दीन ने रणथम्बोर चढ़ाई की।०० फायन पहुँच कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। वहाँ के मन्दिरों को क्लृप्त कर डाला। रणथम्बोर का राय, राजकुमारों, मुकद्दमों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं उनके परिवार सहित अपने किले में बन्द हो गया। सुल्तान की इच्छा थी कि रणथम्बोर पर अधिकार जमा लिया जाय। किले को घेर लेने का आदेश दे दिया गया। मगरबी^१ तैयार की गईं। सावान एवं गरगच लगाए गये। किले पर अधिकार जमाने का प्रयत्न आरम्भ हो गया। अभी यह तैयारियाँ हो रही थी कि सुल्तान फायन से सवार हो कर रणथम्बोर पहुँचा। किले का निरीक्षण करके चिन्ता में पड़ गया। सायकाल फिर फायन लौट गया। दूसरे दिन राज्य के पदाधिकारियों तथा सरदारों को बुलवा भेजा। उनसे कहा कि मेरी इच्छा है कि किले पर अधिकार जमा लूँ। कल जब मैंने किले के निरीक्षण करने के उपरान्त सोच-विचार किया तो मेरी समझ में यह आया कि यह किला उस समय तक विजय नहीं हो सकता जब तक मुसल्मानों की बहुत बड़ी संख्या इस किले को प्राप्त

१—इसका अर्थ तोप भी बताया गया है, किन्तु सम्भव है कि इसके द्वारा आय तथा शीघ्र चलने वाले पदार्थ जैसे जाते हों (खजाली कालीन भारत, ३)।

करने के लिये अपने प्राण न त्याग दे और किले पर विजय प्राप्त करने के लिये न्यौछावर न हो जाय। साबातों के नीचे, बसोब बनाने तथा गरगच लगाने में अपनी जान की बलि न दे दे।... यह कहकर किले को विजय करने के विचार त्याग दिये और दूसरे दिन कूच करता हुआ सुरक्षित तथा बिना किसी हानि के अपनी राजधानी में पहुँच गया।”

(२) अलाउलमुल्क की राय से सहमत होकर अलाउद्दीन ने विश्वविजय के स्थान पर सर्व प्रथम भारत के हिन्दू राज्यों को जीतने का निश्चय किया। ‘सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने रणथम्भोर पर विजय प्राप्त करना आवश्यक समझा, कारण कि वह देहली के निकट था और देहली के पिथौराराय का नाती हमीरदेव उस किले का स्वामी था। बयाना की अक्ता के स्वामी उलुगर्खा को उसे विजय करने के लिए भेजा। नुसरतख़ाँ को जो उस वर्ष कड़े का मुक्ता था, आदेश भेजा कि कड़े की समस्त सेना तथा हिन्दुस्तान की सब अक्ताओं की सेनाओं को लेकर रणथम्भोर की ओर प्रस्थान करे और रणथम्भोर की विजय में उलुगर्खाँ की सहायता प्रदान करे। उलुगर्खाँ और नुसरतख़ाँ ने कायन पर अधिकार जमा लिया। रणथम्भोर का किला घेर लिया और किला जीतने में लग गए। एक दिन नुसरतख़ाँ किले के निकट पाशोब बंधवाने तथा गरगच लगवाने में तल्लीन था, किले के भीतर से मगरबी पत्थर फेंके जा रहे थे। अचानक एक पत्थर नुसरतख़ाँ को लगा और वह घायल हो गया। दो तीन दिन उपरान्त उसकी मृत्यु हो गई। यह समाचार अलाउद्दीन को मिला तो वह राजसी ठाठ से शहर से बाहर निकल कर रणथम्भोर की तरफ स्वाना हुआ।”

तिलपत में अलाउद्दीन के मतीजे अकत खाँ ने उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया। 'अकतखाँ के उपद्रव को शान्त करने के पश्चात् अलाउद्दीन लगातार कूच करता हुआ रणथम्भोर की ओर रवाना हुआ और वहाँ पहुँचकर डेरे डाल दिये।...

“इससे पूर्व किले को घेर रखा गया था। सुल्तान के पहुँचने के उपरान्त इसमें और तेजी हो गई। राज्य के चारों ओर से बेरियाँ लाई गईं। उनके थैले बना बना कर सेना में बाँट दिये गये। थैलों में बालू भरी गयी और वे खन्दकों (खाई) में डाल दिये गये। पाशेब बांधे गये। गरगच लगाये गये। किलेवालों ने मगरबी पत्थरों द्वारा पाशेबों को हानि पहुँचानी प्रारम्भ कर दी। वे किले के ऊपर से आग फेंकते थे और लोग दोनों ओर से मारे जाते थे।”

इसी बीचमें अलाउद्दीन को बदायूँ और अवध में उसके भानजों के विद्रोह की सूचना मिली। अपने अमीरों को उनके विरुद्ध भेजकर सुल्तान ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में मौला हाजी ने विद्रोह किया। किन्तु वह भी कई राजसक्त सरदारों ने समाप्त कर दिया। दिल्ली के सब समाचार अलाउद्दीन को मिले। “किन्तु उसने रणथम्भोर का किला जीतने का दृढ सकल्प कर लिया था। अतः वह अपने स्थान से न हिला और न देहली की ओर प्रस्थान किया। जितनी सेना भी किले की विजय में लगी हुई थी, वह सब की सब परेशान हो चुकी थी किन्तु सुल्तान अलाउद्दीन के भय और डर से कोई सवार अथवा प्यादा न तो देहली की ओर प्रस्थान कर सकता और न किसी अन्य ओर।”

“सुल्तान अलाउद्दीन ने हाजी मौला के विद्रोह के उपरान्त बड़े

परिश्रम तथा रक्तपात के पश्चात् रणथम्भोर के किले पर अपना अधिकार जमा लिया। राय हम्मीरदेव तथा उन नव मुसलमानों की जो कि गुज्जरान के विद्रोह के उपरान्त भाग कर उसकी शरण में पहुँच गए थे, हत्या करा दी। रणथम्भोर तथा उस स्थान के भास पास के विलायत (प्रदेश) एव वहाँ का सब कुछ उलुगखाँ के सुपुर्द कर दिया गया^१।

अहमद बिन अब्दुल्लाह सरहिन्दी—इस लेखक की तारीखे मुबारकशाही में भी हम्मीर पर आक्रमण का वर्णन है। इसके अनुसार हम्मीर के पास १२,००० सवार, अग्रणित प्यादे तथा प्रसिद्ध हाथी थे^२।

फरिश्ता :—फरिश्ता ने अपनी तवारीख 'तारीखे फरिश्ता' की रचना सन् १६०६-१६०७ में की। उसका निम्नलिखित वर्णन भी कुछ नवीन तथ्यों से युक्त है :—

“नुसरतखाँ की मृत्यु के बाद हम्मीरदेव ने दो लाख सवारों और पैदलों के साथ गढ़ से निकल कर युद्ध किया। उलुगखाँ घेरा उठाकर फाईन वापस गया और वहाँ से सब हाल बादशाह को लिखा। जब गढरोध एक साल तक या दूसरे कथन के अनुसार तीन साल तक चल चुका था, बादशाह ने चारों ओर से सेना एकत्रित की और उन्हें थैले बाँटे। हर एक ने अपना थैला भरा और उसे खाई में फेंका,

१—खलजीकालीन भारत, पृ० २२-२३, ५९-६५,

२— ” ” पृ० २२३-२२४।

जिसका नाम 'रन' था। इस तरह (गढ़ की) दिवार तक ऊँचाई बनने पर घिरे हुए आदमियों को इराकर उन्होंने किला ले लिया। इम्मीरदेक अपने जानि माइयों के साथ मारा गया। मुहम्मद शाह के नेतृत्व में कई लोगों ने विद्रोह किया था और जालोर से रणथम्भोर भाग आए थे। ये अधिकांश में मारे गए। मीर मुहम्मद शाह स्वयं घायल होकर पड़ा हुआ था। जब सुल्तान की नजर उस पर पड़ी तो उसने दयाभाव से उससे पूछा, मैं तुम्हारी मर्हमपट्टी करवाऊँ और तुम्हें इस खतरनाक हालत से बचा लूँ तो भविष्य में तुम मेरे से कैसा व्यवहार करोगे ?" उसने उत्तर दिया, "मैं स्वस्थ हुआ तो तुम्हें मार कर मैं इम्मीरदेव के पुत्र को गद्दीनशीन करूँगा।" क्रोधाविष्ट होकर सुल्तान ने उसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया, किन्तु फौरन ही मुहम्मदशाह की हिम्मत और स्वामिधर्मिता का स्मरण कर उसके मृत शरीर को अच्छी तरह दफनवा दिया। इसके अतिरिक्त उसने उन आदमियों को भी मरवा दिया... जिन्होंने राजा को छोड़ दिया था, जैसे राजा के वजीर रणमल आदि। उसने कहा, "अपने स्वामी के प्रति इनका ऐसा व्यवहार रहा है। ये मेरे प्रति सच्चे कैसे हो सकते हैं ?"

बरनी के बर्णन से अमीर खुसरों की कुछ जान बूझ कर की हुई गलतियाँ दूर की जा सकती हैं। जलालुद्दीन ने न खुशी से रणथम्भोर छोड़ा और न झाड़िन। वह इसके लिए विवश हुआ था। इम्मीर ने

१—खजाइनुलफूतूह, जर्नल आफ इण्डियन हिस्ट्री, १६२६, पृ० ३६५ पर तारीखे फरिश्ता से अग्रेजी में अनूदित अवतरण का हिन्दी अनुवाद।

अलाउद्दीन को भी आसानी से दुर्ग नहीं दिया, उसने अन्त तक अलाउद्दीन का सामना किया और अनेक बार उसके प्रयत्नों को विफल किया। और इसामी का वर्णन तो और भी अधिक उपयोगी है। उसने चारों मुगल बन्धुओं के नाम दिए हैं। नयचन्द्र ने महिमासाहि को काम्बोज कुलान्बक बनाया है, क्योंकि उसका नाम कमीजी मुहम्मदशाह था। नयचन्द्र का गामरूक वास्तव में कामरू है, और विचर और तिचर वास्तव में यलचक तथा बर्क हैं। इनमें से इसामी के कथनानुसार यलचक और बर्क कर्ण के पास चले गए थे। किन्तु यह सम्भव है कि वहाँ अपने को सुरक्षित न समझ कर वे रणथम्भोर चले आए हों। उसने उलुगखाँ और इम्मीर को दूत द्वारा उत्तर और प्रत्युत्तर भी दिया है। इसमें इम्मीर के वास्तविक चरित की अच्छी मलक है। उलुगखाँ और अलाउद्दीन के दुर्ग को हस्तगत करने के प्रयत्नों का भी इसमें विशद वर्णन है। जौहर का और इम्मीर की वीर मृत्यु का भी इसामी ने समुचित रूप में उल्लेख किया है। फरिश्ता के वर्णन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अन्य मुसल्मानी तवारीखों में नहीं हैं।

शिलालेख

इम्मीर के दो तिथियुक्त शिलालेख मिले हैं, एक संवत् १३४५ का और दूसरा संवत् १३४९ का। पहले में रणथम्भोर छात्रा के तीन राजाओं के नाम हैं, बाम्मट, जैत्रसिंह और इम्मीर। जैत्रसिंह ने मण्डप के राजा जबसिंह को तप्त किया, कूर्मराज और कर्करालगिरि के राजा को मारा। म्मफाइथाघाटे में उसने मालवे के राजा के सैकड़ों वीर योद्धाओं को

पराजित किया । और रणथम्भोर में कैद में डाला । उसका पुत्र हम्मीर था । हम्मीर ने अर्जुन को हराकर मालवे से उसली यशः श्री छीन ली । उसका मन्त्रिसुख्य कटारिया जातीय कायस्थ नरपति था । प्रशस्ति लेखक हम्मीर का पौराणिक बीजादित्य था । दूसरे की तिथि माघ शुक्ला षष्ठी है ।

बलवन का शिलालेख सन् १२८८ (सं० १३४५) की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति को समझने के लिए विशेषरूप से उपयोगी है । उसके मूल पाठ का ऐतिहासिक भाग निम्नलिखित है :—

ॐ “शंभो लम्बोदरो देयादेककालं कलत्रयोः ।

बुद्धिः सिद्धयोः स्तन-स्पर्श-हेतीरिव चतुर्भुजः ॥ १ ॥

द्रु-श्लोपद्-कुष्ठ दुष्टवपुषामाधि विनिघ्नन्तृणां

कारुण्येन समीहितं वितनुतां देवः कपालीश्वरः ।

वामे यस्य चकास्ति चक्रतटिनी पृष्ठे च मन्दाकिनी

निर्यत्-केतुमुखापगां-जलबहं कुंडं प्रसिद्धं पुरः ॥ २ ॥

यदंतिके श्राद्धकृतां कुलकोटि विमुक्तिदः ।

अनादिपादपोद्यापि दृश्यते किल शात्मलि ॥ ३ ॥

चाहमान-नरेन्द्राणां वंशो विजयतामय ।

उपायुज्यत यद्दंडः कलौ गोशृष रक्षणे ॥ ४ ॥

कलिकाल केसरि-कुल-अस्यद्-गोचक्र-रक्षणेदक्षताः ।

अमबन्-विजित-विपक्षा पृथिवीराज्यादयो भूपाः ॥ ५ ॥



तद्वंशे राजानो भानव इव वैधवा बभूवांसः ।

वाग्भट देव-प्रमुखाः जन-कुमुदोत्लासनैक-सद्भावाः ॥ ६ ॥

ततोभ्युदयमासाद्य जैत्रसिंह-रवि-र्नवः ।

अपि मंडप-मध्यस्थं जयसिंहमतीतपत् ॥ ७ ॥

कूर्म-क्षितीश-कमठी कठिनोस्कंठ-

पीठी-विलठन-कठोर-कुठारधारः ॥

यः कर्करालगिरि पालक पाल पालि-

खेलत्-कराल-करवाल-करो विरेजे ॥ ८ ॥

येन ऋपाइथा-घट्टे मालवेश-भटाःशतं ।

बद्धवा रणस्तमपुरे क्षिप्ता नीताश्च दासताम् ॥ ९ ॥

तस्मिन् सुवर्ण-धन-दान-निदान-पुण्य-

पथैः पुरदर-पुरी-तिलकायमाने ।

साम्राज्यमाज्य-परितोषितहृदयवाहो

हंसीर-भूपतिरविन्दत भूतधात्र्याः ॥

यः कोटिहोम-द्वितयं चकार

श्रेणीं गजानां पुनरानिनाय ।


निज्जित्य येनार्जुनमाजि मूर्च्छि

श्रीमालवस्योज्जग्रहे हठेन ॥ ११ ॥

रणस्तंमपुरे दुर्गे वेश्म पुष्पक संज्ञकं ।

तिसृभिर्भूमिभिर्युक्तं यः क्रांचनमचीकरत् ॥ १२ ॥

इसके बाद में मथुरा-पुरी-विनिर्गत कटारिया कायस्थों के एक वंश का वर्णन है । उसकी वंशावली निम्नलिखित है :—



नरपति जैत्रसिंह और हम्मीर का मंत्रि-मुख्य था । उसका कुल धीर स्वामिनी और सप्ताश्व (सूर्य) का पूजक था । उसने रणथंभोर में चार मन्दिर और पिप्पलवाट में बापी बनाई । सिंहपुरी, कुरुक्षेत्र और गोदावरी पर एक-एक सहस्र गाय ब्राह्मणों को दीं । नरपति की पत्नी ने एक ही दिन

स्नान करके ताम्र, कांस्य आदि वस्तुओं की दश तुला दीं। गुरु के सिंहराशिस्थ होने पर उसने सुवर्णशुद्ध बाली सौ गौ आसनों को दीं। उनका पुत्र सूर्यमन्त्र के स्मर का ज्ञाता था। लौल त्रिपुरा का पूजक था। लक्ष्मीधर विविधदेशीय लिपियों और अनेक विद्याओं को जानता था और राजा के यहाँ उसका मान था। सोम धनी था और विद्वान् भी।

श्रीहम्मीर के पौराणिक नृपामात्य वैजादित्य ने इस प्रशस्ति की रचना की।

अग्रिम पंक्तियों में इन्हीं सब इतिहास के साधनों के आधार पर हम हम्मीर के जीवन की इतिहासानुमत जीवनी प्रस्तुत कर रहे हैं। 'सत्य ही आनन्द है',—एसा पूर्ण विश्वास रखते हुए हम आशा रखते हैं कि हम्मीर-विषयक साहित्य के प्रेमी इस इतिवृत्त से भी कुछ आनन्द की प्राप्ति करेंगे।

हम्मीर

भारतीय संस्कृति और स्वतन्त्रता के लिए युद्ध करना सदा से चौहान जाति का कर्तव्य रहा है। पृथ्वीराज और हम्मीर के वंशजों में अब भी आदर्श विशेष की प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले पूर्वजों के प्रति सम्मान है; अब भी अनेक चौहान हृदयों में यह प्रबल उत्कण्ठा है कि अपने महान् पूर्वजों की तरह वे भी अपनी मातृभूमि की सेवा करें। कहा जाता है कि म्लेच्छों से देश की रक्षा करने के लिए आदि चाहमान का जन्म हुआ था। यह पुरानी कथा है। किन्तु ऐतिहासिक काल में उनकी म्लेच्छ-विरोधी सेवाओं के अनेक प्रमाण हैं। आठवीं-शताब्दी में जब अरब लोग सिन्ध को जीतकर चारों ओर अग्रसर होने लगे तो अनेक राजपूत

जातियों ने जिनमें प्रतिहार, चौहान और राष्ट्रकूट प्रमुख हैं भारत की स्वतन्त्रता और संस्कृति की रक्षा के लिए सफल संग्राम किया चौहानों को इस बात का गर्व था कि वे कार्यान्वयन 'आदिबराह' विरुद्ध को धारण करनेवाले महाराजाधिराज भोज के दाहिने हाथ थे । और जब प्रतिहार साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया और मुसलमानी सेनाएँ भारतीय संस्कृति और स्वातन्त्र्य को पददलित करती हुई चारों ओर धावे मारने लगी, चौहानों ने इन विधमियों से मोर्चा लेने का बीड़ा उठाया । दुर्लभराज तृतीय ने यवनराज इब्राहीम को रोकने में प्राण दिए,^१ अजयराज को प्रसिद्ध 'मुस्लिम सेनापति बहल्लिम का सामना करना पड़ा,^२ और अजयराज के पुत्र अणोरराज ने उस मैदान में, जहाँ वर्तमान आनासागर है, बुरी तरह से मुसलमानों को परास्त कर अजयमेरु को वास्तव में अजय सिद्ध कर दिया^३ । बीसलदेव चतुर्थ को तो गर्व ही इस बात का था कि म्लेच्छों का विच्छेदन कर आर्यावर्त को मच्छे अर्थ में आर्यावर्त बना दिया था^४ । पृथ्वीराज तृतीय के वीरकृत्यों से सभी परिचित हैं । भारत की फूट और राजपूतों की राजनैतिक बालिशता का एक ज्वलंत उदाहरण तराईन का दूसरा संग्राम है^५ ।

१. देखें 'अली चौहान डिनेस्टीज' (प्राचीन चौहान राजवंश) पृ० ३५

२. देखें वही पृ० ३८-४२

३. देखें वही पृ० ४३-४५ जिस मैदान में मुसलमान हारे थे, उसे पवित्र करने के लिए ही आनासागर झील का निर्माण हुआ था (पृथ्वीराज विजय, ६, १-२७)

४. देखें 'अली चौहान डिनेस्टीज', पृ० ६०-२

५. विशेष विवरण के लिए देखें वही, पृ० ८८-९०

अजमेर और दिल्ली छोड़कर चौहानों ने रणथंभोर में एक नया राज्य की स्थापना की। किन्तु सन् १२२६ में इल्तुत्तिस ने रणथंभोर पर अधिकार कर लिया। लगभग दस साल बाद पृथ्वीराज तृतीय के प्रपौत्र वाग्भट ने रणथंभोर पर घेरा डाला। थोड़े ही दिनों में दुर्गस्थ मुस्लिम मिपाही भूख और प्यास से तड़पने लगे। यह अज्ञान है कि उनमें से कितने बचे, किन्तु यह निश्चित है कि चौहानों ने रणथंभोर पर वापस अधिकार जमा लिया। मुसलमानों ने सन् १२४८ और १२५३ में दुर्ग को फिर जीतने की कोशिश की^१। किन्तु दोनों बार क्राफ़ी हानि उठाकर उन्हें वापस होना पड़ा और वाग्भट की शक्ति लगातार बढ़ती ही गई।

सन १२५४ के लगभग वाग्भट का पुत्र जैत्रसिंह सिंहानारूढ़ हुआ। इम्मीर के शिलालेख के अनुसार, “जैत्रसिंह एक नवीन प्रकार का सूर्य था, क्योंकि उसने मण्डप में भी स्थित जयसिंह को तप्त किया। उसके कठोर कुठार की धारा ने कूर्मराज (कछवाहे राजा) के कंठ का छेदन किया था। उसकी तलवार कर्करालगिरि के पालक के सिर पर खेल चुकी थी, उसने ऋषाडथा-घट्ट में मालवे के राजा के सौ सैनिकों को पकड़ लिया और उन्हें अपना दास बनाया^२” इस उल्लेख से स्पष्ट है कि जैत्रसिंह भी प्रवर्धमान राज्य का स्वामी था। शायद आमेर के कछवाहे राजा को मारकर उसने आमेर का कुछ भू-भाग अपने राज्य में मिला लिया हो। कर्करालगिरि शायद यादव राजपूतों के हाथ में रहा हो। विशेषः सवर्ष मालवे से था। ऋषाडथा घट्ट (ऋषाडत-घाट) के स्थान पर (जो चंबल

१ देखें वही पृ० १०३ १०५

२ शिलालेख ऊपर देखें। यह श्लोकों का भावार्थ मात्र है।

नदी पर लाखेरी के स्टेशन से ठीक दस मील दक्षिण की ओर है) जैत्रसिंह ने मालवे के अनेक सैनिकों को पकड़ा। सम्भव है कि मालवा वालों ने जैत्रसिंह के अनेक छोटे-मोटे आक्रमणों के उत्तर में कुछ सेना भेजी हो, या उस घाटी द्वारा रणथम्भोर के राज्य पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया हो। उस समय जयसिंह तृतीय धारा का शासक था; किन्तु सम्भव है कि मण्डप को ही इसने अपना मुख्य आवास स्थान बनाया हो। डा०डी०सी० सरकार के मतानुसार इसका दूसरा नाम जयवर्मा भी था^१। इसका एक दान पत्र वि० सं० १३१७, ज्ये० सुदी ११ का मंडपदुर्ग (मांडू) से दिया हुआ मिला है (एपिग्राफिया इण्डिका, ९, १२०-३)

सन् १२५९ में दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन ने रणथम्भोर को हस्तगत करने का प्रयत्न किया। किन्तु उसके सिर पर भी असफलता का ही सेहरा बंधा^२।

जैत्रसिंह के तीन पुत्र थे, सुरतान, वीरम और हम्मीर। सुरतान इनमें ज्येष्ठ था, किन्तु हम्मीर सबसे योग्य। अतः जैत्रसिंह ने अपने जीवनकाल में ही वि० सं० १३३९ (सन् १२८३) माघ शु० पूर्णिमा, रविवार के दिन हम्मीर का राज्याभिषेक किया^३। इसके बाद भी जैत्रसिंह सम्भवतः तीन वर्ष और जीवित रहा।

हम्मीर के राज्य के आरम्भिक काल में राजनैतिक स्थिति बहुत कुछ उसके अनुकूल थी। सन् १२८६ में बल्लन की मृत्यु के बाद लगभग चार

१. परभारवंश वर्णन, पृ० ९ टिप्पण १४

२. अली चौहान डिनेस्टीज, पृ० १०५-१०६

३. हम्मीर महाकाव्य ७, ५३-५६

साल तक दिल्ली में कोई ऐसा शासक न था जो हम्मीर की बढ़ती शक्ति को रोकता। मालवे का पड़ोसी राज्य भी अवनति की ओर अग्रसर हो रहा था। शायद वह दो भागों में भी विभक्त हो चुका हो, जिसमें एक की राजधानी शायद मड़प में और दूसरे की अन्यत्र हो। वास्तव में देवपाल की मृत्यु के बाद ही स्थिति खराब हो चली थी। मालवे का अमात्य गोगदेव आधे मालवे का स्वामी बन बैठा था; अवशिष्ट भाग में भी कुछ शान्ति न थी। गुजरात में सारङ्गदेव का राज्य था। किन्तु गुजरात के भी समृद्धि के दिन बीत चुके थे। चित्तौड़ में महाराजकुल समरसिंह राज्य कर रहा था जो शक्तिहीन तो नहीं, किन्तु जिगीषु राजा न था।

अमीरखुसरो अपने ग्रन्थ मिर्जातुलफुतुह में, जिसकी रचना सन् १२९१ में हुई थी, हम्मीर के एक साहनी का जिक्र किया है जिसने मालवा और गुजरात तक धावे किए थे^१। इससे स्पष्ट है कि हम्मीर की दिग्विजय सन् १२९१ से पूर्व हो चुकी थी, और ऐसा ही अनुमान हम हम्मीर के बि० सं० १३४५ (सन् १२८८) से शिलालेख से भी कर सकते हैं।

हम्मीर विजय महाकाव्य में इस दिग्विजय का वर्णन निम्नलिखित है^२ :-

“कोई कहते थे कि इसकी सेना में हाथी अधिक हैं, कोई घोड़े, कोई इसके पैदलों के और कोई उसके रथों के प्राचुर्य की बातें करता था। क्रम से पृथ्वी को पार करता हुआ वह भीमरसपुर पहुंचा। वहाँ शत्रुत्व धारण करने वाले अर्जुनराजा को अपनी तलवार से कूटकर उसने अपना आकाशारी

१, ऊपर उद्धरण देखें।

२, हम्मीर महाकाव्य, ९, १४-४८, प्रशासनात्मक विज्ञेयण और इतिहास की दृष्टि से असार्थक वर्णनों का अनुवाद हमने नहीं किया है।

बनाया । फिर मण्डलकृत्य दुर्गा से कर लेकर वह शीघ्र ही धारा पहुँचा, वहाँ परमार वंश में प्रौढ़ राजा भोज को, जो दूसरे भोज की तरह था, उसने स्नान किया । तदनन्तर उसने अर्चति (उज्जयिनी) पर आक्रमण किया और शिप्र में स्नान कर महाकाल का अर्चन किया । वहाँ से लौटकर उसने चित्रकूट को कूटा और आव्यू पहुँचकर वहाँ अपने तम्बू लगाए । पहाड़ पर चढ़कर विमलवसही में उसने श्रीऋषभदेव को प्रणाम किया । वस्तुपाल के मन्दिर को देखकर वह विस्मित हुआ । अर्बुदा को उसने भक्ति समेत प्रणाम किया और वशिष्ठाश्रम में आराम कर और मन्दाकिनी में स्नान कर उसने भगवान् अचलेश्वर का पूजन किया । यहाँ अर्बुदेश्वर ने उसे सर्वस्व अर्पण किया । वहाँ से उतर कर वर्धनपुर को निर्धन और चङ्गा को रजरहित कर वह अजमेर होता हुआ पुष्कर पहुँचा और स्नान किया । उसके बाद शाकम्भरी, महाराष्ट्र और खंडिल्ल को उसने निध्रम किया । ककराला में त्रिभुवनाद्रि के स्वामी ने उसे मान दिया । इस प्रकार सर्वत्र विजय करता हुआ वह रणथंभोर लौटा^१ ।”

इन सब विजित स्थानों की पहचान कुछ कठिन है । पहला स्थान भीमरस है जिसका स्वामी अर्जुन था । यह अर्जुन सम्भवतः मालवे का राजा अर्जुन होगा, जिसे हराकर हम्मीर ने बलात् उसके हाथी छीन लिए थे^२ । इस विजय के फलस्वरूप चम्बल से लगता हुआ मालव राज्य का कुछ भाग भी हम्मीर के हाथ लगा होगा । दूसरा विजित स्थान मण्डलकृत्य है । यह सम्भवतः माण्डू है । हम्मीर के पिता ने उसके राजा जयसिंह को तप्त किया था । हम्मीर ने उस नगर से कर वसूल किया । हम्मीर महाकाव्य में इससे

भाग बढ़कर हम्मीर द्वारा धाराधीन भोज द्वितीय की पराजय का वर्णन है। किन्तु सं० १३४५ के हम्मीर के शिलालेख में इस विजय का उल्लेख नहीं है। इसलिये या तो यह विजय वि० सं० १३४५ के बाद हुई होगी। या नयचन्द्र के वर्णन में कुछ अत्युक्ति है। धारा के बाद हम्मीर का प्रयाण उत्तर की ओर है। उसने उज्जयिनी पर आक्रमण किया। वहाँ से मुड़कर उसने चित्रकूट पर क्रापा मारा। नयचन्द्र का यह कथन सत्य माना जाय तो महारावल समरसिंह को भी हम्मीर के हाथ पराजित होना पड़ा था। चिसौड़ से हम्मीर आबू पहुँचा। उस समय अर्बुदेश्वर सम्भवतः प्रतापसिंह परमार रहा हो। वर्धनपुर बदनौर है और चङ्गा इसी नाम का मेरों का दुर्ग। उसके बाद पुष्कर में स्नान कर सांभर पहुँचना कठिन न था। महाराष्ट्र सम्भवतः मरोठ है, जो सांभर से कुछ अधिक दूरी पर नहीं है और खण्डिल्ल खंडेला है।

नयचन्द्र ने इस सब विजयों को एक साथ रख दिया है। किन्तु अधिक सम्भव यह प्रतीत होता है कि संवत् १३४५ (सन् १२८८) से पूर्व दो दिग्विजय हो चुकी थी। इस संवत् के ऊपर उद्धृत शिलालेख के ग्यारहवें श्लोक में हमीर के दो कोटि होमों का और बारहवें श्लोक में काञ्चन विनिमित तीन भूमि से समायुक्त पुष्पक सङ्क नाम के प्रासाद का वर्णन है। इनमें से एक एक कोटि होम एक एक दिग्जय के बाद हुआ होगा। शिलालेख से यह भी निश्चित है कि उस समय तक यह प्रयाण मुख्यतः माछवे के विरुद्ध ही हुए थे। मरोठ, खण्डिल्ल आदि पर प्रयाण सम्भवतः सन् १२८८ ई० के बाद की घटनाएँ हैं। किन्तु इन दिग्जयों के होने की सम्भावना अवश्य है क्योंकि सन् १२९१ में निमित अपने ग्रंथ 'मिफताहुलफुतुह' में

अमीर खुसरो ने हम्मीर के गुजरात तक के आक्रमणों का उल्लेख किया है ।

इन प्रयाणों से हम्मीर को प्रचुर धन की प्राप्ति हुई । उसकी कीर्ति भी दिग्दिगन्त में फैली । ब्राह्मणों और गरीबों को भी धन की प्राप्ति हुई । किन्तु अन्ततः उसे इस नीति से विशेष लाभ हुआ या नहीं—यह संदिग्ध है । ये प्रयाण यदि किसी मुसल्मानी प्रान्त या राज्य पर होते तो देश को अधिक लाभ होता ।

किन्तु हम्मीर मुसल्मानों पर आक्रमण करता या न करता उनसे उनका संघर्ष अवश्यम्भावी था । सन् १२९० ई० में गुलाम वश का अन्न हुआ और जलालुद्दीन खल्जी दिल्ली का सुल्तान बना । विशेष युद्ध प्रिय न होने पर भी उसने रणथम्भोर पर आक्रमण करना आवश्यक समझा । पृथ्वीराज के किसी वंशज की बढ़ती हुई शक्ति दिल्ली के मुसल्मानी साम्राज्य के लिए असह्य थी ।

हम ऊपर इस आक्रमण के तत्सामयिक वर्णन को उद्धृत कर चुके हैं । उस आक्रमण की मुख्य घटनाएँ ये थीं :—

(१) रणथम्भोर की पहाड़ियों के निकट पहुँच कर तुकों ने गाँवों को नष्ट करना शुरू कर दिया । हिन्दुओं के ५०० सवारों से उनकी मुठभेड़ हो गई । इसमें इनकी विजय हुई । (मिफताहुल फुतूह)

(२) दूसरे दिन मुसल्मानी सेना फायन की कठिन घाटी में प्रविष्ट हो गई । हम्मीर के साहनी ने, जिसने भालवे और गुजरात तक धावे मारे थे, इन पर आक्रमण किया किन्तु वह पराजित हुआ । फायन मुसल्मान के हाथ आया (बही)

(३) तीसरे दिन जलालुद्दीन म्हायन के राजमहल में उतरा और चौथे दिन उसने म्हायन के मन्दिरों को नष्ट भ्रष्ट किया। मन्दिर, महल, किला सब उसने तुड़वा डाले (बही)

(४) यहाँ से बढ़ कर रणधम्मोर को घेर लिया गया और अनेक यंत्र लगाए गए। अन्दर से निकल कर हम्मीर ने सेना पर ऐसा आक्रमण किया कि लोगों के हाथ पैर फूल गए। केवल तुगलक खान ने कुछ स्थिति सभाली। किन्तु जलालुद्दीन ने रणधम्मोर लेने का विचार सर्वथा छोड़ दिया और म्हायन से “दूसरे दिन कूच करता हुआ तथा बिना किसी हानि के अपनी राजधानी पहुँच गया” (तुगलकनामा और तारीखे फिरोजशाही)

हम्मीर महाकाव्य में जलालुद्दीन के समय के इस संघर्ष का वर्णन नहीं है। उसके अनुसार दिग्विजय के बाद पुरोहित विश्वरूप के कहने पर हम्मीर ने काशीवासी एवं अन्य विद्वान् ब्राह्मणों की सहायता से कोटियज्ञ आरम्भ किया। उसने मारि का निवारण और सातों व्यसनों का वर्जन किया। कारागारों से उसने कैदी छोड़े और अनेक प्रकार के दान दिए। फिर पुरोहित के कहने पर उसने एक महीने का व्रत ग्रहण किया। इसी बीच में अलाउद्दीन ने इसे अच्छा अवसर समझ कर उल्खखान (उलुखान) को रणधम्मोर के विरुद्ध भेजा। (घाटी के) अन्दर प्रवेश करने में असमर्थ होकर वह वर्णाशा (बनास) नदी के किनारे ठहरा। उसने गाँव जलाए, फसल नष्ट की। हम्मीर उस समय मौनव्रत में था, इसलिए धर्मसिंह के कहने से सेनानी भीमसिंह ने मुस्लिम फौज पर आक्रमण किया, और उसे हराकर वापस लौटने लगा। उसके बाकी साम्री विजय की खुशी में

आगे बढ़ गये। भीमसिंह ने जब घाटी में प्रवेश किया तो मुसल्मानों से छिने हुए बाघ उसने बजा डाले। इसे अपनी जय का संकेत समझ कर चारों ओर से मुसल्मानी सैनिक आ जुटे, और अपने परिमित साथियों के साथ मुसल्मानों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ भीमसिंह मारा गया। उसके बाद “शकेन्द्र” भी शीघ्रता से अपने शिविर में पहुँचा और क्षत्रियों से डरता हुआ अपने नगर को लौट गया। धर्मसिंह को अंधेपन और कायरता के लिए निन्दित करते हुए, इम्मीर ने मौनव्रत के अन्त में धर्मसिंह को वास्तव में शरीर से अन्धा और पुस्त्वहीन कर दिया और उसके स्थान पर खड्गग्राही (खांडाधर) भोज को नियुक्त किया^१।”

इम्मीर महाकाव्य की इस कथा का मुसल्मानी तबारीखों में जलालुद्दीन के रणथम्भोर पर आक्रमणों के वर्णन से तुलना करने पर प्रतीत होता है कि भीमसिंह की मृत्यु वास्तव में अलाउद्दीन के विरुद्ध नहीं, अपितु जलालुद्दीन के विरुद्ध लड़कर हुई थी। यही ‘सेनानी भीमसिंह’ मिफताहुल फुतूह का ‘साहणी’ था, जो ‘हिन्दू नहीं अपितु लोहे का पहाड़ था’ और जिसके अधीन ४०,००० सैनिकों ने मालवे और गुजरात तक धावे मारे थे म्हायन की कठिन घाटी में इसी का मुसल्मानों से युद्ध हुआ था। तुगलक नामे और फिरोजशाही के वर्णनों से यह भी सिद्ध है कि अन्ततः इस आक्रमण में जलालुद्दीन को कुछ सफलता ही न मिली, उसे वहाँ से सुरक्षित बचकर निकलने में भी आशङ्का होने लगी। और जिस प्रयाण के बारे में बरनी कह सका कि म्हायन से दूसरे दिन कूच करता हुआ तथा बिना किसी हानि के सुल्तान अपनी राजधानी पहुँच गया, उसीके बारे में नयचन्द्र ने

वह कहने में कुछ अत्युक्ति न की है कि 'शकेन्द्र शीघ्रता से अपने शिविर में पहुँचा और क्षत्रियों से डरता हुआ अपनी पुरी को लौट गया।'

अलाउद्दीन के बादशाह होने पर स्थिति फिर बदली। दक्षिण की लूट का अपार धन उसके पास था, उसके पास न सेनाकी कमी थी और न सेनापतियों की। उसकी इच्छा भी यही थी कि समस्त भारत को जीत लिया जाय। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सन् १२९८ में गुजरात पर आक्रमण कर सोमनाथ के मन्दिर को नष्ट कर दिया। समस्त हिन्दुसंसार क्षुब्ध हुआ, किन्तु कोई इसका प्रतीकार न कर सका। सेना अपनी लूट लेकर दिल्ली लौटनी समय सिराणा गाँव के निकट पहुँची, तो उसमें कुछ हलचल मची। मुसलमानी नियम के अनुसार लूट का कुछ भाग लूटनेवाले को मिलता है और कुछ राज्य को; किन्तु इस अभियान में बहुत सा लूट का सामान, विशेष कर मोती जवाहरात आदि वस्तुएँ सैनिकों ने छिपा ली थी। मुसलमानी सेना के सेनापति उलुगखाँ ने सब को लूट का माल वापस करने करने के लिए जब विवश किया तो कमीज़ी मुहम्मद शाह, कामरू, यलचक तथा बर्क, जो पहले मुगल थे, उलुगखाँ को मारने के लिए तैयार हो गए। रात को वे उलुगखाँ के तम्बू में जा घुसे, किन्तु भाग्यवशात् उलुगखाँ अपने सोने के स्थान पर न था। वह चुपके से नुसरतखाँ के पास पहुँचा। नुसरतखाँ से पराजित होके विद्रोही वहाँ से भागे। एसामी के कथनानुसार यलचक और बर्क गुजरात के राय कर्ण बघेला के पास भागे और मुहम्मदशाह तथा कामरू ने रणथम्भोर में शरण ग्रहण की।

२. ऊपर दिए फुतूहुस्सलातीन और तारीखे फिरोजशाही के अवतरण देखें।

किन्तु नयचन्द्र के कथनानुसार ये चारों ही रणथम्भोर में थे, और उसने इनके नाम महिमासाहि, गर्भरूक, तिचर और वैचर के रूप में दिए। बहुत सम्भव है कि राय कर्ण की शरण में अपने को सुरक्षित न पाकर ये कुछ समय बाद रणथम्भोर आ गए हों।

मुहम्मदशाह की रणथम्भोर पहुँच कर शरणदान की प्रार्थना सभी इम्मीर विषयक काव्यों में वर्तमान है। इम्मीर ने उने शरण ही नहीं दी, उसे अपने भाई की तरह रखा। चाहे कार्य नीति-सम्मत रहा हो या असम्मत हिन्दू संसार ने इम्मीर के इस आदर्श त्याग को नहीं भुलाया है। वह उसी के कारण अमर हैं। राजनैतिक दृष्टि से भी कार्य कुछ बुरा न था। अलाउद्दीन से युद्ध तो अवश्यम्भारवा था। आज एक राज्य की तो कल दूसरे की बारी थी। ऐसी अवस्था में शत्रु के शत्रुओं से मैत्रो नीतिपूर्ण थी। अनीतिपूर्ण तो शायद इससे पूर्व के इम्मीर के कार्य थे जिनकी वजह से सभी आसपास के राजा उससे सशङ्कित हो उठे होंगे। अपने लगभग अठारह वर्ष के राज्य में उसने राज्य की सीमा बढ़ाई, अनेक कोटि यज्ञ किए। और ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। किन्तु उसकी सामान्य प्रजा को उसकी नीति से शायद ही कुछ विशेष लाभ हुआ हो। उसकी सैन्य-संख्या बहुत बड़ी थी, और राज्य के निजी साधन बहुत कम। जबतक धन दूसरे राज्यों की लूट से आता रहा, सैन्यभार कुछ विगेष दुःखदायी न था। किन्तु जब लुटेरों की सख्या बढ़ गई, मुसल्मानी आक्रमणों की शक्ता से इम्मीर के लिए अपने ही राज्य में रहना आवश्यक हो गया और कोटि मखादि के व्यय से कोश बहुत कुछ रिक्त हो गया, इसके सिवाय उपाय हो क्या था कि वह प्रजा पर नित्य नवीन कर लगाए। दिल्ली में अलाउद्दीन को भी आर्थिक

आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, किन्तु उसमें स्वयं वह बौद्धिक शक्ति थी जो सैनिक ही नहीं, आर्थिक समस्याओं को सुलझा सके। इम्मीर को आर्थिक समस्याएँ सुलझाने के लिए मंत्रियों का सहारा लेना पड़ा।

उसके मन्त्रियों में धर्मसिंह अर्थ चिन्तन में कुशल था। किन्तु उसे हटाकर इम्मीर ने यह कार्य खाँडाधर भोज को दिया था, और भोज तो कोरा खाँडाधर ही निकला। न वह पर्याप्त धन ही एकत्रित कर सका, और न वह कुछ व्ययादि ही का हिसाब किताब रख सका। अतः विवश होकर इम्मीर ने अर्थचिन्तन का कार्य धर्मसिंह को सौंपा। खाँडाधर भोजदेव से भी उसने इतना दुर्व्यवहार किया कि वह अपने माई पृथ्वीसिंह समेत अलाउद्दीन की सेवा में पहुँच गया।^१ इम्मीर ने उसके स्थान पर रतिपाल को दण्डनायक का पद दिया।

नयचन्द्र के कथनानुसार धर्मसिंह ने प्रतिशोध की इच्छा से प्रजा को पीड़ित किया था, नए नए उपाय निकाले थे जिनसे कोश में धन आ सके। किन्तु इस नीतिके लिए स्वयं इम्मीर भी उत्तरदायी था ही; उसे धनकी अत्यधिक आवश्यकता न होती तो धर्मसिंह को प्रजा को करोत्पीड़ित करने का अवसर ही कहाँ से मिलता? भोजदेव को भी रणथम्भोर से निकालना भूल थी। भीमसिंह की मृत्यु के बाद रणथम्भोर के विशिष्ट सेनापतियों में से भोज भी एक था; और जिस व्यक्ति

१—खाँडाधर भोजदेव के लिए मरु भारती, ८, १, पृ० ११३ पर हमारा लेख पढ़ें। कबिमल्ल के कवित्त ९ और १० (इम्मीरायण, पृष्ठ ४७), और खेम का कवित्त १५ भी भोज और पृथ्वीराज के लिए दृष्टव्य हैं। इम्मीरहाकाव्य में सब प्रसङ्ग देखें, सर्ग ८, श्लोक १५७-१८८

को हम्मीर ने बह पद दिया, वह तो अन्ततः कृतघ्न सिद्ध हुआ। हम इसे हम्मीर की भूल कहें; या दैव ही उसके प्रतिकूल था ?

सन् १२९८ में हम्मीर ने मुहम्मदशाह को शरण दी थी। उसके बाद लगभग दो वर्ष तक अलाउद्दीन ने कुछ न कहा। उत्तर-पश्चिम से मुगलों के भयंकर आक्रमणों के कारण उसीकी जानको आ बनी थी। जब इन से कुछ छुट्टी मिली तो उसने अपनी भारतीय नीति के सूत्रों को फिर सम्माला। जिन राज्यों के रहते दिल्ली का सार्वभौमत्व स्थापित नहीं हो सकता था उनमें से रणथंभोर एक था। मुहम्मदशाह आदि को शरण देकर हम्मीर ने अब एक और अक्षम्य अपराध किया था। उसका राज्य दिल्ली के बहुत निकट भी था।

सुल्तान की पहली चढ़ाई मानों हम्मीर के सत्त्व को जाँचने के लिए हुई। एक बड़ी सेना हिन्दूवाट जा पहुँची। किन्तु इससे पूर्व कि वह आगे बढ़ें हम्मीर के सेनापतियों ने उसे आ घेरा। पूर्व से वीरम, पश्चिम से मुहम्मदशाह, आग्नेय से रतिपाल, वायव्य से तिचर (यलचक), ईशान से रणमल्ल, नैऋत से वैचर (बर्क), आजदेव ने दक्षिण और उत्तर से गर्भरूक (कामरू) ने मुसलमानी फौज पर आक्रमण किया। मुसल्मान बुरी तरह से हारे। अनेक मुसल्मान स्त्रियाँ रतिपाल के हाथ आईं। रतिपाल ने राजा की ख्याति के लिए उनसे गाँव-गाँव में छाल बिकवाई हम्मीर रतिपाल से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने 'यह मेरा मस्त हाथी है कहकर उसके पैरों में सोना की संकड़ी डाली और वृद्धों को भी वस्त्रादि देकर सम्मानित किया।' उस समय किले खान था कि रणमल्ल, रतिपाल आदि स्वामीही सिद्ध होंगे ?

इसी विषय के बाद मुहम्मदशाह आदि ने जगरापर आक्रमण किया जो उस समय भोज की जागीर में थी। भोज वहाँ न था। किन्तु उन्होंने जगरा को लूटा, और भोज के भाई पीथसिंह को सकुटुम्ब पकड़ कर रणथंभोर ले गये। भोज रोता-धोता दिल्ली के दरबार में पहुँचा।^१

अब अलाउद्दीन के लिए स्थिति असह्य हो चली थी। उसने बयाना के अक्ता के स्वामी उलुगख़ाँ को रणथंभोर जीतने की आज्ञा दी और कढ़े के मुक्ता नुसरतख़ाँ को भी आज्ञा हुई कि वह कढ़े की समस्त सेना तथा हिन्दुस्तान की सब फौजों को लेकर उलुगख़ाँ की सहायता करे। जितनी बड़ी सेना का प्रयोग अलाउद्दीन कर रहा था उससे हम्मीर की शक्ति का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। कोई अन्य राजा होना तो अधीनता स्वीकार कर लेता किन्तु हम्मीर तो मानों किस भिन्न सामग्री से ही बना था।

इस बार छल से या बल से मुसल्मानी सेना ने फ़ाइन की घाटी पार कर ली और फ़ाइन पर भी अधिकार जमा लिया। नयचन्द्र के कथनानुसार सन्धि की बातचीत के बहाने उलुगख़ाँ और नुसरत ऐसा कर सके;^२ किन्तु तथ्य शायद यह हो कि मुसल्मानी सेना की संख्या इस बार इतनी अधिक थी कि राजपूतों ने उसका सामना करना उचित न समझा। ऐसी स्थिति में अपने सब साधनों को समूहित कर गढरोध सहना सम्भवतः अधिक हितकर था। साथ ही यह भी तथ्य है कि उलुग

१—बही, पृ० १०, ६४-८८

२—बही, ११, १९-२४,

खाँ और नसरतखाँ ने बिना युद्ध के भी इम्मीर से अपनी बातें मनवाने का प्रयत्न किया था। एसामी के कथनानुसार उलुगखाँ ने एक दूत राय के पास भेजा और उसे लिखा कि कमीजी मुहम्मदशाह तथा कामरू दो विद्रोही तेरी शरण में आ गए हैं। तू हमारे दुश्मनों की हत्या कर दे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जा।” इम्मीर महाकाव्य में उलुगखाँ और नसरतखाँ के दून का नाम मोल्हण है।^१ इसने ‘३०० घोड़ों की, स्वर्णलक्ष, चार हाथी, राजसुता और विशेष रूप से चार मुगल विद्रोहियों की माँग की।” इससे मिलती-जुलती माँगका अन्य इम्मीर सम्बन्धी काव्यों में भी वर्णन है।^२ किन्तु माँग चाहे मुगल भाइयों के समर्पण की रही हो या उससे अधिक, इम्मीर ने उसे ठुकरा दी। एसामी के शब्दों में ‘इम्मीर ने उनर दिया कि जो मेरी शरण में आ चुका है मैं उसे किसी प्रकार हानि नहीं पहुँचा सकता, चाहे प्रत्येक दिशा से इस किले पर अधिकार जमाने के लिए तुर्क एकत्रित क्यों न हो जाय” और लिख भेजा कि ‘यदि तू युद्ध करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ।’^३ अन्य काव्यों में कथित माँगों के अनुरूप उत्तर है।

खान्जी सेनापतियों ने उत्तर मिलते ही गढ़ को जा घेरा। किन्तु दुर्ग जीतना कोई खेल तो न था। इम्मीर राजनीतिज्ञ रहा हो या न रहा हो, उसमें शौर्य और युद्धकौशल की कमी न थी। उसने दुर्ग की रक्षा का कार्य समुचित रूपसे बाँट दिया। पहरा लग गया। ढेंकुलियाँ दिखाई

१—वही, ११, २२।

२—ऊपर देखें।

३—फुतूहुस्सलातीन का अवतरण देखें।

देने लगीं ।^१ कड़ाहों में राहसे मिला तप्त तैल प्रतिघटों के जलाने के लिये तैयार था । दोनों ओरसे बाण छूटने लगे । आग्नेयबाणों की भी वर्षा हुई । दोनों ओर भैरव-ग्रन्थों से गोले छूटने लगे । तिकुलियाँ भी मानों अपने हाथआगे बढ़ाकर गोले फेंकती हुई आनन्द लेने लगीं । राह से युक्त तेलमें मिंगोकर जलते हुए कुन्त यवनो ने दुर्ग में फेंके । कई ने दुर्ग पर चढ़ने का और कई ने सुरंग लगाने का प्रयत्न किया । उनके नालियों से छूटे बाणों ने भी पर्याप्त हानि की । किन्तु हम्मीर के सैनिकों ने इन सब का तीन महीनों तक प्रतिकार किया ।^२ बरनीने लिखा है कि एक दिन नुसरतख़ाँ किले के निकट पाशेब बंधवानेमें तथा गरगच लगवाने में तल्लीन था । किले के अन्दरसे मगरबी पत्थर फेंके जा रहे थे । अचानक एक पत्थर नुसरतख़ाँकें लगा जिससे वह घायल हो गया । दो तीन दिन उपरान्त उसकी मृत्यु हो गई ।^३ अन्य हम्मीर विषयक ग्रन्थों में भी इस घटनाका उल्लेख है । हम्मीर महाकाव्य के अनुसार दुग का एक गोला सुसल्मानों के एक गोला से भिड़ गया और उससे उचट कर उछलते हुए एक टुकड़े से निसुरतख़ान मर गया (११-१००) । हम्मीरायण के अनुसार 'निसरखान' नवलखि दरवाजा के पास मारा गया ।^४ इनमें हम्मीर महाकाव्य और बरनी के कथनों में कुछ विशेष विरोध नहीं है ।

१—राजस्थानी काव्यों में यह शब्द टेंकुली और हम्मीर महाकाव्य में टिकुली के रूप में वर्तमान हैं । इसका रूप वर्तमान डेकी का सा था (११-७१, ८९) ।

२—११, ७५, ९९

३—ऊपर तारीखे फ़िरोजशाही का अवतरण देखें ।

४—'नवलखि मार्या निसरखान' (१७२) । इसका यह अर्थ करना कि निसरखान ने नौलाख राजपूतों को मारा सर्वथा अशुद्ध है ।

नुसरतखान की मृत्यु से अलाउद्दीन को निश्चय हो गया कि उसका स्वयं रणथम्भोर पहुँचना अत्यन्त आवश्यक था। एसामी ने नुसरतखान की मृत्यु का बिना वर्णन किए ही लिखा है कि उलुगखाँ ने सुल्तान से सहायता की प्रार्थना की।^१ बरनीके कथनानुसार ज्योंही अलाउद्दीन को नुसरतखान की मृत्यु का समाचार मिला, वह दिल्ली से रणथम्भोर के लिए रवाना हो गया। यही बात हमें हम्मीर महाकाव्य से भी ज्ञात है।

अलाउद्दीन की यात्रा निरापद सिद्ध न हुई। तिलपत के निकट उसके भतीजे अकतखाँ ने उसे कत्ल कर 'राज्य प्राप्त' करने का प्रयत्न किया, किन्तु अलाउद्दीन के सौभाग्य और अकतखाँ की मूर्खता से यह प्रयत्न सफल न हुआ। जब सुल्तान घेरा डाले पड़ा था अवध और बदायूँ में उसके भानजों ने विद्रोह किये और दिल्ली में मौला हाजी ने। किन्तु अलाउद्दीन रणथम्भोर के सामने से न हटा।^२ यह दो हठालों का युद्ध था। अन्तर केवल इतना ही था कि एक सीधा वीरव्रती राजपूत था, और दूसरा भारत का सब से कुटिल शासक जिसने अपने चचा तक को राज्य के लिए मार डाला, और जो राज्यवृद्धि के लिए कुटिल से कुटिल उपायों का अवलम्बन करने के लिए उद्यत था।

हम्मीर महाकाव्य में लिखा है कि जब अलाउद्दीन रणथम्भोर पहुँचा तो हम्मीर ने उसका अच्छा स्वागत किया ? दुर्ग के ऊपर प्रतिपद पर शूर्प बंधवा कर उसने यह द्योतित किया कि सुल्तान के आने से

१—देखें फुतू हुस्सलातोन का अवतरण।

२—तारीखे फिरोजशाही का अवतरण देखें।

उसके कार्यभार में उतनी ही वृद्धि हुई थी जितनी अनेक वस्तुओं से भरे शकट में कुछ शूर्प रखने से ।^१ किन्तु और कुछ हुआ था न हुआ युद्ध में एक नवीन तीव्रता आ गई । रात दिन युद्ध होने लगा । प्रत्येक दिशा में चलते फिरते ऊँचे-ऊँचे मचान (गरगच) तैयार किए गए । शाही सेना जो कोई युक्ति करती राय उसकी काट कर देता ।^२ पहाड़ के निकट सुरंग लगाई, और खाई को पुलियाँ और लकड़ी के टुकड़ों से भर दिया । जब ये दोनों साधन तैयार हो गए तो अलाउद्दीन ने हमले की आज्ञा दी । किन्तु चौहानों ने खाई की लकड़ियाँ अग्नि गोलों - जला डाली और लाक्षायुक्त तेल सुरंग में फेंका जिससे सुरंग में घुसे सैनिक भुन गए और वह सुरंग उन्हीं के शरीरों से भर गई ।^३ इस प्रकार एक वर्ष बीत गया और दुर्ग को कोई हानि न पहुँची ।^४ अमीर खुसरौ ने यही बात अपनी काव्यमयी शैली में कही है, 'हिन्दुओं ने किले की दसो अट्टारियों में आग लगा दी, किन्तु अभी तक मुसलमानों

१—सर्ग १२, १-४ ।

२—देखें फुतूहुस्सलातीन का अवतरण और हम्मीरमहाकाव्य, सर्ग १३: श्लोक ४८

३—हम्मीरमहाकाव्य, १३, ४७ ।

४—देखें फुतूहुस्सलातीन का अवतरण ।

इसी के आस पास हम्मीर काव्या में नतिका धारादेवी के मरण की कथा है । इसके लिए पाठक वर्ग हम्मीर काव्य और हम्मीरायण का तुलनात्मक विवेचन देखें । इतिहास की दृष्टि से इस घटना का—चाहे यह सत्य हो या असत्य—विशेष महत्त्व नहीं है ।

के पास इस अभि को बुझाने के लिए कोई सामग्री एकत्रित न हुई थी (खजाइनुलफूतुह)” ।

अब अलाउद्दीन को एक नई युक्ति सूझी । उसने समस्त सैनिकों को आदेश दिया कि वे चमड़े और कपड़े के थैले बनाकर उनमें मिट्टी भर दें और उन थैलों द्वारा खाई को पाट दें ।^१ हर एक ने अपना थैला भरा और खाई में फेंका जिसका नाम रिण था । इस तरह खाई को पाट कर अलाउद्दीन ने उस पर पाशेब और गरगच तैयार करवाए । किले पर आक्रमण के साधन अन्ततः तैयार हो गए ।^२ इसी बात को हम्मीरायण ने मनोरञ्जक रूप में कहा है:—

“पहिलउ रिण पूरु लाकड़े, देई आग बाल्यउ तिय भडे ।

कटक सहूनइ हुयउ फुरमण्य, बेखु नखाउ तिणि ठाणि ॥ १९८ ॥

सुथण तणी बांधइ पोटली, मीर मलिक बेखु आणइ भरी ।

न करइ कोई मूक गढ़वाल, बेखु आणइ सहि पोटली ॥ १९९ ॥

छठइ मासि सपूरण भखउ, ते देखि लोक मनि डखउ ।

कोसीसइ जाइ पहुता हाथ, तुरका तणी समीछइ वाच्छ ॥ २०० ॥

राय हम्मीर चिनातुर हूयउ, रिण पूर यउ दुर्ग इव गयउ ॥ २०१ ॥

पहले रिण को उन्होंने लकड़ियों से भरा, किन्तु मटों ने उन्हें आग से जला डाला । तब सब सेना को आज्ञा हुई कि वे उस स्थान पर बालू डालें । अपनी सूयनों की पोटलियां बनाकर मीर और मलिक उन्हें भर-भर कर लाने लगे । गढ़वालों से सबने युद्ध करना छोड़ दिया । सब सिर्फ

१. फूतू हुस्सलातीन का अवतरण देखें ।

२. तारीखेफरिश्ता का अवतरण देखें ।

पोटलिया में बालू लाये। छठे महीने वह सब भर गया। तब यह देखकर सब लोग मन में डरे। कगूरों तक अब तुकों के हाथ पहुँचने लगे। तुकों की इच्छा अब पूरी होगी। राय इम्मीर को अब यह चिन्ता हुई। रिण भर गई है। अब दुर्ग हाथ से गया।

इम्मीरायण ने इस विपद् से बचने का एक अधिदैविक करण दिया है। “गढ़के देवता ने परमार्थ जानकर चाबी लाकर इम्मीर को दी जब राय ने छोटा फाटक खोला तो देव-माया से उनी समय पानी बहा। पानी से बालू बह गया, और बह झोल फिर खाली हो गया (२०२)। किन्तु वास्तविक प्रतिकार तो दुर्गस्थ वीरों का साहस था। बरनी ने लिखा है कि जब खाई को भरकर पाशेब और गरगच लगाए गए तो किले बालों ने मगरबी पत्थरों से पाशेबों को हानि पहुँचानी प्रारम्भ कर दी। वे किले के ऊपर से आग फेंकते थे और लोग दोनों ओर से मारे जाते थे।^१ खजाइनुल फुतूह ने भी लिखा है कि रजब से जीकाद (मार्च से जुलाई) तक मुसलमानी सेना किले को घेरे रही। “किले से बाणों की वर्षा होने के कारण पक्षी भी न उड़ सकते थे। इस कारण खड़ी बाज भी वहाँ तक न पहुँच सकते थे।”^२

इसके बाद दुर्ग के जाने की कथा हमें विभिन्न रूपों में प्राप्त है। एसामी के कथनानुसार किले पर आक्रमण का मार्ग तैयार होने पर मो दो तीन सप्ताह तक घोर युद्ध होता रहा। उसके बाद इम्मीर ने जौहर किया और किले से मुहम्मदशाह एवं कामरू के साथ निकल कर युद्ध करता हुआ

१. तारीखेफिरोजशाही का अवतरण देखें।

२. खजाइनुलफुतूह का अवतरण देखें।

मारा गया ।^१ खजाइनुल फुतूह ने किले में दुर्मिक्ष को इसका कारण बताया है । “किले में अकाल पड़ गया । एक दाना चावल दो दाना सोना देकर भी नहीं प्राप्त हो सकता था,” और चापलूसी की तरंग में लिख मारा है कि जब जौहर कर हम्मीर अपने दो एक साथियों के साथ पाशेब तक पहुँचा तो उसे मगा दिया गया” ।^२ दुर्ग का पतन ३ जीकाद ७०० हिज्री (१० जुलाई, १३०१) के दिन हुआ । बरनी के अनुसार ‘सुल्तान अलाउद्दीन ने हाजी मौला के विद्रोह के उपरान्त बड़े परिश्रम तथा रक्तपात के पश्चात रणथंभोर के किले पर अपना अधिकार जमा लिया । राय हमीरदेव तथा उन मुसल्मानों को जो कि गुजरत के विद्रोह के उपरान्त भाग कर उसकी शरण में पहुँच गए थे इत्यादि करा दी ।’^३ फरिश्ता के कथनानुसार जब रिण में फँकी हुई बोरियों की ऊँचाई जब गढ की उँचाई तक पहुँच गई तो धिरे हुए आदमियों को हराकर मुसलमानों ने दुर्ग ले लिया । हम्मीरदेव अपने जानिभाइयों के साथ मारा गया ।^४

हिन्दू ऐतिह्य साधनों में से हम्मीरमहाकाव्य के अनुसार वास्तव में दुर्ग में दुर्मिक्ष न था, किन्तु कोठारी जाहड ने इस इच्छा से कि सन्धि हो जाय, झूठ मूठ यह सूचना दी कि अन्न नहीं है । उधर रतिपाल अलाउद्दीन से जा मिला । शत्रु-शिविर से लौटने पर हम्मीर को और भड़काने के लिए उसने कहा “सुल्तान आपकी पुत्री को मांगता है और कहता है कि यदि

१. फुतूहससलातीन का अवतरण देखें ।
२. खजाइनुल फुतूह का अवतरण देखें ।
३. तारीखेफिरोजसाही का अवतरण देखें ।
४. तारीखेफरिश्ता का अवतरण देखें ।

उस मूर्ख ने पुत्री न दी तो मैं उसकीपत्नियों तक को छीन लूँगा ।” रानियों के कहने से देवकदेवी आत्मसमर्पण के लिए तैयार भी हुई, किन्तु हम्मीर के लिए यह अपमान असह्य और अस्वीकरणीय था । दुर्ग का शासक बनने का इच्छुक रतिपाल तो चाहता ही वह था । उसने रणमल्ल को भी राजा के विरुद्ध कर दिया । दोनों गढ़ से उतरकर शत्रु से जा मिले । इस सार्वत्रिक कुनग्रता को देखकर हम्मीर ने मुहम्मदशाह को कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा । मुहम्मदशाह ने किस प्रकार अपने कुटुम्ब का अन्त कर यह बीभत्स दृश्य हम्मीर को दिखाया इसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं (देखें हम्मीर महाकाव्य का सार) । हम्मीर ने अब जौहर किया । उसकी पुत्री और रानियां जौहर की चिन्ता में जल मरीं । उसने तमाम धन पद्मसर में फिक्का दिया । जाजा ने हाथी मार डाले । उसके बाद जाजा को अभिषिक्त कर हम्मीर अपने साथियों सहित बाहर निकला । मयकर युद्ध करने के बाद उसने स्वयं अपना^१ गला काट डाला ।

सुर्जन चरित में जौहर और हम्मीर के अन्तिम युद्ध का वर्णन है । साथ ही उसमें यह स्पष्ट संकेत है कि जनता दीर्घकालीन गढ़रोध से उन्नत चली थी और बहुत से लोग शत्रु से जा मिले थे ।^२ पुरुष परीक्षा में भी रायमल्ल और रामपाल (रतिपाल और रणमल्ल) का विद्रोह वर्णित है । साथ ही यह भी उसने लिखा है कि वे अदीनराज (अलाउद्दीन) से मिले और उससे कहा “अदीनराज, आपको कहीं न जाना चाहिये । दुर्ग में अकाल पड़ गया है । हम दोनों दुर्ग के मर्मज्ञ हैं । कल या परसों आपको

१ देखें हम्मीर महाकाव्य, सर्ग १३, ९९-२२५

२ ऊपर दिया सुर्जन चरित का सार देखें ।

दुर्ग दिल्लीवा देंगे ।” इस पर हम्मीर ने जाजा और मुहम्मदशाह आदि को अन्यत्र किसी सुरक्षित स्थान में पहुँचाने का वचन दिया । किन्तु वे इसके लिए राजी न हुए ।

“मटैरंगीकृतं युद्ध, स्त्रीभिरिष्टो हुताशनः ।

राज्ञो हम्मीरदेवस्य परार्थं जीवमुज्ज्वतः ॥

‘जब राजा हम्मीरदेव दूसरों के लिए प्राण देने के लिए उद्यत हुआ तो योद्धाओं ने युद्ध अङ्गीकृत किया, स्त्रियों ने अग्नि ।’ राजा युद्ध में लडना हुआ मारा गया ।^१

हम्मीरायण में रणमल्ल और रतिपाल के अलाउद्दीन से मिलने, म्हुम्हूठ अन्नाभाव की कथा फैलाने, जौहर और हम्मीर के अन्तिम युद्ध आदि का वर्णन है ।^२ मल्ल के चौदहवें पद्य में सम्भवतः अलाउद्दीन के सुगग लगा कर दुर्ग का एक भाग तोड़ने का उल्लेख है । साथ ही इन कवित्तों में रणमल्ल के द्रोह, जाजा के अद्वितीय युद्ध और जौहर का भी निर्देश है ।^३

इन सब अवतरणों के तुलन से कुछ बातें स्पष्ट हैं ।

१. घेरे से दुर्ग की स्थिति विषम हो चली थी, तो भी हम्मीर ने लगातार युद्ध किया और मुसल्मानों को गरगर्चों तथा पाशेबों के प्रयोग से गढ़ न लेने दिया ।

२. दुर्ग में दुर्भिक्ष की स्थिति वास्तव में उत्पन्न हो गई थी । उबर बरनी आदि के कथनानुसार मुस्लिम फौज घेरे से तग हो चुकी थी । अला-

१. देखें हम्मीरायण, परिशिष्ट ३ ।

२. हम्मीरायण की कथा का सार देखें ।

३. पद्यों का सार या हम्मीरायण के परिशिष्ट २ में ये कवित्त देखें ।

उद्दीन को आन्तरिक स्थिति का पता न चलता तो दुर्गस्थ लोगों को आशा थी कि मुल्तान घेरा उठा लेगा ।

३. इस स्थिति में सुल्तान ने कूटनीति का प्रयोग किया । उसने रतिपाल, रणमल्ल आदि को फोड़ लिया । इसके फलस्वरूप उसे दुर्ग का आन्तरिक हाल ही ज्ञात न हुआ, बहुत से दुर्गस्थ सैनिक भी उससे आ मिले ।

४. इम्मीर ने जौहर की अग्नि में अपने कुटुम्ब को भस्मसात् कर दुर्ग के द्वार खोल दिए और युद्ध के बाद अपने हाथों ही अपने प्राण दिए ।

५. दुर्ग का पतन १० जुलाई, १३०१ के दिन हुआ ।

इम्मीर के अन्तिम युद्ध का पूरा वर्णन हिन्दू काव्यों में ही है । इम्मीर महाकाव्य के अनुसार उसके साथ में नौ वीर थे । वीरम, सिंह, टाक गङ्गा-धर, राजद, चारों मुगल भाई, और क्षेत्रसिंह परमार । वीरम के दिवगत और मुहम्मदशाह के मूर्च्छित होने पर इम्मीर आगे बढ़ा । अन्ततः बहुत घायल हो जाने पर उसने, इस इच्छा से कि वह बन्दी न हो, स्वयं अपना कण्ठच्छेद किया ।^१ इम्मीरायण की कथा हम ऊपर दे चुके हैं । उसके अनुसार भी इम्मीर ने स्वयं अपना गला काटा था । इम्मीर महाकाव्य के अनुसार इम्मीर की मृत्यु के बाद भी जाजा ने दो दिन तक दुर्ग के लिए युद्ध किया ।^२ मुहम्मदशाह के व्यवहार की नयचन्द और फरिश्ता दोनों ने प्रशंसा की है । सुल्तान के यह पूछने पर कि यदि वह

१. सर्ग १३, १५९-२०५

२. सर्ग १४. १६. जाजा के लिए इसी प्रस्तावना में तद्विषयक विमर्श और इण्डियन 'हिस्टारिकल क्वार्टरली' १९४९, पृष्ठ २९२-२९५ पर हमारा जाजा पर लेख पढ़ें ।

उसकी मर्हम-पट्टी करवाए तो भविष्य में वह उससे किस तरह का व्यवहार करेगा, इस निर्भीक योद्धा ने उत्तर दिया था कि 'वैसा ही जैसा सुल्तान ने हम्मीर के प्रति किया है ।'^१ अलाउद्दीन ने उसे हाथी के पैरों से कुचलवा डाला, किन्तु उसे अच्छी तरह दफनाने की आज्ञा दी । रतिपाल और रणसिंह को बड़ी बड़ी आशाएं थीं । बादशाह ने उनकी खाल निकलवा कर स्वाभिद्रोह का फल चखाया ।^२ स्वाभिद्रोह को पनपने देना उसकी नीति के विरुद्ध था ।

हम्मीर को हम सर्वगुणसम्पन्न तो नहीं मान सकते । उसमें कुछ जल्दबाजी थी । अमात्यों के चुनाव में भी उसने समय समय पर गलतियां कीं उसके शासन प्रबन्ध में भी हम कुछ दोष देख सकते हैं । किन्तु जिस लगन से हिन्दू समाज ने उसके नाम को अमर रखा है उसी से सिद्ध है कि वह अनेक भारतीय आदर्शों का प्रतीक रहा है । विद्यापतिने उसे दयावीर के रूप में देखा । 'षड् भाषा-कविचक्र-शक' और 'प्रामाणिकाग्रेसर' राघव-देव^३ जैसे विद्वानों के उसकी समा में उपस्थित होने से यह भी सिद्ध है कि वह वैदुष्य-प्रिय था । काबलजी प्रशस्तिका रचयिता विद्यादित्य हम्मीर का पौराणिक और विश्वरूप उसका पुरोहित था । उसके कोटिमखों में सहस्रों विद्वान् ब्राह्मणों का पूजन भी हुआ होगा । हम्मीर उस चाहमान कुल का सुयोग्य प्रतिनिधि भी था जिसका दण्ड गो और वृष (धर्म) की

१. हम्मीर महाकाव्य, १४. २०.

२. वही, १४. २१.

३. वही, १४. २३.

रक्षा में प्रयुक्त था ।^१ और उसका यह धर्म संकीर्णार्थक न था । अर्बुद पर उसने ऋषभदेव का पूजन किया । छः दर्शनों की यह प्रतिपद पूजा करता (हम्मीर महाकाव्य, १४, २) । “कर्ण ने कवच, शिबि ने पांस, बलि ने पृथ्वी, जीमूतबाहन ने आधा शरीर दिया । किन्तु उस हम्मीरदेव की, जिसने एक क्षण में शरणागत महिमासाहि (मुहम्मद शाह) के निमित्त अपना शरीर, पुत्र, कलत्रादि को कथाशेष कर दिया, कौन तुलना कर सकता है ?^२ हठ के लिए हम्मीर प्रसिद्ध हो चुका है :—

सिंह सबन सत्पुरुष वचन कदली फलन इकवार ।

त्रिया तेल हमीर हठ, चढ़ै न दूजी बारं ॥

किन्तु इससे भी अधिक प्रसिद्धि किसी समय उसके शरणदान की रही होगी । इतिहासकार एसामी ने हम्मीर की इसी बात पर विशेष ध्यान दिया है नयवन्द्र और विद्यापति ने उसके शौर्य के साथ उसकी दया-वीरता की प्रशंसा की है । हम्मीरायण में उसकी शरणागत रक्षा और स्वामिमान को लक्षित कर ‘माण्डउ’ व्यास नाह माट से कहलाता है :—

इय चहुवाण हमीर टे, सरणाई रखपाल ।

अलाबदीन तुफ आगलउ, मोटउ मूउ भूपाल ॥ ३०७ ॥

मान न मेल्यउ आपणउ, नमी न दीध्यउ केम

नाम हुत्रउ अविचल मही, चंद सूर दुय जा (जे)

म ॥ ३०८ ॥

१. देखें १३४५ के शिलालेखका श्लोक ४, हम्मीर महाकाव्य १४-२ रणधम्मोर हाथ आते हो मुसम्मानी ने वहाँ के बाहडेइवरादि मन्दिरों को नष्ट कर दिया ।

२. हम्मीर महाकाव्य, १४, १७ ।

‘भाण्डउ’ व्यास का कथन ठीक ही है कि इन्हीं आदर्शों का प्रतीक होने के कारण हम्मीर का नाम सूर्य, और चन्द्र की तरह अविच्छिन्न है। जब तक भारतीय जनता के हृदय में इन आदर्शों का मान है वह हम्मीर के चरित का गान करती रहेगी। और हम्मीर का यशः शरीर अमर रहेगा। पढ़िये नयचन्द्र की यह उक्ति :

लोको मूढनया प्रजल्पतुनमां यच्छाहमानः प्रभुः

श्री हम्मीर—नरेश्वरः स्वरमगाद् विश्वैक साधारणः।

तत्त्वज्ञत्वमुपेत्य किञ्चन बयं ब्रूमस्तर्मा स क्षितौ।

जीवन्नेव विलोक्यते प्रतिपद तैस्तैर्निर्जैर्विक्रमैः ॥ १४-१५ ॥

हम्मीरायण की भूमिका विस्तृत हो गई है, इसमें इतिहास सम्बन्धी उद्धरणदि वह सामग्री देने का प्रयत्न किया है जिससे पाठक स्वयं हम्मीर के चरित्र को ग्रथित कर उसके सत्यासत्य पक्ष की जांच कर सके। इसमें कई अर्थों के विवेचन और स्पष्टीकरण में श्री भंवरलालजी के सुझावों के लिये मैं अत्यन्त अनुग्रहीत हूँ।

नवीन वसन्त
ई. ८११ कृष्णनगर
दिल्ली-३१

}

दशरथ शर्मा

वीर सेवा मंदिर पुस्तक

अंक न०

व्यास भांडा कृत

ह म्मी रा य ण करियगंज, देहल

—:❀:—

॥ चउपई ॥

पहिलउ पणमउं सारद पाई, कर जोड़ी हुं विनवउं माई,
कथा करंता मो मति देहि, अलिय अक्खर अधिक टालेहि; १
सिधि बुधि नायक गणपति नमउ, करिसु चरित महियलि अभिनवउ,
तेतीस कोड़ि तणउ पड़िहार, पय प्रणमी हुं करउ जुहार; २
बावन वीर तणा लीजइ नाम, तास प्रसादि सीऊइ सवि काम;
समरउं चउसठि चंडी सदा, तिणी तूठी तूइ विघन नही एकदा; ३
कासिपराय तणउ पुत्र भाण, श्री सूरिज प्रणमउं सुविहाण;
हम्मीरायण अति सुरसाल, 'भाड' गायो चरिय सुविसाल, ४
राय हमीर तणी चउपई, सांभलिज्यो एक मनह थई,
रणथंभवरि जे विग्रह हुवा, राय चहुयाण तहां मूकीया; ५
रणथंभवर गढ मेर समाण, राज करइ हमीरदे चिहुयाण,
पुहवी इंद्र कहीजइ सोइ, इंद्र सभा हम्मीरां होइ; ६
तिणि नयरी ना विसमा घाट, वावि सरोवर नय वलि हाट;
गिरि गरुय त्रिक्ष्य आराम, रूअड़ा तिणि नयरी अभिराम, ७

१ देउ, अरुय, २ नमु

४ हमीरायण, गयो धरिव सुवीसाल

५ चउपही ६ हमीरा

वाड़ी वृख्य नहीं कामणा, अंब जंबीरज केतकि तणा;
 जाई वेउल चंपक महमहइ, देखी नगर लोक गहगहइ; ८
 कोटि जिसो हुवइ इंद्र विमाण, च्यारि पोलि तिणि कोटि प्रधान,
 पोलि चंडि नवलखीज होइ, चउरासी चहुटा नितु जोई, ९
 वाण्या बभण निवसइ घणा, लाख एक छइ हाटा तणा,
 वर्णावर्ण लोक तिहं बहू, जाति प्रजा निवसइ छइ सह, १०
 सिखरबद्ध दस सहस प्रसाद, ऊंचा सुरगिरि स्थुं लइ वाद,
 सोवन कलस दंड भलहलइ, ऊपरि थकी धजा लहलहइ, ११
 दानसाल तिणि नगरी घणी, कोटीध्वज विवहाख्या तणी,
 बंभण वेद भणइ सुविचार, बंदीजण नितु करै कइ वार, १२
 तिणि नयरी ऊछव अपार, मंगल च्यारि दीयइ वर नारि,
 जती ब्रती तिह निवसइ घणा, तपी तपोधन नहि कामणा, १३
 गढ मढ मदिर पोलि पगार, वास नयर नव जोयण वार,
 चंपक वरण सरीसा गात्र, धारू वारू बे छइ पात्र, १४
 षणउं वखाण किसु हिव करउ, अलकावती नी ऊपम धरउ,
 तिणि नयरी विलास अपार, वेस वसइ सहस दस वार, १६
 त्रैलोक्यमंदिर राय आवास, सीला ऊन्हा धवलहर पासि,
 भूखी पोलि अछइ तिणि कोटे, रिण नइथंभ विचइ छइ त्रोटि, १७
 चहुयाण जयतिभदे पुत्र, राज करै सहू आणी सूत्र,
 बालउ राजा बइठउ राजु, बंधव वीरभदे जुवराजु, १८

सवा लाख साहण दलधणी, ऊलग करइ मोडोधा धणी,
 गयवर घरि गुडइ सइ पंच, घोड़ा सहस एक सइ पंच, १६
 सवा लाख साहण दल मिलइ, त्रिणि लाख पायल दल मिलइ,
 सात छत्र धरावइ सीस, सवालाख सभरि नउ ईस, २०
 जे कुलवंत भला छइ सूर, तिहनइ यइ ग्रास तणा सवि पूर,
 वेला आई सारइ काम, तिहनइ कदे नहीं अपमान; २१
 ते नवि कीणही करइ जुहार, घरि बइठा खाई भंडार,
 भूभ माहि ते न गिणइ आढ, करतारा स्युं मांडइ वाढ, २२
 रिण खाखर पाखर घरि घणी, सवि मामहणी सुहड़ा तणी,
 अंगा टोप रिगावलि तणा, पार न लाभइ घरि छइ घणा; २३
 संग्रहणी कीधा कोठार, धान तणा मोटा अंवार,
 धीव तेल री वावडि जिसी, जीमता नहीं कदे खृटिसी, २४
 मोटा राय तणी कूंयरी, परणी पांचसइ अतेउरी;
 रूपि करी नइ अति अभिराम, पटराणी हासलदे नाम, २५
 वरागणा सहस इक जाणि, कदर्प तणी जिसी हुइ खाणि,
 दासी महस पंचसै घरइ, सवि छारूप तिहा सचरइ; २६
 द्रव्य तणी नहीं कामणा, सहस पच मण सोना तणा;
 चहत्तर कोडि गरथ घरि होइ, पाखर पार न जाणइ कोइ, २७
 सूर्य वंसि माहि चद्र समान, रणमल रायपाल बेऊ प्रधान;
 अरधी बुंदी त्यानइ ग्रास, घणउ परिवार अछइ तिहि पासि; २८

अति दाता सरणाई सोई, रिणि अभंग सो राजा होई,
 न करइ कोई अन्याई रीति, राज करइ पूरवली रीति; २६
 सूर वीर बहुत गुण धीर, वहय वीरमदे राय हमीर,
 खत्रीवट खड्ग तणइ परमाणि, राज करइ रणथंभि चहुवाण, ३०
 मोटउ राइ राजि विधि बहु, तिणि थानकि निवसइ छड सह;
 करइ लील लोकातिहा सदा, तिणि नगरी दुख नहीं एकदा, ३१
 चतुरग लिखिमी निवसइ तिहा, दुख नहीं तिहि नयरी किहा,
 डड डोर नवि लीजइ माल, तिणि नयरी दुख नहीं एक रसाल, ३२
 तिणि अवमरि उलगाणा बेउ, रिणथंभोरि तिह पहुता बेउ,
 महिमासाहि गामरू मीरि, ते आव्या संभल्या हमीरि, ३३
 तिहि मीरा नउ बडो प्रमाण, चूकइ नहीं ते मेलहइ बाण,
 तिहरा प्राक्रम पार को लहइ, खडग छत्रीसी नी उपम वहइ ३४
 सवा लाखरी सिंगणि धरइ, जांड मोल कुणही नवि करइ,
 तीर लहइ सहस दीनार, मेलहइ तीर जाइ घर बारि . ३५
 सरि लागाइ मरइ जइ कोई, सर ना मोल परोजन होई,
 घाइल हुइ लहै सर सोई, पछि पीडा तिणि पाटउ होई, ३६
 बेऊ सूर नइ बेऊ रणधीर, अति दाता महिमासाह मीर,
 वाडी मांहि उतारा कीया, खाण खाय ते समुता हुआ, ३७
 गढ ऊपरि मोकली अरदासि, बेऊ मीर आव्या तुम्ह पासि,
 मोटो राव सुणी रणथंभि, म्हे आव्या थारइ उठंभि, ३८

३० खत्रीवट

३२ कदा (किहा)

३३ बेउ मीर गामरू

३६ घाईल

३७ हमीर, उतारा

मनमांहि चमक्यउ राउ चहुवाण, भला सूर बेऊ पठाण,
ते लेवा मोकल्या प्रधान, राय हमीर दीयइ बहु मान; ३६
चरणे लागि रद्या सिरनामि, देइ बाह ऊठाड्या ताम,
तुम्ह प्राक्रम अम्हे संभल्या, भलु हुवउ ते दरसन मिल्या, ४०

॥ दूहा ॥

राय कहइ कारणि कवणि, आन्व्या एणइ ठामि,
कइ सुरताणि जि मोकल्या, कइ तुम्हि घर कइ कामि; ४१
न सुरताणि जि मोकल्या, न म्हे घर कइ कामि;
कटक विणास घणउ करी, मरणइ आन्व्या सामि, ४२
घणा देस अम्हे फिर्या, राखण कोइ न समत्थ,
सवालाख संभरि धणी, भंजि अम्हारी अवत्थ; ४३
अलुखान जि मगीयउ, अम्ह तीरइ पंचाध;
घणा दिवस म्हे ऊलग्या, जेऊ न दीधउ आध, ४४

॥ चउपई ॥

अम्हनइ मान हुतउ एतलउ, घरि बइठा लहता कणहलउ;
पातिसाह नइ करता सलाम, कटक उलगता अलुखान, ४५
इणि वचनि दूहविया स्वामि, कालु मलिक मास्खउ तिणि ठामि;
कटक माहि कुलांहल कीया, जग देखत इहां आवीया, ४६
अम्ह अपराध सहु इम कहीया, राखि राखि इम बोलइ मीया;
सरणाई तु कहियइ लोक, राखि अम्हा कि विरद करि फोक; ४७
अम्हे ऊलगिस्थां थारा पाय, किसी विमासणि म करिसि राय;
मन मांहि कूड़ कपट म म जाणि, अम्ह तुम्ह साखि दिउ रहमाण; ४८

ए वृतांत गय सभली, मनि हरख्यउ संभरिनउ धणी;
 त्याह नइ बाह दीयइ हम्मीर, महिमासाह तुम्हारउ वीर, ४६
 अंतर किसी वात मत करउ, कुणही थकी रखे तुम्ह डरउ,
 तिहनइ राय दियइ घर ठाम, ग्राम घणउ बलि अधिकउ मान, ५०

॥ वस्तु ॥

राय पभणइ राय पभणइ मुणउ तुम्हि मीर,
 महिमासाह गाभरु तुम्हे सरणइ आव्या अम्हारइ,
 बाह बोल तिहनइ दियइ ग्रास घणु नित को दिवाइइ,
 कवि 'भाडउ' कहइ डमिउ हरख धरी मन माहि,
 रिणथंभुर बसिया जि ते मीर नइ महिमासाहि, ५१

॥ चउपई ॥

बिहु लाख सदा ते लहइ, बीजा ग्रास पार को लहइ,
 सूरा नइ छइ सगलइ ठाम, विण साहस नवि सीभइ काम; ५२
 जेह वात लोके संभली, गयउ महाजन राउल गुनि मिली,
 पातल पाल्हण जाल्ह(ण) मिल्या, कोल्ह वील्हण देल्हणभिल्या; ५३
 तोल्हण मोल्हण लियाहसी, आसइ पासइ नइ पदमसी,
 धाधउ धूंधउ नइ धरमसी, वीसल वीरम नइ तेजसी, ५४
 वस्तु वीरम भणइ इम जोड़ि, प्रथमउ पूनउ पीथल तेड़ि,
 वीरु धीरु खेतल खीम, भांडउ सादउ डाहउ भीम; ५५

४६ हमीर ५० कीसी, ५१ वस्या ५२ जे ५५ पुनउ

केलउ मेलउ वेलउ साह, नयणउ नरबद नरसी साह;
 सरणाई अनरथ नउ मूल, राख्यां होसी माथा सूल; ५६
 महाजन समभाई राई, कइ जि मिलिवा करउ उपाई,
 आसण बयसण दीधा मान, तिहा दिवाडइ फूल फल पान, ५७
 नगर लोक महाजन सहू, किणि कारणि मिलि आयउ बहू,
 इणि नगरी दुख नहीं कुणइ, लील करइ चहुआणा तणइ; ५८
 तइं कीधउ अपरीछयउ काम, मीरां नइ वलि दीधा गाम,
 ढीली थका जे आव्या मीर, राखण जुगतउ नहीं हमीर, ५९

॥ दूहा ॥

अलावदीन तणइ घरइ, कीधउ एऊ विणास,
 तिणि राखण जुगतउ नहीं, इम बोलइ 'भांडउ' व्यास, ६०
 विष वेली ऊगंतड़ी, नहे न खूटी जे (होइ),
 इणिवेली जे फल लागिस्यइ, देखइलउ सहूवइ कोइ, ६१

॥ चउपई ॥

इणि वेली जे फल लागिसइं, थोड़ा दिन मांहि ते दीसिसइं;
 तिहरा किसा हुस्यइ परिपाक, स्वादि जिस्या हुस्यइ ते राख; ६२
 तिय कथनइ राई कानि नविदीयउ, सीख देई महाजन घरिगयउ,
 तेय पूठइ जे बाहर हुती, अलूखानं करइ बीनति; ६३
 रिणथंभोरि हमीरदे राउ, सरणे राख्या महिमासाह;
 तेह न मानइ कुणही आण, तेहना गढ नउ घणउ पराण; ६४

६२ लागिसी ६३ तय

अलुखानि कोप मनि धख्यउ, मीर मलिक सहु साथइ कख्यउ;
 भला अपार नइ तेजी तुरी, त्रिहु लाखइ पडीवाधरी; ६५
 चडउ चडउ भला जे मीर, ऊठउ घोड़े बाहु जीण,
 पहिख्या जरद टोप जिण साल, घोड़े चड्या लेइ करवाल; ६६
 अलुखान चडिउ जिणवार, देस माहि को न लहइ सार;
 कटक तणी नहीं का बात, करमदी बीटी आधी राति; ६७
 हेड़ाऊ जाजउ देवइउ, घोडा ले आयु वीकणउ,
 सोबति तियरी उतरी जिहा, तिसइ करमदी बीटी तिहा; ६८
 जाजउ बाहर चड्यउ जिणवार, पच सहस लीधा तोषार,
 कटक विणास कीयउ अति घणउ, जोउ प्राक्रम प्राहुणा तणउ; ६९
 सोबति लेइ जाजउ गढि गयउ, राय हम्मीर तणइ भेटियउ,
 राति तणउ कहीयउ विरतंत, जाजइ लीधउ बहु बइ वित; ७०
 अलुखान पासरणउ कख्यउ, हीरापुर घाटउ उतख्यउ,
 सुधि न लाधी कुणही गामि, छाइणि सूती बीटी खानि; ७१
 अलुखानि बंदि अति कीया, सहस चउरासी माणस लीया,
 बाली नगर ढाही अहिठाण, तिणि नयरी खान दिया मिलाण; ७२
 देस माहि भगणउ पड्यउ, रणथभवरि सह कोई डख्यउ,
 हाटे बइठा हसइ बाणिया, वेलि तणा फल योवउ सया [णिया] ७३
 देखी दल चमक्यउ चउहाण, हम्मीरदे इम बोलइ राण,
 तउ हूँउ जयतिगदे पूत, मारी असुर दल आणुं सूत; ७४

६५ अलुखानी, धरइ

७० हमीर, भेटियइ

७१ कीयउ ७३ तण

७४ हमीरदे, पुत्र, भ्राणी

सुहड़ भला जे तेजी सूर, ते तेडान्या राय हमीर,
लहता ग्रास अम्हारइ घणा, हिव अंतर दाखउ आपणा, ७५
सहु मिल्यउ पालउ परिवार, सवा लाख मिलिया भूमार,
वाजित्र तणी नहीं कामणा, वाजइ ढोल सीरहली तणा, ७६
सुभटे लीया सबल सन्नाह, त्यां सुभटा मनि अति उच्छाह,
घणा दीह लगु रामति रम्या, तुरक देस हेलां निगम्या, ७७
गुड्या गयवर हयवर पाखर्या, घणा दीह लगु बांध्या चर्या,
जातीवंत हुता तोपार, त्यारी पुंठि हुवा असवार, ७८
महिमासाह गाभरू मीर, साथइ ले ऊतखउ हमीर,
रातीवाह कटक माहि दीयउ, अलुखान तब भाजी गयउ; ७९
कटक घणउ कीयो खराब, माख्या मीर मलिक मूलाजाद,
देस के घणा माखारि पठाण, सहस बत्रीस लीया केकाण, ८०
अलुखान जइ भागो जाय, कोटी सूयार ति लूटी राय,
रणथंभवरि बधावउ करइ, ते मूरिख मनि हरख जि धरइ, ८१
अलुखान देस माहि गयउ, कटक सहू एकद्वउ कियउ,
पातसाह नइ गइ पुकार, घणउ कटक माखउ गुदकार, ८२
बीजा सहू मानइ थारी आण, एक न मानइ हमीरदे चहुआण,
जउरि न मानइ थारी आण, पातसाही थारी अप्रमाण, ८३
णउ पुकार सुणी सुरताणि, आलमसाह जपय रहमाण,
खुदाइ खुदाइ करी मन माहि, दाढी हाथ घालइ पतिसाह; ८४

७५ तेजि सूर ८२ गयो, कीयौ

पुरहमाण तु खूद कार, आपि अलह आपि करतार;
आलमसाह तणइ अवतारि, कलिजुगि अवतरीयो मोरारि, ८५

॥ दूहा ॥

खुन घणउ सुरताण नउ, कीधउ महिमासाहि,
तड सरणाई हमीरदे, राख्या महिमासाह, ८६
रणथंभवर तणउ धणी, जेऊ न मानइ आण.
माभरि इयरइ वयमणइ, थारउ किसउ प्रमाण, ८७

॥ वस्तु ॥

ताम असपति ताम असपति धरइ बहु कोप,
अलावदीन कहइ इस्यु सहू मीर वेगा हकारउ,
पातसाह फुरमाण दइ वेगि वेगि कोठी भराऊ,
खान खोजा मलिकज अछइ तेइ म लाउ वार;
आलमसाह रणथंभ नइ वेगि हुवउ असवार; ८८

॥ दूहा ॥

मोडि मूछ बोलइं इसउ, लिखउ लिखउ फुरमाण;
सहू कटक मिलि आवियो, जे मानइ म्हारी आण; ८९
तिणि अवसरि अलावदीन, कीध प्रतगन्या ईस;
रणथंभवर लेइ करी, तउ हूं घरि आवीसु; ९०

॥ चउपई ॥

आलमसाह हुवउ असवार, जाणे गढ लेसी करतार,
तियरा दल नवि लाभै पार, छायो मूर हुवउ घोरंधार; ६१
नीसाणे घाव घण बल्या, वाजइ ढोल ति पितलि गल्या,
त्रबक डाक बुक अति घणा, रिण काहल लागइ वाजणा, ६२
ढीली थकउ चाल्यु सुरताण, सेपनाग टलटलीया ताम;
डुंगर गुडइ समुद्र भलहलइ, त्रिभुवन कोलाहल उखलइ, ६४
इद्रासणि जाइ लागी खेह, इंद्र जोवइ तिहा न्यान धरेवि,
अलावदीन आपइ सुरताण, रणथंभवरि जाई दीयउ पवाण; ६५
लोक कहइ कुण करसी काम, इन्द्र तणउ सहु लेसी ठाम,
असी गढ अलुखान ज लीया, डीलइ साहिब कणि कोटनबिगया, ६६
इय आगलि नवि माडइ कोई, माणम किसुं देव जइ होई,
रिणथंभवर तणी कुण बात, आगलि मेर न हुइ कांइसात, ६७
चउदह सहस माता उम्मत्ता, ते गुड़िया गयवर संजुत्ता,
पाणीपंथा भला तोवार, बार लाख मिलिया असवार, ६८
मुहिमद मीर मोटा पठाण, बे ऊमटी आच्या खुरसाण,
मुगल काफर ते अतिघणा, मलिक मीर मीया नह मणा, ६९
सतर खान मिलिया तिणीवार, बहत्तरि ऊबरा भला भूभार,
पातसाह रा डीलज जिसा, तीयरा नाम कहुं हिब किसा, १००
काफर माफर जाफरखान, खोजी मोजी रोजी नाम,
निसरतखान निकुंज निरोज, ताजखान री जमली फोज, १०१

जिहर मलिक बीजूलीखान, सेख सरीसा मोटा नाम,
 अल्लू मल्लू चल्लू एऊ, घणा कटक स्यउं आव्या तेऊ; १०२
 मांजी गालिम महिला खान, खूनी मुनी झानी नाम,
 सिंहदल मलिक हसबा हसेब, मालद नगदल अलख असेब; १०३
 हाजी कालू ऊंबरा बड़ा, पाहड़ प्रेम तिहारा धड़ा,
 खुवलिक रुकबदीन बेऊ, ततारखान फोज मांहि तेऊ १०४
 अहमद महमद महवी कीया, आलफखान पल्लवाण ज हूवा,
 कौरउपरि कीधउ मुगीस, दाफर फिरइं फेर निसदीस, १०५
 राणो राणि हिंदु मिल्या घणा, दल आव्या देस देसह तणा,
 'भाडउ' कहइ वर्णवउ किसउ, पातिसाह दल चक्रवर्त्ति जिसउ, १०६
 काली पाखर काला टोप, लोह तणा ते दीसइ टोप,
 घोडे चड्या ते आइध लेउ, जाणे जम ना सेवक तेउ, १०७
 कटक तणी गाढी संजती, पाच लाख चालइ पालखी,
 राजवाहण वहिल चकडोल, धूजी धरा पडिउ हलोल, १०८
 भोथी भोई भील अति घणा, मूई सूनार तणी नहि मणा,
 तबोलीय मालीय कलाल, नाचणि मोची नइ लोहार, १०९
 मोची घांची नइ तेरमा, धोई ढेढ साबणगर घणा,
 सइ सेलार सेख खाटही, कादी पुराण पढइ ले वही, ११०
 बाण्या बांभण बहुला मिल्या, बणकर सूत्रधार दलि मिल्या,
 कनडा कुर्कट हबसी किसान, खूटी देई भूमइ तिसा, १११

कोठी अनइ घणा बाजारि, त्रिणि लाख गाडा कटक मभारि ;
 पोठी ऊंट गादह वेसरा, तिहरी पूठि भरया अति भख्या ११२
 पाखर जरद अनइ जीण साल, जल जंत्र नालि ढीकुली भमाल;
 वर्णा वर्ण कटक मांहि सहु, जं जोईय तं लाभइ बहु; ११३
 'भांडउ' कहइ कटक अनमानि, सवाकोड़ि मिलिउ माणस ताम;
 खुर रवि खेह छायउ आभ, भूला न लहइ बेटउ बाप, ११४
 जोयण च्यार पड़इ मिलाण, रूख वृख न रहइ तिणि ठाणि;
 समुद्र तणी वेलू हुइ जिसी, पातिसाह फोज हुइ तिसी, ११५
 मनि चितवइ इसु सुरताण, जात समउ भाजिसु गढ ठाम;
 सभरिवाल जीवतउ ग्रहउ, सहर बंदि ले ढीली करउ; ११६
 सवालाख माहि दीधीवाह, लूभइ बंधइ माणस आह;
 ढाहइ पोलि नगर प्राकार, देश माहि बलि फिर्या अपार, ११७

॥ दूहा ॥

पातिसाह आदेश छइ; संभलि अलुखान,
 देस विणास किसउ करउ, गढि जाइ छउ रि मिलाण, ११८
 द्वाही छइ रि खुदाइ की, जइरि विणासउ देस,
 सीचाणा ज्यंउ ऋड़फ ल्यउ, रणथंभवर नरेस; ११९

॥ चौपई ॥

आलम साह नइ अलुखान, बेगि करि गढि आन्या ताम;
 पातिसाह गढ दीठउ जिसइ, जोई द्विष्ट विकासी तिसइ, १२०
 साबंदलि आव्यउ सुरताण, फोज कीया मीर मलिक ने खान,
 हाल हाल करइ अपार, गढ पाखलि फिरीया असवार; १२१

नदी तणा जिसा हुइ पूरि, कटक तणा दीसइ भलूरि;	
रुद्र घणा वाजइ नीसाण, गढरा लोक पडइ पराण,	१२२
ढलकी ढाल फरहरी चांध, गढ पाखलि फिरीया वेढ,	
धूजी धरा गढ कांपीयउ, शेपनाग तिहि माही राखीयो;	१२३
गढ चापी आपि सुरताण, मिलाणीरा हुवा फुरमाण;	
घणा कटक अर मोटा खान, चहु पोलि हुआ मिलाण,	१२४
पंच वर्ण तिहि देरा दीया, भलकइ कलस सोना रा तिहा,	
सहु कटक ऊतारा लीया, पाखलि सातपुडा गढ कीया,	१२५
पातिसाह दल दीठउ जिसइ, गढना लोक चितवइ तिसइ,	
गढ ऊपाड़ी पाडिसी, कोसीसा उतारसी,	१२६
गढ माहे हूयउ बूबाकार, सूरज तणी न लाधीसार,	
काला कोट हाथिया तणा, गढ ऊपहरा दीसइ घणा,	१२७
लोक सहू तिहि करइ विलाप, घणा देवला माडइ जाप,	
राय हमीर चित नवि धरइ, लोक सहू नइ मुसता करइ;	१२८
कटक सहू मेलहाणे दुवउ, खेहाडंबर भाजी गयउ,	
दिस निर्मला भागउ अन्धार, ऊग्यउ सूर न लागी वार,	१२९
लोका नउ भउ भाजी गयउ, कटक नहीं ए अचरिज भयउ,	
लोकानइ उपनउ उच्छ्राह, पुनिहि उपरि हुवउ भाव,	१३०
घणइ हरखि ऊग्यउ श्री मूर, तउ गढ मांहि वाज्या रिणतूर,	
राय हमीर वधावउ करइ, पातसाह देखी गोइरइ,	१३१
आज अम्हारउ जिव्यउ प्रमाण, हु भलइ ऊपनउ चहुयाण,	
रिणथंभवरि हउहोवउ राय, मुझ घरिढीली आव्यउ पतिसाह;	१३२

॥ वस्तु ॥

ताम राजा ताम राजा धरियउ उछाह,
गढ गाढउ सिणगारीउ भला सुभट नइ प्रास अप्पइ,
हरख धरी हम्मीरदे घणउ मान मीरा समप्पइ,
मुक्क गढ भलइज प्राहुणउ आव्यउ अलावदीन,
सफल दिवस हुउ मुक्क तणउ जन्म आज धन धन्न, १३३

॥ चउपई ॥

रणथभोरि गुडी उछली कोसीसइ कोसीसइ भली,
तोरण ऊभवीया घर-बारि, मंगला (दियइ) चारि दियइ वर-नारि, १३४
च्यारि पोलि सिणगारी तिहा, आगीसारा तोरण जिहा,
ऊभ्या धइवइ चीध पताक, गुहिरा वाजइ त्रंबक ढाक, १३५
बुरिज बुरिज धरइ नीसाण, ढोल (तणइ) घाड पइइ अरि प्राण,
वाजइ वरगू नइ काहली, देव सहु जोवा आव्या मिली, १३६
सात छत्र धरावइ सीस, चमर ढलइ (ऊचइ) रणथंभोग ईस,
पटहस्ती बयठउ चहुआण, नगर मांहि फिरि कीयो मंडाण, १३७

॥ दोहा ॥

आलम साह आव्या भणी, कीधा बहुत उछाह,
गढ गाढउ सिणगारीयउ, रिणथंभोरइ नाह, १३८
हमीरदे मनि हरखीया, दल देखी सुरताण,
आपणपउ धन मानतउ, बदिण चइ अति दान, १३९

बंदीजण आसीस ग्रइ, जइति हुबउ चहुआण;
 न्हांता वाल रखे खिसइ, त हम्मीरदे राण; १४०
 नगर लोक सहु मिल्या, बध्धावइ चहुआण;
 गढ बधावइ अति घणउ, भरि भरि अखिअयाण; १४१

॥ चउपई ॥

कहइ ऊबरा मोटा खान, एक वार भोकलउ प्रधान;
 साची वात मानी सुरताणि, प्रधाना रउ जुगतउ जाणि; १४२
 मोल्हउ भाट तेढान्यउ सुरताणि, तेहनइ साहिब दे फुरमाण,
 सम्भरिवाल तीरइ तुम्ह जाउ, पूछइ किसउ कहइ ते राउ; १४३
 मोल्हउ भाट गढ माहि गयउ, राय हमीर तणइ भेटियउ;
 राय हमीर ति मान्यउ घणउ, भाट नइ कीयउ प्राहुणउ; १४४
 भाटइ आसीस ज दीध :—

तु ब्रह्मा जयउ सदा, जयति दीयउ श्री सूरि
 इतु ईसर रिक्षा करउ, राम दीयउ रिधि पूरि १४६

॥ दोहा ॥

भाट कहइ राजा निसुणि, इकु कीरति अरु लाछि;
 ते वरिवा आवी निसुणि, किसी वरिसि, कहि साच; १४६
 तू वरि वेऊ वर तरणि, सयंवर मांड्यउ सुरिताणि;
 भाट कहइ हम्मीरदे, भली गिणइ ते माणि; १४७

॥ चौपई ॥

राज कहइ बारहटा बली, कीरति-लाछि मांहि कुण भली,
लाछइं गरथ घणउ आबिसइ, कीरति देसि बिदेसइ हुस्यइ, १४८
'मोल्हउ' कहइ मोकल्यउ सुरताणि, कहइ सु सुणइ हमीरदे राण ;
'देवलदे' कुंवरी परणावि, 'धारू' 'वारू' साथि अलावि ; १४९
हाथी घण बे मागइ मीर, तुम्हनइ निहाल करइ हमीर ;
अधिका दे 'मांडव' 'ऊजेणि', सवालाख संभरि तउ केड़ि ; १५०

॥ दोहा ॥

च्यारि बोल आपी करी, भोगवि लाछि अणंत ;
'मोल्हउ' कहइ 'राजा निसुणि, कीरति दुहेली हुंति ; १५१
'मोल्हउ' कहइ बिसहर करिसि, जइ इन नामिसि नाक ,
सरणाई आपिसि नहीं, कीरति होसी नाक , १५२
कीरति मोल्हा ! वरिजि मइं, लाछी तूं ले जाह ;
डाभ अग्रि जे ऊपड़इ, ते न आपउं पतिसाह , १५३
जइ हारउं तउ हरि सरणि, जइ जीपउं तउ डाउ ;
राउ कहइ बारहट ! निसुणि, बिहुं परि मोनइ लाह ; १५४

॥ चउपई ॥

घणइ महति भाट वउलाबियउ, घरनउ भाट साखिइ मोकल्यउ ;
मोल्हि जइ तिहि दीधी द्वाहि, घणउ मान दीधउ पतिसाहि ; १५५

१४३ तइ १४६ बीजी, > अरुं, वरसि, १४७ मंड्यउं सुरताणि, हमीरदे, तीमानि
स, जयरिन > जइइन नाकि १५५ वउलाबियउ, साखि. नास्ति

(गाथा)

रचिता सप्त समुद्रा निर्मिता जेन रवि शशि तारा ।
अविगत अलख अनतो रहमाणउ हरउ दुरियाइ ॥

॥ अथ छपद ॥

रे देवगिरि म म जाणि, जुरे जादव कि नरवइ
रे गुजरात म म जाणि, कर्ण चालुक न हुयउ
रे मंडोवर म म जाणि, जुतइ गाढम करि ग्रहियउ
रे जलालदीन म म जाणि, जुरे वेसासि जि ग्रहीयउ
रे अलाबदीन ! हम्मीर यहु, दिढ किमाड आडउ खरउ ,
रिणथंभि दुर्गा लगंतडां, हिब जाणीयइ पटन्तरउ , १५६

॥ दोहा ॥

भाट कहइ भोलउ किसउ, तू भूलउ सुरिताण ,
गढ रणथंभ हमीरदे, जीपिसि किणिहि विनाणि ; १५७
नवि परणावउ डीकरी, नवि आपउ बेऊं मीर ,
हाथी गढ आपउ नहीं, इसउ कहइ हम्मीर , १५८
तुं सरिखा मुरताणसुं, करइ विग्रह निसदीस ,
हमीरदे कहीयउ इसउ, तउइ न नामउ सीस , १५९
सउ वरसां नु संचीयउ, धान चोपइ गढ माहि ;
चहुवाण कहइ इसउ, रामति करि पतिसाह , १६०

१५६ हमीरकउ , १५८ न मवि, न > नवि अउवि, उरइ > हुयउ
गाढिम, करि > जि

॥ चौपई ॥

भाट नइ तूठउ सुरिताण, घोड़ा अरथ दिबाइइ ताम ;
भाट कहइ आगइ घरि घणा, उचित भंडार अछइ तुम्ह तणा ; १६१
देवां नइ नरवर तणा, उचित न होइ भंडार ,
नाल्ह न लइ कारणि कवणि, हुं तूठउ करतार ; १६२

॥ चौपई ॥

नाल्ह कहइ कारण सुरिताण, तउ विप्रहि मरसी चहुयाण ,
भाट मरइ आगलि तिणिवार, इणि कारणि न लीयउ भंडार ; १६३

॥ दूहा ॥

नाल्ह कहइ साहिब सुणउ, ज दी मरइ चहुआण ;
भाट उचित मांगइ तदि, कहि गयउ निज ठाण , १६४
राजकुली छत्तीस नइ, चीरी दइ चहुआण ;
या बेला छइ तुम्ह तणी, आवउ घणइ पराणि ; १६५

॥ अथ पदड़ी छन्द ॥

संढा वंदा दाहिमा जाणि; कइवाहा मेरा मुंकिआणं ,
बारहड बोडाणा अतिभूभार; वाघेला मिलिया तिह अपार , १६६
भाटिय गषड तुंवर असंख, सुभट सेल चाल्या हसंत ;
डाभिय डाडीय अति घणा हूण, डोडीयआण पयाणरूण ; १६७

गुहिलत्र गहिल गोहिल राव, परमार पधार्या अति उब्बाह ;
 सोलंकी सिधल घणइ मंडाणि, चंदेल खाइडा नइ चहुआण ; १६८
 जाडा जादव महुउडा एव, सूरमा रणमल जाई तेउ,
 राठवइ मेवाडा निकुंद, छत्रीस कुली मीली आरम्भ ; १६९
 हम्मीर राय हरखीय अपार, दीठा मिल्या अति भूभार ;
 मंडलीक मउडउधा राणो राणि, सहुवमिलि आव्या तेणि ठामि ; १७०
 रजपूता नइ दीधा (अति) भला सनाह, अंगा रंगाउलि तणा ठाह,
 छत्रीस डंडाऊध लीय जाम, 'महिमासाह' उतर्या ताम ; १७१
 माख्या मीर मलिक जाम, सगला दल माहि पड्यउ भंगाण,
 नवलखि माख्या निसरखान, बवारव पड्यउ तेणि ठाणि ; १७२
 'महिमासाहि' मार्या घगा मीर, गढ जाय जुहाख्या हमीर,
 जस जयति हुउ चहुआण राय, कवि कहइ 'व्यास भंडउ' उब्बाह ; १७३

॥ दोहा ॥

कटक माहि हल हल हुई, हुउ दमामे घाउ ;
 सुभट सनाह लेई भला, चडिउ आलम साह ; १७४

॥ चौपई ॥

आलमसाह चड्यउ सुरताण, कटक सहु नइ हुवा फुरमाण ;
 मोटा खान भारी ऊंबरा, तिणि गढि लागा पालाफीरा ; १७५

कनडा कुर्कट हवसी जेउ, कोसीसइ जइ बाज्या तेउ ;
 मीर मलिक पठाण जि हुता, तिणि गढि चड्या घणा सुंजुता ; १७६
 चउद सहस गयवर तिह गुड्या, मदि माता भाखरि जाइ अड्या ,
 घंटा तणा हुवइ निनाद, गढना देव धरइ विपवाद , १७७
 सवालाख वाजा वाजीया, कायर तणा तिणि फाटइ हीया ,
 लबे लबे करइ इआर, जाणे गढ लेसी तिणिवार १७८

॥ दोहा ॥

तिणि अवसरि हम्मीरदे, तेड्या सगला राइ ,
 आजि भलउ कीलउ करउ, देखइ जिउ पातिसाह , १७९
 राजकुली छत्रीस नइ, मोटा राणो राणि ;
 ते गढ हूता ऊतर्या, जभ करइ मंडाणि , १८०
 सूरु मनि उछाहडउ, कायर पडइ पराण ,
 बाका बोलजि बोलता, भाजि गया तिसि ठाण , १८१
 पछेवडी घुटी समी, हाटो माहि घसंति .
 लोह भक्क्या देखि करि, गया ति कायर न्हासि , १८२

॥ चौपई ॥

सात छत्र धरावय राइ, गयवर गुड्या आप्या तिणि ठाइ ;
 आलम ऊभो देखइ पातिसाह, बेऊ सुभट भिडइ तिणइ ठाई ; १८३
 बिहु दल वाजइ जांगी ढोल, नीसाणे पडइ हिलोल ;
 बिहु दलि वाजइ रिणि काहली, कटक दचड़ि म्हालरि रसि भरी ; १८४

१७६ हवसि जेव, सुसुतु १७६ हमीरदे, राव आज

अति मीठी बाजड मूहरी, तियरड नादि वीर रसि चडी,
 बिहु दलभाट करड जयकार, सुभट भिडइ न लाभइ पार ; १८५
 भवभव भवकइ (तिह) करवाल, वाहइ सेल घणा अणियाल ,
 सीगणि तणा विछडइ तीर, इम मेल्लइ भिडइ तिम वीर ; १८६
 यंत्र नालि वहइ ढींकुली, सुभट राय मनि पूजइ रली ;
 मरड मयंगल आवटइ अपार, आहुति लइ जोगिणि तिणि वार ; १८७
 गयवर पडइ विवर हिणहिणड, सुभट घणा रिणागणि पडइ ,
 लहता प्रास घणा जे जिहां, तेऊ उसंकल मांगइ तिहां ; १८८

॥ दूहा ॥

उलगाणा खायड सदा, ऊरण हुइ इक्वार ,
 चाड घणी ठाकुर तणी, सारड दोहिली वार , १८९
 डील बडइ लहता सदा, न्यामति घोडा प्रास,
 गढि गो ग्रहि उरण करइ; त्या सुरगापुरि वास; १९०

॥ चउपई ॥

पातिसाहि ढल भागौ नाम, मर्ग्या मीर मलिक बहु खान;
 गढ (नइ) पूजा कीधी अति घणी, जयति हुइ रिणथंभोरह घणी; १९१
 सहु कटक री कीधी सार, सवालाख खूटउ एकवार;
 सहु मलिक खान करड सलाम, कटक मरावइ साहिब कुण काम, १९२

१८५ तियराइ, १८६ खाइ, १९० तिहां

प्राणइ गढ लीजइ नबि किमइ, कोई उपाय चितवउ तिमइ;
 जइ रिणि पुरावइ खंदकार, हेलां गढ लीजइ इक सार; १६३
 रिण थंभ ऊपरि चड्यइ सुरताण, देखइ गढनउ सहु मंडाण;
 सिघासणि सउ बेठउ राउ, रिण हुंतउ जोवै पतिसाह; १६४
 महिमासाह कहइ सुणि राउ, मो घातइ आयउ पतिसाह,
 कहइति डील मारउ सुरताण, कहइति पाड़उ छत्र मंडाणि, १६५
 राउ कहइ थारउ साचउ मीर, छत्र पाड़ि इसउ कहइ हमीर;
 कहइ पठाण सुणि गोमरा, इणि जीवति किउ भूजिसि घरा, १६६
 खांचि बाण तिण मेल्खउ मीरि, सात छत्र तिणि पाड्या तीरि,
 चिति चमकिउ आपु सुरताण, महिमासाह तणउ ए पराण, १६७
 पहिलउ रिण पूरउ लाकड़े, देई आग बाल्यउ तिय भड़े,
 कटक सहू नइ हुयउ फुरमाण, वेलू नखाउ तिणि ठाणि; १६८
 सुथण तणी बाधइ पोटली, मीर मलिक वेलू आणइ भरी,
 न करइ कोइ भूम गढ वाल, वेलू आणइ सहि पोटली, १६९
 छठइ मासि संपूरण भख्यउ, ते देखी लोक मनि डख्यउ,
 कोसीसइ जाइ पहुता हाथ, तुरका तणी समी छइ बाच्छ; २००
 राय हमीर चितानुर हूयउ, रिण पूख्यउ दुर्ग हिव गयउ,
 गढ देवति लही परमाथ, आणी कुंची दीधी हाथि; २०१
 राय बारी उघाड़ी ताम, देव माया पाणी वहिया ताम;
 वहि वेलू पाणी सुं गयउ, तेह मोल बलि ठालउ थयउ; २०२

१६३ आणइ, हेलां १६४ देखी, सिघसणि, हुंता, १६५ मिल १६६ पाठण,
 १६७ मेलउ १६९ मली २०१ चितानुउ, २०२ हमीर

राउ आगलि नितु पालउ पड़इ, देखी पातसह घड़हड़इ;
 धारू वारू नाचइ बेऊ, पुठि दिखालइ पातिसाह नइ तेउ; २०३
 कोई कटक मांहि भलउ मीर, नाचणि मारइ मेल्हइ तीर;
 जउ हुबइ महिमासाह नउ कोइ, इय विदां तणि मारइ सोई, २०४
 सारी दुनी मांहि को इसउ, इय विदां तणि मारइ जिसउ,
 महिमासाह नउ काकउ होई, एअ विदा तणि मारइ सोई; २०५
 इयणा घरनी विद्या एऊ, भला मीर नवि जाणइ तेऊ.
 ढीली मांहि बंदि तुम्हि धख्यउ, तउ खिणि आणि ऊभउ कख्यउ, २०६
 तुम्हनइ निहाल करउं बड़ा मीर, इय विदां तणि मारइ तीरि,
 साहिब सिंगणि वाण्या हाटि, सवालाख अडाणी माटि, २०७
 सिंगणी घणी भली चइ हाथि, सींगणि खाची कुटका सात,
 आणावी सिंगणी सुरताणि, मीरा नइं अति चड्यउ पराण; २०८
 राव आगलि तव मॉड्यउ नाच, धारू वारू नाचइ पात्र,
 तोडी ताल पुठि फेरी जाम, मलिक मीर मारी ते ताम, २०९
 एकइ तीरि पात्रि मारी बेउ, गढ बाहरि मारी पाड़ी तेऊ,
 घणउ उचिति दीधउ सुलताणि, एउ पवाड़उ कीधउ तिणि ठामि; २१०
 गढ गाढउ विंध्यउ सुरताणि, को सलकी न सकइ तिणि ठामि,
 माहो मांहि मरइ लखकोड़ि, पातिसाह नवि जाए द्योड़ि; २११
 बार बरिस नउ विग्रह कीयउ, मीर मलिक घणा तिह मुवा;
 ढीली थी आई अरदासि, किसइ लोभि साहिब रख्यउ वासि; २१२
 २०४ जय, २०७ करइ, २०९ वमभ री मरी मारी ताम, २१० बहरि मीरी

संडभरिआल न मानइ आण, दंड नवि चइं तुम नइ सुरताण;
 गढ नवि लीजइ प्राणइ किसइ, कटक मरावीइ कारण किसइ; २१३
 थारइ गढ छइं आगइ घणा, घर संमालि साहिब आपणा;
 पुत्र कलत्र सहुअइ परिवार, तीयारइ मेलउ दइ खुंदकार; २१४
 साहिब कहइ सुणउ सहु मीर, नाक नमणि जे देइ हमीर;
 घरि जातां सोभा हुइ घणी, पति पाणी रहइ आपणी; २१५
 पातिसाह कहावइ ईम, बार वरस विग्रह नी सीम,
 त मोटउ अगंजित राव, सरणार्ई तणउ पतिसाह; २१६
 बार वरस आपे रामति रमी, मुनइ घरि मुकलाविनइ किमइ;
 हुं थारइ आव्यउ प्राहुणउ, मुहत देइ मो दे ताजिणउ, २१७

॥ दूहा ॥

पातिसाह इसउं कही, गढि मोकल्या प्रधान;
 रामचंदि रुड़उ कीयउ, लोक कहइ चहुआण, २१८
 आलम साह रइ आगलइ, तुं ऊगखउ अभंग,
 खिजमति देइ बउलावि नइ, जेम रहइ अतिरंग, २१९
 लोक कहइ चहुयाण नइ, ईम विमासी जोई,
 मोटा सुं नमता कदे, दृषण नावइ कोई, २२०
 घणउ विसास जिहां तणउ, ते तेड्या राव प्रधान;
 रणमल रायपाल सूरिमा, मोकलिजइ तिणि ठाम; २२१

२१४ सहुव, २१५ सुणि २१६ अगोजित, २१८ कहइ, २१९ चलावि तुरंग,
 २२० इम

कवि कहइ 'भांडउ' इसउ, सभलिज्यो सहु कोई;
ते प्रधान जं करइ, अचरिज जोवउ लोई; २२२

॥ चउपही ॥

राय हमीर मोकल्या प्रधान, रणमल रउपाल गया तिणि ठामि,
पातिसाह नइ कीया सलाम, आलमसाह दीयइ बहु मान, २२३
रणमल तीरइ पूछइ पतिसाह, तुम्ह नइ ग्रास किसु दे राउ,
अरधी बूदी अह्ननइ ग्रास, जिमणइ गोडइ बइसारइ पामि, २२४
सइ हथि बूडउ अम्हनइ दइ राउ, गढ प्रधानउ करां पतिसाह,
तउ तुम्हि आव्या बड़ा प्रधान, घर मुकलावउ अम्ह नइ देइमान, २२५
बार वरस तइ विग्रह कखउ, गढ लीया विणु काइ पाछउ भयउ,
रिणमल राइ (पाल) कहइ सुरताण, बंधव गढ नवि लीजइ प्राणि; २२६
पूरी बूदी ये सुरताण, अम्हे गढ घउ (तुम्ह) विण प्राणि,
सुणी बात हरख्यउ सुरिताण, लिखि इहां दीध तिहा फुरमाण; २२७
अम्ह तुम्ह विचइ अलख रहमाण, कोस क्रीया करइ सुरताण,
बीजा प्राप्त घउ अति घणा, बाह बोल तु दीउ आपणा; २२८
मति भूला नही तीय मान, तियां मुखिखानी नाठी सान,
हीया सूना जाणइ नही ईम, तुरकां नइ वेससिजइ केम, २२९
स्वामी-द्रोह कीयउ तिण तिहा, परिघउ ले आवां छां तिहा,
मनि हरख्या रिणमल राउपाल, कूड़ करी गढि ग्या ततकाल; २३०

राय हमीरपूख्यउ (छइ) इसउं, पातिसाह मांगइकहि किसउं;
 देवलदे मांगइ कुंवरी, द्रोहे बात मनि हुंती कही; २३१
 देवलदे (इ) कहइ सुणि बाप, मो वड़इ ऊगारि नि आप,
 जाणे जणी न हुंती घरे, नान्ही थकी गई त्या मरे; २३२
 राय हमीर सुधि नवि लहइ; सहु परिघउ फेख्यउ तिणि समइ,
 गढ नउ लोक न जाणइ भेउ, रणमल रायपाल करइ छइ तेउ; २३३

कोठारी नइ बोल्यउ विरउ, धान नखावि सहु तउं परउ;
 अन्हनइ बूदी पूरी हुई, तं परधानउ देस्यां सही; २३४
 तिणि नीचि नाख्या सहुधान, रिणमल रउपाल परधान,
 वीरमदेरी घालइ घात, राय तणइ मनि न बसी बात; २३५
 रिणमल रउपाल मागइ पसाउ, एकवार परघउ छउ राउ,
 कटकि कीलउ करां अति भलउ, जे में तुरक पाडा पातलउ; २३६
 राय तणइ मनि नही विशेष, द्रोहे कीधउ काम अलेख,
 सवालाख परिघउ (छइ) रावु, द्रोहे मिल्या जाई पतिसाहि; २३७
 सात वार पहिराव्या तेउ, मूरख हरख्या गाढा बेऊ;
 कोसीसे थीयउ देखइ राऊ, जोवउ रणमल खेल्यउ डाव; २३८
 अणचित्तइवी हुइ कुण बात, दसा देवि दीधी अति घात,
 पापी परधान पहड्या बेउ, परिघउ सहु लोपउ तेउ; २३९
 गढ मांहि नही को जूमर, जइरइ हाथि दीजइ हथियार,
 बांकउ देव तणउ विवहार, जीती कोई न जाई संसारि; २४०

२३१ पुछइ, इसुं मान, २३२ नही तु, २३३ भेऊ, २३४ नाखिउ, २३६
 करा ति, २३५ खेतइउ

॥ दूहा ॥

तइ गढ पुठि ज दीध मूं हउं, तुभ पूठि न देसि;
 कीरति नारी वरि जि मइ, आज प्रमाण करेसि; २४१
 मउडउ वेगउ मरण छइ, सहुकिण नइ संसारि;
 'भांडउ' कहइ राजा निसुणि, कलि माहि बोल ऊगारि; २४२
 गढि गो ग्रहिय मरइं जिके, तिया रइ मोख दुवार,
 अबसरि मरइ हमीरदे, नाम रहइ संसार; २४३
 अबसरि जे नवि ओलखइ, नीभागीण नरेह,
 'भांडउ' कहइ ते भीखिया, लहिसिइ नही बलेह, २४४
 लोक सहु तेडी करी, पूछइ राउ चहुयाण;
 हुं ठाकुर थे प्रजा थां,—वउलाचुं किणि ठाणि; २४५
 हमीरदे थारा अम्हे, सात प्रियां लगु लोक,
 इणि बेला जे पुठि थां, जणणी जाया फोक, २४६
 जाजा तुं घरि जाह, तु परदेसी प्राहुणउ,
 म्हें रहीया गढ मांहि, गढ गाढउ मेल्हा नही, २४७
 जाजउ कहइ ति जाउ, जे जाया तिह जण तणा;
 अरथ विडाणा खाइ, साईं मेल्हइ साकइइ, २४८
 जाजउ कहइ (ति) राजा निसुणि, अबसर जेम लहेसि,
 तइं मरतइ गढ भाजतइ, कलि मांहि नाम करेसि; २४९

२४२ मरणउ अछइ, २४३ ग्रहि, कलिमांहि, २४५ प्रजथी,

२४६ लोक म्हे, चुं

भाई भणी मइ भगताबीउ, तुं महिमासाह हमीर;
 देव सूत्र ईसउ हूवउ, वउलाऊ कहि मीर; २५०
 ईण वचनि माखा थई, बोलइ वेऊ मीर,
 अनरथ अणहूंतउ करी; जउ जाहं कहइ हमीर; २५१
 म्हां दीधां जइ ऊगरइ, तउ त् गढ ऊगारि,
 मीर कहइ हम्मीर दे, अनरथ हुतउ निबारि; २५२
 मनि मच्छर अधिकउ धरी, बोलइ राय हमीर;
 डील बड़इ सुरिताण नइ, आपिसुं ? बडें मीर, २५३
 महिमासाहि इसिउं कहइं, निसुणि राय हमीर;
 धान जोवाड़ि कोठार नां, गढ राखा तउ मीर, २५४
 कोठारी राय पूछियउ; केता धान कोठारि,
 वणिठेइ वाणियइ देखालीया, ठाला लेई अंबार; २५५

(वस्तु)

राउ चितइ राउ चितइ मनह मभारि
 गढ गाढउ पहड़ीयउ, घणउ द्रोह रणमलइ कीधउ
 समउधान तूटउ तिहां, अति दुःख कोठारी दीधउ
 वेगि वेगि जमहर करउ, कोई मालावउ वार
 पटराणी राजा वीनवइ कुलनउ नाम उगारि २५६

॥ चउपई ॥

वीरमदे नइ राजा कहइ, तूं नीकलि, जिम वंसज रहइ;
 वीरमदे कहइ सुणि वीर, तू मेलही न जाऊं हमीर, २५७

२५६ वीनवउ

साची वात मानी चहुयाण, कुमर तेढाव्या तेणइ ठामि,
 टीलउ काढि खड्ग दीधउ हाथि, रिणथंभोरि वडा हुजउ हाथ, २५८
 बांभण नइ तुम्हि देज्यो दान, रखे महेसरी करउ प्रवान;
 महेसरी ना वाढिज्यो कान, तुरका ने देज्यो बहुमान, २५९
 राय सिखावणि दीधी भली, तीयारी माइ साथि मोकली,
 तीह नइ घोडा दे रजपूत, दियइ बाप वली दुइ पूत, २६०
 राय हमीर मीर नइ कहइ, हाथी मारि रखे कोई रहइ,
 मेल्हइ मीर प्राण अति वाण, नव नव हाथी पाडइ ठाण, २६१
 सालिहोत्र मूधा तूषार, ते मारीजइ तेणइ वार,
 घरि घरि जमहर लोके कीया, राऊल गुन बलइ छइ तिहा, २६२
 जमहर रा माता धूकला, राय अंतेउर लागा बला,
 करी सनान पहिरीया चीर, उगटणे लूहीया सरीर, २६३
 सिरि सिंदूर मिध तेडिया, सवा कोडि का टीका किया,
 नयणे काजल सारी रेह, मुख तंबोल समाण्या तेह, २६४
 काने कुंडल भलकइ तिया, सूरिज चंदरी उपम जीया;
 बाहइ बांध्या बहरखा भला, सोवन चूडी खलकइ निला, २६५
 आंगुलीयां सोहइ मूदडी, सवा लाख री हीरे जडी;
 कंठनि गोदर उरिवर हार, पाई नेउरि भण भण कार, २६६
 सोलह सिंगार संपूरण कीया, नाचइ गावइ गाढी तीया,
 आपण पणा संभालइ प्रिया, बेऊ पक्ष उजालइ त्रिया, २६७

२५८ ते आढ्या, २६० दइ, २६१न, २६३ उगटणे, २६४ सिधा ताडीया,
 कीया, २६७ प्रिया

देव तणी देवी हुइं जिसी, राय तणी अंतेडरि जिसी;
 ते देखी देव खलभलइ, राय कुंबरी इसी परि बलइ; २६८
 (रा) जाणे तिणि गढि पडिउ पुलउ, लोक सहू को लागउ बलउ,
 अरथ भंडार संजति समुदाय, राछ पीछ बलइ तिणि ठाउ; २६९
 सोना जडित बलइ पलाण, जीण साल हथियार लगाम,
 पलंक ढोल कमखानइ पाट, चरु त्रंबालु कचोला त्राट, २७०
 करणाली सोना रूपा तणी, गरथि भरीय बलइ अति घणी,
 कुमखा कतीफा जुन पटकूल, सडडि तलाइ तणा अति पूर, २७१
 एकवीस मूमिया बलइ आवासि, जाइ झाल लागी आकासि,
 हणवंति जेम पजाली लंक, ते बीतक बीता रिणथंभि, २७२
 जमहर करी पहूंतउ राउ, न को उगरिउ तिणि ठाउ.
 उत्तम मध्यम [को] न लहइ पार, सवा लाख नउ हुबऊ संहार, २७३
 गढ सगलउ मुकलावइ ताम, चिहु पोलि फिरि कीयउ प्रणाम,
 पातिसाह नड पूठि न देसि, चहुयाणाइ गढ बलि आणेसि, २७४
 मुकलावइ देहुरा रा देव, कोठारे गयउ तिणि खेबि;
 वावि सरोवर नगर बिहार, मुकलावइ भंडार कोठार; २७५
 ऊभउ रहि जोवइ कोठार, धान भख्या वीसइ अंबार;
 जाजउ वीरमदे बे मीर, गढ राखिस्था म मरि हमीर; २७६
 राय कहइ बंधव सुणि बात, या कीसी बोली तइं घात;
 अनरथ हुवउ घणउ तिणि ठामि, हिव रहि नड करिस्थां कुण काम, २७७

२६९ लागइ बलइ, ति ठाई, २७० लागण, १७२ वलइ आवासि २७३
 उगरउ, ठामि, २७६ ऊभउ, २७७ तूं,

॥ दूहा ॥

वीरमदे हम्मीरदे, मीर नइ महिमासाहि;	
भाट नइ जाजउ प्राहुणो, ए रहिया गढ मांहि;	२७८
जमहर करी छड़उ हुयउ, हम्मीरदे चहुयाण;	
सवालाख संभरि धणी, घोड़इ दियइ पलाण;	२७९
छत्रीसइ राजाकुली, उलगता निसि-दीस;	
तिणि बेला एको नहीं, उवाढउ लेबहु ईस;	२८०
हाथी घोड़ा घरि हुंता, उलगाणा रा लाख,	
सात छत्र धरता तिहां, कोइ न साहइ बाग;	२८१
नगर (लोक) मोह मेल्ही करी, घोड़इ चढ्यउ हमीर;	
कदि ही जुहार न आवतउ, पालउ पुलइ ति वीर;	२८२
बाधव पालउ देखि करि, गहबरीयो हम्मीर;	
इणि घोड़इ कुण काम छइ, तिणि पालउ मुभ वीर.	२८३
सइहथि घोड़उ मारि करि, पालउ चाल्यउ राउ;	
पगि पाहण लागइ घणा, लोही वहइ प्रवाह;	२८४
महिमासाह कांधइ करइ, अम्हारा साहिब हमीर;	
वीरमदे बलतउ कहइ, बंधव बेला (ह) मीर !	२८५
देव सहु मनि काल मुह, सूरिज प्रमुख, ज केवि;	
तीनइ त्रिभुवन डोलिया; राय हमीर देखेवि;	२८६
(ग) खाज्यो पिज्यो विलसज्यो, ज्यां रइ संपइ होई;	
मोह म करिज्यो लख्मी तणउ, अजरामर नहिं कोइ;	२८७

२७९ हमीर २८० उलगता नसदीस, इस, २८३ हमीर, २८४ हमीर २८५, काल मुहा हुवा, २८७ नाही

(ए) खाज्यो पीज्यो बिलसज्यो; धनरउ लेज्यो लाह;
कवि 'भांडउ' असउ कहइ, देवा लांबी बाह; २८८

॥ चउपई ॥

भाट नइ राय दीधउ काम, दाध दिवाड़ेइ रुड़इ ठामि;
घोर घलावे बेऊ मीर, इसउ आदेश दियइ हमीर; २८६

'जाजउ' 'वीरमदे' हसमस्या, पिहिली किलउ अम्हे भालिस्त्या;
हाथ जोड़ि बे बोलइ मीर, अवसर हमारउ आज हमीर; २९०

म्हाथी दुख सहीयउ अति घणउ, नाक न नाम्यउ पणि अपणउ;
पहिला जे तुम्ह आगलि मरां, थारा मुंग उसांकल करां; २९१

बेऊ मीर भिड़इ अति भला, मारइ कटक घणा एकला;
[† चोटी साहइ भला अइयार, छरी स्यउं खंड करइ दसवार]

भिड़इ 'देवइउ जाजउ' भलउ, वीरमदे अति कीघउ किलउ; २९२

भाट कहइ सुणउ महाराज, कुण नइ प्राण दिखालउ आज;
राय पवाड़उ कीयउ भलऊ, आपण ही साख्यउ जै गलऊ; २९३

॥ दोहा ॥

संबत तेरह इकहत्तरइ, जेठ आठमि सनिवार;
राउ मूबउ गढ पालउयउ, जाणइ इणि संसारि; २९४

२९१ बे † यह पक्ति उदयपुर वाली प्रति मे नही है ।

॥ चउपई ॥

घरा पीठ पड़ियउ 'हमीर', ऊभउ भाट बोलइ जई मीरः
 'जाजउ' सिर सिर ऊपरि कीयउ, जाणे ईश्वर तिणि पूजीयउ; २६५
 'बीरमदे' रउ माथउ देठि, बेउ मीर पड्या पग हेठि;
 देवलोकि जइ बइठउ राउ, कुडि रखवालइ भाटज तेऊ; २६६
 राति विहाणी हुवउ परभात, पातिसाह तिह मेल्इ खाट;
 हमीरदे पड्यउ छइ जिहां, पालउ ऊपरि आन्यउ तिहां, २६७
 सीगणिगुण तोइइ सुरताण, आलम साह न खाई (न) खाण.
 'रिणमल' तीरइ पूछइ पतिसाह, तुम्हारा साहिब कुण इह मांहि; २६८
 घणउ द्रोह आगइ तिणि कियउ, खाते पीते आकज लीयउ.
 मदि माता हूया जाचंध, पगस्यउ राऊ दिखालइ अधः २६९
 ए मोटउ पृथवीपति राव, भली परि मूम्यउ तिणि ठाई;
 संभरिवाल सरीसउ बली, कोई न हींदू ईणइ कली; ३००
 पतिसाह कुमख्यउ अति घणउ, सइ हाथि आप दियइ खापणउ;
 'विरद' नाल्ह [भाट] बोलइ तिणिठाइ, पतिसाह नइ दीधी द्राहि; ३०१
 बोलइ भाट करइ कइवार, बोलइ विरद अतिहि अपार.
 धन जननी हमीर दे, सरणाइ वि जइ पंजरो सूरु; ३०२

॥ दूहा ॥

तुं आलम अलाह तुं, तूं अलख्ख करतारः
 वाच संभालि न आपणी, उचित आपि खंडकारः ३०३

सिरि सिरि ऊपरि देखिकरि, पूछिउ आलम साहि;	
भाट कहइ जि कुण आदमी, ग हुआ कलि माहि;	३०४
रिणथंभवर जे जलहरी, राई हमीर बइठउ ईस,	
वइजलदे 'जाजउ देवइउ', पूज्यउ साहिब सीस;	३०५
(य)उ बर वीरमदे वली, बधव राय हमीर;	
जु 'महिमासाह' 'गाभरू,' थारा घर का मीर;	३०६
इय चहुयाण 'हमीरदे', सरणाई रखपाल;	
'अलावदीन' तुम आगलइ, मोटउ मूउ भूपाल,	३०७
मान न भेल्यउ आपणउ, नमी न दीधउ केम,	
नाम हुवउ अविचल मही, चढ मूर दुय जाम;	३०८
इन्द्रासणि 'हमीरदे', जोवइ 'नाल्ह' की वाट,	
उचित देई बुलावि नइ, करी समाध्यउ भाट;	३०९
'नाल्ह' कहइ सुरताण नइ, थापणि दइ मुभ आज.	
भाट नइ मुकलावि परहउ, हमीरदे कह राजि.	३१०

॥ चउपई ॥

पातिसाह 'नाल्ह' नइ कहइ, मांगि जि काई थारइ मनि गमइ;	
गढ अरथ देस भंडार, मांगि मांगि म म लाइसि वार;	३११
अरथ गरथ देस भंडार न काम, साथि किंपि न आवइ सामि;	
जइ तूठउ आपइ खूंदकार, द्रोहांति नइ परहा मारि;	३१२

३० ५इस, ३०८ थई, ३०९ हमीरदे, ३११ म > म म, ३१२ साथी न,

स्वामीद्रोह करइ मित्रद्रोह, विश्वासघात करइ नर सोई;	.
थापणि राखइ प्रकासइ गुफ, सो नर मारीजइ अबूम;	३१३
जे हुता मोटा परधान, बूँदी सरिखा भोगवता भ्राम;	
सडं हथि बीड़उ लहता बेउ, पगस्यउ राव दिखाल्यउ तेउ,	३१४
बाण्या हाथि हुंता कोठार, राय हमीर न लहतउ सार,	
दास किराड़ कूड कीयउ घणउ, धान नाखिउ कोठारा तणउ,	३१५
रणमल, रायपाल, बाण्या तणी, खाल कढाइ अगुठा थकी,	
भाट समाध्यउ गाढउ होई, कलि मांहे पाप करइ नवि कोई;	३१६
जइ तूठउ (तउ) आपइ तउ आपि, भाट नइ बलि छइ निरबाप,	
पातिसाह बिमासइ आप, रिणमल रिउपाल माख्या नहीं को पाप,	३१७
जयइर लहता एता प्रास, तीया मांहि कुण कीधा काम,	
पातिसाह दीधउ फुरमाण, खाल कढावउ त्रिहु नी तिणि ठाम,	३१८
पापी नइ आपडीयउ पाप, कीधउ समाध्यो गाढउ भाट,	
पातिसाह उसकल हूवउ, हणी भाट सुरगापुरि गयउ;	३१९
रजपूता ने दीधा दाध, घोर घलाव्या (बेऊ) मीर अदाध,	
गंगामाहि प्रवाहउ राइ, घणउ भलउ कीधउ पतिसाहि,	३२०
धनुपीता चहुयाण तणउ, मात्र पख्य उजाल्यउ घणउ,	
धनु धनु जीवी राय हमीर, जिणि सरणाई राख्या बे मीर;	३२१
मोटउ मीर महिम्मासाह, जीह पूठि आव्यउ पतिसाह;	
जाजा वीरमदे रा नाम, जग ऊपरि हुवा तिहरा नाम,	३२२

भाट घणउ सनमान्यउ ताम, स्वामि काज कीघउ अभिराम ;
 वयर वाल्यो हमीरदे तणउ, कलि माहि नाम राख्यउ आपणउ; ३२३
 रामोयण महाभारथ जिसउ, हम्मीरायण तीजउ तिसउ,
 पढइ गुणइ संभलइ पुराण, तिया पुरषां हुइ गंग सनान; ३२४

दूहा गाहा वस्त चऊपई, तिनिसइ इकवीसा हुई,
 पनरह सइ अठतीसइ सही, काती सुदि सातम सोम दिनि कही; ३२५

सकल लोक राजा रंजनी, कलिजुगि कथा नबी नीपनी;
 भणता दुख दालिद सहु टलइ, 'भाडउ' कहइ मो अफलां फलइ ३२६

संवन्—१६३६, वरपे भादवा वदि १० रविवारे
 लिखितं विजकीरति मलधार गच्छे ।

॥ राय हमीरदे चौपई पूरी छै ॥

परिशिष्ट (१)
प्राकृत-पँगलम् में हम्मीर सम्बन्धी पद्य

[१]

गाहिणी :—

मु चहि सुन्दरि पाअं अप्पहि हसिऊण सुमुहि खग्ग मे ।
कप्पिअ मेच्छशरीरं पन्छइ वअणाइं तुम्ह धुअ हम्मीरो ॥ ७१ ॥

रण यात्रा के लिए उद्यत हम्मीर अपनी पत्नी से कह रहा है —
हे सुन्दरि, पाव छोड़ दो, हे सुमुखि हसकर मेरे लिए (मुझे)
खङ्ग दो । म्लेच्छों के शरीर को काटकर हम्मीर निःसन्देह तुम्हारे
मुख के दर्शन करेगा ।

[२]

रोला :—

पअभरू दरमरू धरणि तरणिरह धुल्लिअ भंपिअ,
कमठ पिट्ट टरपरिअ मेरू मंदर सिर कंपिअ ।
कोह चलिअ हम्मीर वीर गअज्जह संजुत्तो,
किअउ कट्ट हाकठ मुच्छि मेच्छह के पुत्ते ॥ ८२ ॥

पृथ्वी (सेना के) पैर के बोझ से दबा (दल) दी गई; सूर्य
का रथ धूल से ढंका (भंप) गया; कमठ की पीठ तड़क गई, सुमेरू
तथा मंदराचल की चोटियां कांप उठीं । वीर हम्मीर हाथियों की

सेना से सुसज्जित (संयुक्त) होकर क्रोध से [रणयात्रा के लिए] चल पड़ा। म्लेच्छों के पुत्रों ने बड़े कष्ट के साथ हाहाकार किया तथा वे मूर्छित हो गये।

[३]

छप्पय :—

पिंधउ दिढ सण्णाह वाह उप्पर पक्खर दइ ।

बंधु समदि रण धसउ सामि हम्मीर वअण लइ ॥

उड्डुउ णहपह भमउ खग्ग रिउ सीसहि म्फल्लउ ।

पक्खर पक्खर ढल्लि पल्लि पव्वअ अप्फालउ ॥

हम्मीर कज्जु जज्जल भणह कोहाणल मह मइ जलउ ।

सुलताण सीस करवाल दइ तज्जि कलेवर दिअ चलउ ॥१०६॥

वाहनों के ऊपर पक्खर देकर (डालकर) मैं दृढ़ सन्नाह पहनू, स्वामी हम्मीर के वचनों को लेकर बांधवों से भेंटकर युद्ध में धसू ; आकाश में उड़कर घूमूं, शत्रु के सिर पर तलवार जड़ दू ; हम्मीर के लिये मैं क्रोधाग्नि में जल रहा हूँ। सुलतान के सिरपर तलवार मारकर अपने शरीर को छोड़कर मैं स्वर्ग जाऊँ।

१ :—यह पद्य आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के मतानुसार शार्ङ्गधर के 'हम्मीर रासो' का है, जो अनुपलब्ध है। राहुलजी इसे किसी जज्जल कवि को कविला मानते हैं। पर वास्तव में स्वामीभक्त जाजा और जज्जल एक ही मालूम देता है, जिसकी उक्ति का कवि ने दर्शन किया है। देखिये :—हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ २५, हिन्दी काव्य धारा पृष्ठ ४५२।

(४)

कुंडलिया :—

ढाल्ला मारिअ ढिल्लि महं मुच्छिअ मेच्छ सरीर ।
 पुर जज्जल्ला मंतिवर चलिअ वीर हम्मीर ॥
 चालिअ वीर हम्मीर पाअभर मेइणि कंपइ ।
 दिग मग णह अंधार धूलि सूरह रह मंपइ ।
 दिग मग णह अंधार आण खुरसाणक आल्ला ।
 दरमरि दमसि विपक्ख मारु, ढिल्ली महं ढाल्ला ॥ १४७ ॥

दिल्ली में (जाकर) वीर हमीर ने रणदुंदुभि (युद्ध का ढोल) बजाया, जिसे सुनकर म्लेच्छों के शरीर मूर्च्छित हो गये । जज्जल मन्त्रिबर को औगे (कर) वीर हम्मीर विजय के लिये चला । उसके चलने पर (सेना के) पैर के बोझ से पृथ्वी काँपने लगी । (काँपती है), दिशाओं के मार्ग में, आकाश में अंधेरा हो गया धूल ने सूर्य के रथ को ढंक दिया । दिशाओं में, आकाश में अंधेरा हो गया तथा खुरासान देश के ओल्ला लोग (पकड़ कर) ले आये गये । हे हम्मीर, तुम विपक्ष का दल मल कर दमन करते हो; तुम्हारा ढोल दिल्ली में बजाया गया ।

[५]

भंजिअ मलअ चोलवइ णिपलिअ गंजिअ गुज्जरा,
 मालवराअ मलअगिरि लुक्किअ परिहरि कुंजरा ।

खुरासाण खुहिअ रण मह लघिअ मुहिअ साअरा ;

हम्मीर चलिअ हारव पलिअ रिउगणह काअरा ॥ १५१ ॥

मलय का राजा भग गया, चोलपति (युद्धस्थल से) लौट गया, गुर्जरोँ का मान मर्दन हो गया , मालवराज हाथियों को छोड़कर मलयगिरि में जा छिपा । खुरासाण (यवन राजा) क्षुब्ध होकर युद्ध में मूर्च्छित हो गया तथा समुद्र को लांघ गया (समुद्र के पार भाग गया) । हम्मीर के (युद्ध यात्रा के लिये) चलने पर कातर शत्रुओं में हाहाकार होने लगा ।

[६]

लीलावती :—

घर लग्गइ अग्गि जलइ धह धह कइ दिग मग णह पह अणल भरे,
सब दीस पसरि पाइक्क लुलइ धणि थणहर जहण दिआव करे ।
भअ लुक्किअ थक्किअ वइरि तरुणि जण भइरव भेरिअ सह पले,
महिलाट्टइ पट्टइ रिउसिर टुट्टइ जक्खण वीर हमीर चले ॥ १६० ॥

जिस समय वीर हमीर युद्ध यात्रा के लिये रवाना हुआ है (चला है) उस समय (शत्रु राजाओं के) घरों में आग लग गई है, वह धू—धू करके जलती है तथा दिशाओं का मार्ग और आकाशपथ आग से भर गया है , उसकी पदाति सेना सब ओर फैल गई है तथा उसके डर से भगती (लोटती) धनियों (रिपु रमणियों - धन्याओं) का स्तनभार जघन को टुकड़े - टुकड़े कर रहे हैं; बैरियों की तरुणियाँ भय से [वन में घूमती] थक कर छिप गई हैं; भेरी का

भैरव शब्द (सुनाई) पड़ रहा है, (शत्रु राजा भी) पृथ्वी पर गिरते हैं, सिर को पीटते हैं तथा उनके सिर टूट रहे हैं ।

[७]

जलहरण :—

खुर खुर खुदि खुदि महि घघर रव,
कलइ णणगिदि करि तुरअ चले,
टटटगिदि पलइ टपु धसइ धरणि ।
धर चकमक कर बहु दिसि चमले ॥
चलु दमकि - दमकि दलु चल पइकबलु,
घुलकि - घुलकि करिवर ललिआ ,
मणुसअल करइ विपख हिअअ ।
सल हमिर वीर जब रण चलिआ ॥२०४॥

जब वीर हमीर रण की ओर चला, तो खुरों से पृथ्वी को खोद-खोद कर ण ण ण इस प्रकार शब्द करते, घघरघरव करके घोड़े चल पड़े; ट ट ट इस प्रकार शब्द करती घोड़ों की टापें पृथ्वी पर गिरती हैं, उसके आघात से पृथ्वी धंसती है, तथा घोड़ों के चक्कर बहुतसी दिशाओं में चकमक करते हैं । [जाज्वल्यमान हो रहे हैं], सेना दमक-दमक कर चल रही है, पैदल [चल रहे हैं], घुलक-घुलक करते, (भूमते) हाथी हिल रहे हैं, (चल रहे हैं), वीर हमीर जो श्रेष्ठ मनुष्यों में हैं, विपक्षों के हृदय में शल्य चुभो रहा है (पीड़ा उत्पन्न कर रहा है) ।

[८]

वर्णवृतम् :—

जहा भूत वेताल णच्छत गावंत खाए कबधा,
सिआ फारफकारहक्का रवंता फुले कण्णरंधा ;
कआ टुट्टु फूट्टेइ मंधा कबंधा णचंता हसंता ।
तहा वीर हमीर संगाम मज्जे तुलंता जुमंता ॥ १८३ ॥

जहां भूत वेताल नाचते हैं , गाते हैं, कबंधों को खाते हैं, शृगालियाँ अत्यधिक शब्द करती चिल्लाती हैं, तथा उनके चिल्लाने से कानों के छिद्र फटने लगते हैं , काया टूटती है, मस्तक फूटते हैं कबंध नाचते हैं और हँसते हैं,—वहां वीर हम्मीर संग्राम में तेजी से युद्ध करते हैं ।

परिशिष्ट (२)

-: कवित्त :-

रिणथंभोर रै राणै हमीर हठालै रा

[१]

कीधा गुनह अपार, छोड दिल्ली तै आए
मे छीना नवलाख, साह मारण फुरमाण
बुरक बसै तै पोल, दंड तहा हिंदू दखै
ओथ न करो समरत्थ, मूक सरणागत रखै
ऊगवण सूर विच आथवण, सुणो राव सासी भयो
महिमा मुगल इम उच्चरै, हू तो सरणै आवीयो ।

[२]

जां लग गढ रिणथभ, जाम जामो वड गूजर
जाम बंधव वीरम्म, ताम वलि रखा असमर
मोमूसाह मुगल, आव मो सरण पयट्टो
दल मेले पतिसाह दुगम रिणथंभरि दिट्टो
बह दाम दियां सिर ऊचरां, मांगै साह स दियां मुक
हमीर कहै मूगल सुणो, ताम न अप्पां काढ तुक

[३]

मांगै आलम साह कुंबरि बीमाह दिरीजै
 धारू वारू पात सु पण महिमान करीजै
 तेरै कोडि दरब दियो असी तोखारह
 आठ हसत अप्पिहो, पाण रखो अणपारह
 सगि काय केल पकी अछै, रिणथंभरि गढ़ राज करि
 कवि मल्ल हमीर सरिसो कहै, तूं कांय मरै पतंग परि

[४]

मूक देह गंजणो साह हुसेन न आऊं
 दे बंधव अलीखान करै वसि घास कटाऊं
 बोलण सहित सनेह एह वेनती कीजै
 मांगै राण हमीर नार मरहठी दीजै
 पतिसाह पच अबरा मिलौ, सेव देव मनहुं सबै
 सुरतान हुवै सँभर घणी, तौ हूँ दिल्ली चकवै

[५]

दस लख अस पखरेत, तूक घर लख स मूकै
 पंच लाख पायक साह सूं किण पर जूकै
 चवदसै मैमंत तूक घर आठ स गैमर
 हो हमीर चकवै किसा अँ आडा डंबर
 'कवि माल' पर्यपै बांह बल सायर...त घत डुब्बही
 सुरताण सीचाणां तुम चिडा, कहि हमीर किथ उडुही

[६]

अरक गयण नह उगै, साह जो सीस नबाऊं
 हरिहर बंब बीसरै सुकर जो डड सहाऊं
 दीयण धीह जब दखूं, तबह जाय जीह तड़क्के
 चंद मूं
 साह मोमू पणि मूं सरणि
 न मिलूं आय पतिसाह नूं मो मिलियां डूबै धरणि

[७]

दोय राह दरगाह रहै पतिसाह हुकम्मै
 सात दीप देसोत डंड भालै सिर नम्मै
 चूको सरै अपार वार अहकारे बगो
 नरबै कुणनरपति जिको तिण पाय न लगौ
 अलावदीन जग दम्मणो, किसा हमीर डंबर करै
 कमण काट डूंगर कमण उठै जाय घट ऊवरै

[८]

देवागिर म म जाण, नहीं ओ जादव नरबै
 चत्रकोट म म जाण, करन चालक न होवै
 गुजरात हि म म जाण, कोडि कूडै करिप्रहियो
 मडोवरि म म जाण, हेलि मातहि वीप्रहियो
 अलावदीन हमीर हुं खित किमाड़ आडो खरो
 रिणथंभगढ रोहीजतै, पाईस अबै पटंतरौ

[६]

मिलै^१ रिणमल कागले सुतो पतिसाह सरसू^२
 बलै^३ मिलै^४ वीरम्म भेद आपवै^५ घरसू^६
 छाहडदे छतिपति हुवो तोसू^७ अमेलो
 प्रीथीराज परबाण कियो, पतिसाहां भेलो
 की रंढ करै कवि 'मल्ल' कहै जुध्ध भरोसो जांहसू^८
 हमीर भीच थारा हयै सो मिलिया पतिसाह सुं

[१०]

मिलो पीथल थिर चित्तो परतापसी पण मिलो

 लोप कुलवटची लजा
 चंद सुर पण मिलो मिलो के ठाकुर दूजा,
 करतार मिलो बेध्या मिलो इद मिलै^१ बलि को बियो
 अलावदीन हूं न मिलूं कदि कदि मर हैमर हियो

[११]

खडि तिलग खडि बंग खडै^१ खखो खखराणह
 खडै^२ दोरसामंद खडै^३ थट्टो मुलताणह
 खडै^४ गोड़ गज्जणौ देस पूरव तै आवै
 चोहवाण चक्कवे मेछ दिम सीस न नावै
 सुरताण खडै^५ दिह्ली सहित अलावदीन अंबर अंडै
 हमीर राण बिकसै^६ हसै^७ तिकर जाण तंडव पडै

[१२]

रंग पेखै ह्मीर पात नाचै राय अंगण
 ज्यु ज्यु पै रणभणै, साह अतराज हुवै सुण
 कीष माफ तकसीर दीध ले बीड़ो सूकर
 हैवगा पखरेत ताम कोतक जोवै नर
 भुज ग्रहै बाण अगरोस भरि उभौकोसा अंबरि अड़ै
 आहणी उडाणै संघ सूं ताल देत खड़हड़ पड़ हड़ै

[१३]

जब धारू धर पड़ीय राव पेखणो स भगो
 छभा सोह ओदकी राव चमम को स लगो
 तब थूको तंबोल राव भोजन न किधो
 मोमूसाह मुगल्ल कोप करि बीड़ो लिधो
 कोमंड ग्रहे सर पाण करि गढ़ ओ द्रायण गड़ड़ियो
 सांकियो साह अलावदीन छत्र छेद धरती पड़ो

[१४]

एक नाल करि फलै माणस रै मेली
 आठ लाख ओखदी भेलै करि चूरण भेली
 भैसा पाच हजार दिठ कर आहुत दिधी
 सांमेरी कथ नालि कोप कर पूजा किधी
 अलावदीन एम उबरै जो यह मीर जिन हत्थियो
 छूंटत नाल देवंगमे अरध थंभ छेदह कियो

[१५]

जैसा कुञ्जर रवद मोड मां मांगकह मंडै,
 जैसो कुल कुंजर रवद एक एको नह छंडै;
 जैसो सीस सिर नमो सीस ते छत्र परगो,
 अवर राव राईयां मांहि तां मोटो दिग्गे;
 हमीर राण गाढो क्रिपण दिये न दी जिम देवगिरि।
 पाथर वढति घासंति किरि पडै टाल सुरताण सिरि।

॥ अथ दूहा ॥

रजह पलट्टै दिन बलै, दिनह पलट्टै जांहि;
 वड्डां मिनखां बोलियाँ, वचन पलट्टै नांहि ॥१॥
 तू परदेसी पांहणो, जाजा मुणिरि जाह;
 गढि गरवातन ऊतरै, (ते) गढ करसां गजगाह ॥२॥
 जो जायो तंसै जणै, जाजो कहै सु जाहि,
 रिणथंभ नू रूडौ करै, अत्रि देसा गढिसांहि ॥३॥

॥ कवित्त ॥

[१६]

ऊंचो गाऊ एक ताह हमीर भरहरियो,
 कणै थंभ ओपियो चंद तारां परवरियो;
 सामध्रम निज ध्रम ध्रम हिंदुवो सभारै,
 करण नाम मनि करै जीह श्रीराम संभारै;
 हमीर छभा प्रणांस करि अवर जायरे खग अडै,
 अलावदीन दल ऊपरी पतंग जाण जाम्को पडै।

[१७]

समै सेन सूरमां छणै रज अबर छायो,
 धोरी धर धसमसै सेस पयाल न मायो;
 गोरी दल गहमह मिलै अमंगल मेछां दल,
 सुर रथ संबाहि रहे अचरज्ज अणंकल;
 ह्मीर चाडि रिणथंभ छलि मुत वैजल असमर कसै ।
 जाफो जडाग तोडै तुरक हइहइ तिम संकर हसै ॥

[१६]

असि असंख असमर असंख संख सीतल न क्यौ जल,
 अनि अनत भइ भागवंत जिसा जैसिंघ अणंकल ;
 रहेसि धेन वन धिसेह विधियां सूरतण,
 जांभुवंत जुहवत मच्छ कवि ओछ महा घण,

बह दीह पयंपै लाछि बह सपड़ो.....

[१६]

करै कोट जुहार सार गहीयां साऊजल,
 कीध मुख हलकार वहै वपधार बीजूजल,
 मिलै लोह सूरमां हुषा भाइ लथो बत्थां
 बाह हथ वाखाण जिसी भारथ पारत्था ;
 जे चग तणो चंद नाम जड़ि साका बंध सधीर रे ।
 पड खेत मीर लेखै पखा रहे हाथ ह्मीररे ॥

[२०]

छमीछर अगणमै मास सांमण तिथ पांचम,
 थावरह कार सुर भइ चढै तुरंगम;

छूटै तीर पनाग मारि मन कलह न रखै,
 चहवाण भूझ गह भरै सोह सूरतन देखै;
 रिणमल मिलै दलय घटै सुकर थंभ ओरस घटै ।
 चिख चिख लोह जाभो चडै पडै राव गढ पालटै ॥

[२१]

वरिस दुवादस समर मंडै हिदुवां मूगलां,
 वहै रूधिर बाहला ढलै नर कुंजर ढला;
 पूगी आस पलचरां हंस ले चली अपच्छर,
 हार करण कज होस सीस ले वलियो संकर;
 हमीर सरग दिस हल्लियो कलि ऊपर नामो करै ।

इग्यार लाख अलावदीन तैमे एक लाख दल ऊबरै ॥

सवन् १७६८, मिती आसाढ वदि १२ लिखतू मूधड़ा राजरूप
 देन्ना गोक मध्ये ।

॥ इति हमीरा कवित्त ॥

परिशिष्ट (३)

मेथिल कवि पंडित श्रीविद्यापति ठाकुर रचित “पुरुष परीक्षा”

के अन्तर्गत

श्री दयावीर कथा

—:❀,—

दयालुः पुरुषः श्रेष्ठः सर्वजन्तूपकारकः ।

तुस्य कीर्त्तन मात्रेण कल्याणमुपपद्यते ॥१॥

अस्ति कालिन्दी तीरे योगिनीपुरं नाम नगरम् । तत्र च निज-
भुजविजित निखिल भूमण्डलः सकला राति प्रलय धूमकेतुरनेक करि
तुरग पदाति समेतः संकलित जनपदो निर्जित विपक्ष नरपति
सीमन्तिनी सहस्रनयन जल कल्पिता पार पारावरो रक्षित दीनो-
ऽदीनो नाम यवन राजो बभूव । स चैकदा केनापि निमेत्तेन महिम-
साहि नाम्ने सेनान्ये चुकोप । स च सेनानीस्तं प्रभुं प्रकुपित प्राण
ग्राहकश्च ज्ञात्वा चिन्तयामास । सामर्थो राजा विश्वसनीयो
न भवति । तदिदानीं यावदनिरुद्धोऽस्मि तावन् क्वापिगत्वा
निज प्राणरक्षां करोमीति परामृश्य सपरिवारः पलायितः । पलाय-
मानोऽप्यचिन्तयन् । सपरिवारस्य दूरगमन मशक्यं परिवारं परि-
त्यज्य पलायन मपि नोचितम् । यतः :-

जीवनार्थं कुलं त्यक्त्वा, योऽति दूरतरं व्रजेत् ।

लोकान्तर गतस्येव , किं तस्य जीवितेन वै ॥२॥

तदिहैव दयावीरं हम्मीरदेवं समाश्रित्य तिष्ठामीति परामृश्य स यवनो महिमसाहि हम्मीरदेव मुपागम्याह । महिमसाहिरुवाच । देव, विनाऽपराधं हन्तुमुद्यतस्य स्वामिनस्त्रासेनाहं त्वां शरणमागतोऽस्मि । यदि मां रक्षितुं शक्नोषि तर्हि विश्वासं देहि । न चेदितोऽप्यन्यत्र गच्छामि । राजोवाच । मम शरणागतं त्वां यमोऽप मयि जीवति पराभवितुं न शक्नोति । तदभय तिष्ठ । ततस्तस्य राज्ञो वचनेन स यवनस्तस्मिन् रणस्तम्भनास्मि दुर्गे निश्शकमुवास । क्रमेण तमदीनराजमन्त्रावस्थितं विदित्वा परम सामर्षः करि तुरग पदातिपदाघातैर्धरित्री चालयन् कोलाहलैर्दिशो मुखरयन् कियद्भिरपि वासरैर्लघित वर्न्मादुर्गद्वार मागत्य शरासारैः प्रलय घनवर्षं दर्शयामास । हम्मीरदेवोऽपि परिखा गम्भीर चतुर्मुखलं कुन्तदन्तुरित प्राकार शेखरं पताका प्रबोधित द्वारश्रियं दुर्गं कृत्वा ज्याघात कर्णकटुकैर्बाणैर्गगन मन्धीकृतवान् । प्रथम युद्धान्तरं अदीनराजेन हम्मीरदेवमप्रति दूतः प्रहितः । दूत उवाच । राजन् हम्मीरदेव, श्रीमान् अदीनराजस्त्वामादिशति यन्ममापथ्य कारिणं महिमसाहिं परित्यज्य देहि । यद्येनं न ददासि तदा श्वस्तने प्रभाते तव दुर्गं खुराघातैश्चूर्णवशेषं कृत्वामहिमसाहिना सह त्वामन्तक पुरं नेष्यामि । हम्मीरदेव उवाच । रे दूत, त्वमवध्योऽसि ततः किं करवाणि । अस्योत्तरं तव स्वामिने खङ्गधाराभिरेव दास्यामि न वचोभिः । ममशरणमागतं यमोऽपि वीक्षितुं न शक्नोति किम्पुनरदीन

राजः । ततोनिर्भिस्सते दूते गते सति अदीनराजो युद्धसम्बद्धरोषो बभूव ।
 एवमुभयोरपि बलयोर्युद्धे प्रवर्तमाने त्रीणि वर्षाणि यावन् प्रत्यहं
 सम्मृखाः पराङ्मुखा प्रहारिणः पराभूताः हन्तारो हताश्च परस्परं
 योधा बभूवुः । पश्चादद्वावशिष्ट सुभटे अदीन सैन्ये दुर्गे प्रहीतु-
 मशक्ये च अदीनराजः परावृत्य निजनगर गमनाकाङ्क्षी बभूव ।
 तंच भग्नोद्यम दृष्ट्वा रायमल्ल रामपाल नामानौ हस्मीरदेवस्य
 द्वौ सचिवौ दुष्टावदीन राजमागत्य मिलितौ । तावूचतुः । अदीन-
 राज, भवता क्वापि न गन्तव्यम् । दुर्गे दुर्भिक्ष मापतितम् । आवा
 दुर्गस्य मर्मज्ञौ श्वः परश्वो वा दुर्गं ग्राहियिष्यावः । ततस्तौ दुष्ट
 सचिवौ पुरस्कृत्य अदीनराजेन दुर्गद्वाराण्यवरुद्धानि । तथा संकट
 दृष्ट्वा हस्मीरदेवः स्वसैनिकान् प्रत्युवाच । रे रे जाजमदेक
 प्रभृतयो योधाः, परिमितबलोऽप्यहं शरणागत करुणया प्रवृद्ध
 बलेनाप्य दीनराजेन समं यात्स्यामि । एतच्च नीतिविदामसम्मतं
 कर्म । तता यूयं सर्वे दुर्गाद् बहिर्भूय स्थानान्तरं गच्छत । ते ऊचुः ।
 देव, भवान्निरपराधो राजा शरणागतस्य करुणया संग्रामे मरण
 मंगीकुरुते । वयं भवदाजीव्यभुजः कथमिदानीं भवन्तं स्वामिनं
 परित्यज्य कापुरुषत्व मनुसराम । किंच श्वस्तनप्रभाते देवस्य शत्रुं
 हत्वा प्रभोर्मनोरथ साधयिष्यामः । यवनस्त्वयं वराकः प्रहीयताम् ।
 तेन रक्षणीय रक्षा संभवति यतस्तदूरक्षानिमित्तकोऽयमारम्भः ।
 यवन उवाच । देव किमर्थं ममैकस्य विदेशिनो रक्षार्थं सपुत्र कलत्रं
 स्वकीय राज्यां विनाशयिष्यसि । ततो मां त्यज देहि । राजोवाच ।
 यवन, मामैवं ब्रूहि । किंच यदि किञ्चिन्मन्यसे निर्भयस्थानं तदा

त्वां प्रापयामि । यवन उवाच । राजन् , मामैवंब्रूहि । सर्वेभ्यः प्रथमं मयैव विपक्षशिरसि खड्गप्रहारः कर्त्तव्यः । राजोवाच स्त्रियः परं बहिः क्रियन्ताम् । स्त्रिय ऊचुः । कथं स्वामी शरणागत-रक्षणार्थं संग्राम मंगीकृत्य स्वर्गयात्रा महोत्सवे प्रवृत्तोऽस्मान् बहिः कर्त्तुमिच्छति । कथं प्राणपतेर्विना भूतले स्थास्यामः । यतः—

मा जीवन्तु स्त्रियोऽनाथा, वृक्षेण च विना लताः ।

माध्वीनां जगतिप्राणाः पतिप्राणानुगामिनः ॥३॥

ततो वयमेव वीरस्त्री जनोचितं हुताशन प्रवेश माचरिष्यामः ।

एवम् ;—

भटैः रंगीकृतं युद्धं, स्त्रीभिरिष्टो हुताशनः ।

राज्ञो हस्मीरदेवस्य, परार्थं जीवमुज्झतः ॥ ४ ॥

ततः प्रभाते युद्धे वर्त्तमाने हस्मीरदेव स्तुरगारूढः कृत सन्नाहो निज सुभट सार्थ सहितः पराक्रमं कुर्वाणो दुर्गान्निस्तृत्य खड्गधारा-प्रहारं विपक्षवाजिनः पातयन् कुञ्जरान् घातयन् रथान् निपातयन् कबधान् नर्त्तयन् रुधिरधारा प्रवाहेणमेदिनीमलंकुर्वन् शरशक-लित सर्वाङ्गस्तुरगप्रुष्टे त्यक्तप्राणः सन्मुक्तः ; संग्रामभूमौ निपपात सूर्यामण्डल भेदी च बभूव । तथाहि :—

ते प्रसादा निरुपमगुणास्ताः प्रसन्नास्तरुण्यो,

राज्यं तत्र द्रविण बहुलं ते गजास्ते तुरङ्गाः ।

त्यक्तुं यन्न प्रभवति नरः किञ्चिदेकं परार्थं,

सर्वं त्यक्त्वा समिति पतितो हन्त हस्मीरदेवः ॥५॥

॥ इति पुरुषपरीक्षायां दयावीर कथा ॥

॥ श्री दयावीर कथा ॥

—*::*—

(हिन्दी)

कालिन्दी [यमुना] के किनारे योगिनीपुर नामक नगर है। वहां अपने बाहुबल से सारे भूमण्डल को जीतने वाला, शत्रुओं के लिये प्रलय के धूमकेतु के समान, अनेक हाथी, घोड़ें तथा पैदल सेना वाला, सभी प्रतिपक्षी राजाओं की रमणियों के नयनों में अश्रु समुद्र लहरा देनेवाला, दीनों का रक्षक अदीन नामक यवनराज हुआ। एक बार किसी कारणवश वह अपने एक सेनानी महिमसाह पर क्रुद्ध हो गया। सेनानी ने बादशाह को क्रुद्ध तथा प्राणों का ग्राहक जान विचार किया, कि “क्रोधी राजा का विश्वास न करना चाहिये।” अतः जबतक मैं स्वतंत्र हूँ (गिरफ्तार न कर लिया जाऊँ) तब तक कहीं जाकर अपनी प्राणरक्षा करनी चाहिये। यह विचार वह सपरिवार भाग गया। भागते भागते उसने सोचा, कि परिवार के साथ मैं बहुत दूर तो नहीं निकल सकूंगा और परिवारको छोड़कर भागा भी नहीं जासकता क्योंकि—अपने ही जीवन के लिये कुल को छोड़ जो बहुत दूर चला जाता है, उसके जीवन का उपयोग ही क्या ?” सो यहीं दयावीर श्री हम्मीरदेव की शरण में जाना चाहिये। यों विचार वह यवन महिमसाहि हम्मीरदेव के पास जाकर बोला—देव, विना अपराध

ही मेरा स्वामी मुझे मार डालने को उद्यत है। अतः मैं तुम्हारा शरणागत हुआ हूँ। यदि आप मेरी रक्षा कर सकें तो विश्वास दान दें। अन्यथा कहीं और जाऊंगा।” राजा बोला—मेरे शरणागत को स्वयं यम भी पराभूत नहीं कर सकता, तुम निर्भय होकर ठहरो। राजा के अभय दान से विश्वस्त वह यवन रण-थम्भोर किले में निश्चिन्त होकर रहने लगा।

जब अदीन राज को इसका पता चला तो क्रोधपूर्वक हाथी, घोड़े और पैदलों की एक विशाल सेना लेकर, जिससे धरती हिल उठे और दिशायेँ कांप उठे, रास्ता तय करता रणथम्भोर आ पहुँचा और भयंकर धावा बोल दिया। हम्मीर ने किले की खाई और गहरी कर, बुजों को शस्त्र सज्जित और द्वारों को सुरक्षित कर बाण वर्षा से धावे का उत्तर दिया। एक मुठभेड़ के बाद अदीन राज ने हम्मीर के पास दूत भेजा। दूत ने जाकर कहा—राजन, श्रीमान् अदीनराज तुम्हें आदेश देते हैं कि मेरे अनिष्टकारी महिमसाहि को छोड़ मुझे सौंप दो। अन्यथा कल प्रातः ही तुम्हारे किले को मिट्टी में मिलाकर तुम्हें महीमसाह के साथ ही यमपुरी पहुँचा दूंगा।” हम्मीर ने उत्तर दिया—दूत, क्या करूँ, तुम अवध्य हो। इसका उत्तर तो तुम्हारे स्वामी को वाणी से क्या तलवार की धारा से दिया जायगा। मेरे शरणागत को स्वयं यमराज भी देख नहीं सकता, बेचारा अदीनराज है क्या चीज ? दूत के फटकार पाकर आने का कारण अदीनराज क्रोधपूर्वक युद्ध की तैयारी में लगा। इसप्रकार दोनों ओर लगातार तीन वर्ष

तक लड़ाई के चलते रहते हजारों योद्धा हताहत हुए। आधी बची सेना को देख और किले को अजेय देखकर, अदीनराज ने लौटाना चाहा। इसके भग्नमन को देख हम्मीर के दो विश्वासघाती मंत्री रायमल और रामपाल बादशाह से आकर मिले और बोले—बादशाह! कल परसों तक किला हाथ में आजाएगा, क्योंकि किले में अकाल पड़ गया है। ‘आप कहीं न जाएँ!’ अदीनराज ने उन विश्वासघातकों को पुरस्कृत कर किले की नाकेबन्दी कर डाली। इस भीषण संकट को देख हम्मीर अपने सैनिकों को बोला—रे मेरे जाजमदेव आदि योद्धाओं! मेरी शक्ति सीमित है, पर शरणागत की रक्षा के लिए काफी सैन्य शक्ति वाले अदीनराज के साथ लड़ूंगा। भले ही यह नीति के विरुद्ध है। अतः तुम सब लोग किले से निकल अन्य स्थानों पर चले जाओ। वे बोले—राजन्! निरपराध होकर भी आप तो करुणापूर्वक शरणागत की रक्षा के हेतु युद्ध स्वीकार करें और आपकी दी हुई आजीविका खाने वाले हमलोग आपका साथ छोड़ कायर कैसे बनें? हम भी कल आपके शत्रु को मारकर आपकी मनोरथ सिद्धि में सहायक बनेंगे। हां, इस बेचारे यवन को छोड़ दीजिये, ताकि रक्षा के योग्य रक्षा हो सके, क्योंकि उसी की रक्षा के लिये यह सब कुछ किया जा रहा है। यवन महिमसाहि बोला—‘देव, मुझ अकेले और विदेशी के लिए आप अपने परिवार और राज्य को नष्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे जाने दें, राजा बोला—‘ऐसा न कहो। हा, यदि तुम किसी निरापद स्थान पर जाना चाहो तो हम अयश्य पहुंचा देंगे।’ यवन बोला—‘नहीं

देव, यह नहीं हो सकता। सबसे पूर्व शत्रु के भस्तक पर मेरा ही खड्ग प्रहार होगा। राजा ने कहा—किन्तु स्त्रियों को तो बाहर कर देना चाहिये तो स्त्रियों ने उत्तर दिया—स्वामिन, हमारे स्वर्ग-यात्रा महोत्सव में आप बाधा क्यों डालना चाहते हैं? अपने प्राणपति के बिना हम यहां कैसे रह सकती हैं। क्योंकि इस संसार में वृक्षों के बिना लतायें और नाथ के बिना स्त्रीगण कैसे जियें? पतिव्रताओं के प्राण तो पति के प्राण के अनुगामी होते हैं। इस-लिये हम भी जौहर करंगी। यां परोपकार हेतु प्राण विसर्जन करने वाले राजा हम्मीरदेव के मुभट युद्ध में चले गये और स्त्रियों ने जौहर कर डाला।

तब प्रातःकाल युद्ध शुरू होने पर अश्वारोही हम्मीर अपने सैन्य सहित वीरतापूर्वक किले से निकल शत्रुओं पर टूट पड़ा। घोड़ों को गिराता हुआ, हाथियों को मारता हुआ, रथों को तोड़ता तथा कबंधों को नचाता और धरती पर खून की नदी बहाता हुआ हम्मीर युद्ध में घोड़ों की पीठ पर ही वीरगति को पा सूर्यलोक गया।

हा, सर्वस्व छोड़ हम्मीर युद्ध में काम आया। वे महल अनुपम गुणवाले हैं, वे रमणियां प्रसन्न हैं, वह राज्य धनधान्यपूर्ण है, हाथी घोड़ों से भरा है, जिसे मनुष्य शत्रु के लिये नहीं छोड़ देना चाहता।

परिशिष्ट (४)

भाट खेम रचित राजा हम्मीरदे कवित्त

[बात]

राजा हम्मीरदे जैतसीयोत, जैतसी उदैसीयोत रौ ।
चोहवाण गढरिणथंभोर साको कियो तिणरी साख रा
कवित्त भाट खेम कहे .—

मैं क्रिता अन्याव साह मारण फुरमाया ।
मेछै का नवलख, फोरा दिली धर आया ॥
तुरक कसबै प्रोल, डंड हिंदुउपकठा ।
उलुखा अस भए तास बंदै दस वखा ॥
जहं लग उगै अथमै कहो राय कोई सरै ।
मंगोल कहै हंमीर सुनि हम तुम सरणै उगरै ॥१॥
जाम स गढ रणथभ, सीस जब लग धर ऊपर ।
जाम स ह्वै भुज डंड, चलण ह्वै चलु बिचत्तर ॥
जाम जैत वीरम, जाम जाजा वड गुजर ।
जाम स हय गय तुरी, सग नहि करूं अचित्त डर ॥
गरथ देह गढ अप्पिहुं, अब किम मंथौ जाहि मोहि ।
इमीर कहै मंगोल सुमन, ताम न कहु आफि तोहि ॥२॥

[बात]

पतिसाह मोलण वाणीया ऊपर घनै मेलहीयो छै ।

—: कवित्त :-

मोलण कीयौ सलांम, निमट सै सात तुखारा ॥
 चढे पै हिंदु तुरक चड, सब सैभरवारां ।
 इम पूछै रावि हंमीर, कहां तै मोल्हण आया ॥
 पतिसाह दिली नरेस, तुम्ह पास पठाया ।
 उलटा समद जग प्रलै हुय, हंकि राय कोप्पा घणा ।
 रखिब राय रखिब सकै, मै रिणथंभवर बुडाति सुण्या ॥३॥

रे मोलण बसीठ, कांय तूं अणगल भखै ।
 जै धर मारू तो माहि, त तौ कुण सरणै रखे ॥
 जे दिली पतसाहि, त तौ हुं सभर राजा ।
 जाहि फेर चकवै, साहि के लुं सब बाजा ॥
 असवार समेत विगह अरुं, जुम्न कूं समुं हौ भिरुं ।
 कै होय घोर सुरतान की, कै हंमीर जूमवै परुं ॥४॥

दिली आलम साह, कुमर तिस कारण दीजै ।
 धारू वारू पातुर, अवर महिमा जु भणीजै ॥
 लख्व टका किन देहि, देहि किनि लख तुखारां ।
 अष्ट धारू किनि देहि, जियौ चाहै इहा वारां ॥
 जीव विथारै वार है, श्रग कहा पाकी बोर है ।
 मालण कहै हमीर सुनि, मति ह्वै मरै पतंग ह्वै ॥

मोहि देहु गजनौ , साह मो सेवा आवौ ।
 उलखां मो देह , पकर कर घास कटावौ ॥
 नुसरतखां मो देहु, पकर कर बेडीं मेलुं ।
 थटा तिलंग मोहि देह, नार मरहठी खेलुं ॥
 सुनि मोलण कहियो साहि सूं, रामायण भारथ भिरू ।
 कै घोर होय सुरतान की, कै हुं हमीर भूभव परू ॥६॥
 उस नव लख तुखार, तुफ घर एक न पूजै ।
 उस असी श्रहस पायक, साहि सूं कहि किम भूमै ॥
 उस चवदहसै मदगलित, तुफ घर अठै गैवर ।
 सुनि हमीर चकवै, करै क्या मेघाड वर ॥
 मोलन पूछै बांहि दै, सायर थाह न बुडि है ।
 सुरदान सिचांना तू चिरा, कहि हमीर किम उड है ॥७॥

[बात]

यूं कहिनै मोलण पतिसाह आगै जाय हकीकति कही ।

—। कवित्त :—

दे न डंड मानै न सेव, लेनि ढिली नित घावै ।
 ग्रहै मुंछा करवर कसै, राव साम गण न्यावै ॥
 मांगै उलअखान , नार मंगै मरहठी ।
 अरू मंगै गजनौ , रहौ चहुवाण जु हठी ॥
 असवार समेत विग्रह अरै, भुभुन कुं समहौ भसै ।
 गढ़ ऊपर राव हमीरदे, दुलै चंवर हर हर हसै ॥८॥

खिड्यौ गोड गजनौ, खिड्यौ ढिली समानौ ।
 खिड्यौ उच मुलतान , खिड्यौ खोखर खुरसानौ ॥
 खिड्यौ बंग तिलंग , खिड्यौ उवह बंगल देसा ।
 खिड्यौ कछ काबरू, खिड्यौ ईडरउ पदेसा ॥
 इतरो खिड्यौ अलावदी , रणथंभौर मछड अड्यौ ।
 हमीर राउ बिकसै हंसै , तिकर एक तंडौ पड्यौ ॥६॥
 देवगिर म म जान , जान म म जादु नरबै ।
 गुजरात म म जान , कर्ण चालुक न यह है ॥
 मांडोवर म म जान , सु तौ हेला स ग्रहीयौ ।
 चीत्रोड म म जान , सुतौ कूडै कर ग्रहीयौ ॥
 तू अलावदीन हमीर हूं , द्रिड कपाट आडौ खरौ ।
 रणथंभ द्रुग लागंत ही, सु अब जानवौ पटतरौ ॥१०॥
 ठयौ हमीर पेखनौ, तरण नचै राय अंगण ।
 सीम धुनै अलावदीन , आवटै खिण खिण ॥
 पग नेपुरै रूण भुणै , कांन सोब्रन तर कबर ।
 हय गय पख्यर पडिग , चड्यौ चाहै नरबै नर ।
 करि ग्रह कमाण गलि प्रज कर, छत्र बेह समुहौ तरंगि ।
 उडा न सीह पातुर हनिग, तार दत खरहर परिग ॥११॥
 छत्रधार नहि भईय, सार बज्यौ सिर ऊपर ।
 कर ग्रह रहियब डंड, जानि गोरख ध्यान धर ॥
 राव रान भरि हरिग, अमर सुरतान पणठ्यौ ।
 आन तीर बंचयौ, लिख्यौ महिमा सोय दित्यौ ॥
 मन धरब रोस धारू वरै, नही हमीर भोजन वीयौ ।

ता करण असपति राय हो, तीर महम मुकीयौ ॥१२॥
 जुद्ध राम रामनह, जुद्ध बालिह सुग्रीवहि ।
 जुद्ध करन अर्ज्वनह, जुद्ध दुसासन भीमहि ॥
 पुहिमराय सुनि जुद्ध, काल वीती चहुवांनहि ।
 धीर एम कटियहि, छत्र ऊपर सुरतानह ।
 पर हसै एह चित्र धरि अरीयन जिम पडर रयन ।

भगडौ पुरानौ उधडौ अडि नरिंद हमीर सुन ॥१३॥
 जु सिर कनक मणि रयण, मोर माणंकह मुंड्यौ ।
 जु सिर वास कुसमह निवास, छिन इक न छ ड्यौ ॥
 जु सिर सिरांनहि नयब, तास सिर छत्र बयठौ ।
 जु सिर पंच भोआल, माहि उदवंतौ दिठौ ॥
 हमीर राउ गाढौ कृपन, देन राम जिम देउगिर ।
 पाहन वहत घठेब कर, सु परीया चंद सुरतान सिर ॥१४॥

[बात]

जाजौ वड गुजर प्राहुणौ थकौ आयौ हुतौ तिण नूं
 राजा हमीर आपरी बेटी देवलदे परणाई थी । सु
 परण मोड बाधे हिज काम आयो । देवलदे राणी होद
 माहे बुड मुई ॥

॥ दूहा ॥

जाजा तू चाल जाहि, तू परदेसी प्राहुणौ ।
 म्हे रहस्या गढ माहि, गढ जीवता न देबस्यां ॥१॥

जाजौ कहै सु जाय , जे नर जाथा तिहु जाणां ।
माळ परायौ खाय, साई मेल्है सांक्रहै ॥२॥

—: कवित्त :—

मिलौ राणौ रायपाल, मिलौ बाहुड विकसंतौ ।
भोजदेव पिण मिलौ, मिलौ भोज रासू रंतौ ॥
वीरमदे पिण मिलौ, मिलौ वड राउत जाजौ ।
चंद सूर पिण मिलौ हीन नहि भखित राजा ॥
तेतीस कोट ऊवै पिण मिलौ, अवर मिलौ महिपत दियो ।
हमीर कहै ए मत मिलौ स, कर करमरहै मरहिषौ ॥१५॥

॥ दूहा ॥

सिंघ विसन सापुरस वचन, केल फलति इकवार ।
त्रिया तेल हमीर हठ, चडै न दूजी वार ॥१॥

:— कवित्त :—

वायस विकम राव, बुद्धि विन खड्ड वयारह ।
अजुहुं मुंज कराड, रुलै दखिन भंडारह ॥
मंडल कछ भलै, सीह गुजर रै अंगणे ।
गग बुड जैचंद मुओ, भिडीयौ न भयंगम ।
हमीर सरस हमीर किय, कर कंदल रणथंभ छल ॥
असै करै न काहु करहै न कोई सु कोई राव रविचक्रतल ॥१६॥
तेरह से तेपने, माह सुद ग्यार [स] मंगल ।
अलावदीन छत्रपती, लीयै रणथंभ करि कंदल ॥

सुणि मध्यान हमीर, चिन्ता हर चरणै लायै ।
 दरवाजे सत प्रोल, ईस कूं सीस चढायौ ॥
 जैत सुतन जुग जुग अमर, कहै 'खेम' जस निमिल पढ्यौ ।
 खग प्रान भेदव कालकै, सु पातिसाह गढपर चढ्यौ ॥१७॥

संवत् १७०६ रा फागुन सुदि ६ शुक्र गढ रणथंभोर री
 तलहटी भाट सुखानंद ग्यासा लखाउत रा बेटा कानै
 लिखायौ ।

सोलह सै पचीस गिन, नवमी बदि गुरवार ।
 जेठ मास रिणथंभ गढ, लियो अकबरसाह जलाल ॥ १ ॥

॥*॥ समाप्त ॥*॥

हम्मीरायण के :— पाठान्तर

गाथा १२८ से उदयपुर की प्रति प्रारंभ होती है ।

(एक गाथा का अंतर है)

- १२६ मेल्हाणउ दियउ, निसि नी बलि हुउ घोरंधार ।
१३० भउ सहु, अवरिज, लोक तणइ उछव अपार, पुण्य
उपरि तिह कीध अचार ।
१३१ वधावा, देखइ गोयरइ ।
१३२ (हउ) घरि ऊपनउ भलइ चहुआग, रिणथंभउर ऊपनउ
राउ ।
१३३ धरइ, आपइ, समापइ, सिणगारियउ, भलइ, पाहुणउ,
अम्ह तणउ जनम ति आज सुधन्य ।
१३४ रिणथंभउरि, कोसीसे कोसी रे ।
१३५ पउलि, त्रिबक ।
१३६ धरियइ, अरि पइइ पराण, वाजइ दरघू रिण०काहली,
गढि उपरि चालइ ढीकुची ।

उदयपुर की प्रति में १३६ वा छन्द :—

मंत्र समदाया भूकण भली, देव सहु आन्वा जोवा भणी ।

गढि गाढउ कीधउ उछाह, सिणगारयउ रिणथंभउर मांहि ॥१३६

- उदयपुर की प्रति में नं० १३७, १३८, १३९ तीन पद्य नहीं है ।
- १४० आसिस दियइ, जैत्र हुई, खिसउ, तू हमीरदे चहुवाण ।
- १४१ सहुअइ मिली, बधावउ आपणउ, भरी भरी अंखियाण
- १४२ सुलितान, परधाना नइ जुगती जाण ।
- १४३ तेइइ सुलितान, अउ, सांभलि राउल तीरइ जाउ, पूछउ,
- १४४ ंगयउ गढ मांहि, भेटियउ उछाहि, ंकीधउ पाहुणा
पणउ ।
- १४५ जायउ, जैत्र, इतु=तू, रक्ष्या ।
- १४६ निसुणि=इहां ।
- १४७ जे बेऊ तरणि, सडबर, ती ।
- १४८ राव, बारहट नइ, आविस्यइ, विदेसि ।
- १४९ मोल्ह, कही सुणी न ।
- १५० घणा, तोनइ, अधिकउ अइ, मंडान्य, सांभरि तूं केणि ।
- १५१ मोल्ह, हुंत ।
- १५२ जइ इन, होस्यइ ।
- १५३ मोल्ह । वरी, तउं लेइ, अग्नि जो ।
- १५४ तइ ।
- १५५ वोलावियउ, भाट जाइ नइ ।

इसके बाद की गाथा उदयपुर वाली प्रति में नहीं है :—

- १५६ चालुंक न नु हड, गाढिम, जि=करि, हड, रिणथंभ दुग्ग
लमांतयह, हिव लम्भइ पट्टंतरउ ।
- १५७ रिणिथंभउरि हम्मीरदे, केणि ।
- १५८ बेउ, (इम) कहइ राय हम्मीर ।
- १५९ तो सरिखा म्हारइ घणा, सेव करइ निसदीस ।
हूं हमीर कहियइ इसउ, तोइ नमामउं सीस ॥१५६ ॥
- १६० नइ सांचियउ, राय चहुआण, करां ।
- १६१ आगलि, घणउ, तुम्ह=अम्ह, तणउ ।
- १६२ तणउ, न्हाळ ।
- १६३ चौपाई उदयपुर वाली प्रति में नहीं है :—
- १६४ न्हाळ, ज दी, तदि=तिहां
- १६५ छइ, इस दोहेके उत्तरार्द्ध के बदले में उदयपुर की प्रति
में इससे ऊपर वाले दोहे का उत्तरार्द्ध दिया है ।
- १६६से १७३ तक पद्धड़ी छन्द के बदले उदयपुर वाली प्रति
में 'चउपई' लिखा है, तथा पाठान्तर भी अधिक हैं एवं
५ के बदले ४ छंद यहां दिये जाते हैं, उदयपुर की प्रति
में १७२ का पद्यांक नहीं है ।

सिद्धा, बिद्धा यहिमा जाणि, कछवाहा मोरी मंजुआण ।
वारइ बोढाणा अति भूमर; वाला बचोला मित्ता अपार १६२

भाडिया गूडर तुंअर असंख, सुभट अनेरा आया असंख ।
 गुहिलउत गुहिलाणा उराह, पंवार पधाखा अति उखाह ॥१६३
 सोलंकी सीधल अति मडाणि, चदेला चाउड चाहुआण ।
 राठउड मेवाड अनइ कुंभ, छत्रिस कुली मिलि तिणि आरंभ १६४
 हम्मीर राउ हरखियउ अपार, दीठा भलेरा अति भूमार ।
 मंडलीक मउडधा राणो राणि, सहू मिली आव्या तिणि ठाणि॥
 १७१ दिया, ठाह=उखाह, दंडायुध दीया, महिमासाहि
 उताखा ।

१७३ जत्र, राय चहुआण, उखाह=सुजाण ।
 १७४ कोलाहल हूअउ, वियउ दमामउ, लिया, चडियउ ।
 १७५ नइ हुवा=देवइ, तिणि, फिरणा ।
 १७६ पठाण=पाला, गदि चिड़िया धणी स्यउ जुता ।
 १७७ जे, भाखरि=तापरि, हुवा ।
 १७८ लेहु बे लेहुबे करइ अयार ।
 १७९ जिम देखउ ।
 १८० नउ, हुंती, राणि, मंडाणि ।
 १८१—१८२, पद्यांक उदयपुरवाली प्रति में नहीं है ।
 १८३ आलम ऊभो=रिणि ऊपरि ।
 १८४ पड्या हलोल, इसका वृटक चतुर्थ चरण उदयपुर की
 प्रति से पूरा किया गया है ।

- १८५ महुअरी, त्याइ नादि बरी, कइवार न=तेन ।
 १८६ अणीसार, विछूटइ, इम बेबइ ते भिइइ सबीर ।
 १८७ सुभटा नइ, मइगल, अयार, लियइ ।
 १८८ धूणी धरा हइवर, घणा=भला, जणा, हिव अंतर दाखउ
 आपणा ।
 १८९ हुयइ, सार दुहेली धार ।
 १९० ग्रहियउ, वास=ठाम ।
 १९१ जेइत्र हुइ रणथभउर-धणी ।
 १९२ री-नी, खूउ=त्रुटा, इक, मलिक खान=कटक
 मिलि ।
 १९३ प्राणइ, पुरावउ खुंदिकार, तिणि वार ।
 १९४ रिण उपरि जोवइ चढि, मंडाण=विनाण, सउ=साम्हउ
 १९५ कइउ, आव्या, पाडउं=मारउं ।
 १९६ इम, किम भाजसि ।
 १९७ तिणि पाड्या=पाड्या एकणि, चमक्यउ आलम,
 प्राण ।
 १९८ पूरयउ, तिणि वरे, हुउ, नांखउ आवउ
 १९९ सूथणी ।
 २०० मन मांहि ।
 २०१ दुर्ग हिव=सही गढ ।

- २०२ जल बाल्या, स्यउ गई, ठाली थई ।
- २०३ नित पाउळ, हडहडइ, धारू वारू नाचइ पात्र, पूठि
दिखालइ वे वेस्या गात्र ।
- २०४ भल्ला, मारइ=बेऊ, नइ मीर, सोई=तीर ।
- २०५ तिसउ, काकउ=कोई, एज=एरि ।
- २०६ ऊआंरा भलउ, तेऊ=कोइ, तुम्हि=जे ।
- २०७ तो नइ, बेउ, इय=यार, सीगणि ।
- २०८ सीगणि, दइ, खांचइ तिम कुटका हुइ सात, सीगणि ।
- २०९ राउ, तिणि, नाबइ ।
- २१० ०बेमारी पात्र, ०पडिया वे गात्र ।
- २११ ०विग्रह नी सीम हुवा, आवी, कांइ साहिब तइं मांड्यउ
वास (चतुर्थपाद) ।
- २१३ सांभरिवाल, न दइ तो नइ सुरिताण, किमइ पराण,
०मरावइ कारणि कवणि ।
- २१४ त्या नइ ।
- २१५ सवि, देइ=कइइ ।
- २१६ तउं, राउ, पातिसाह ।
- २१७ मोनइं घरि मुकलावइ सही, आयउ पाहुणउ, महत देइ
मोनइं ताजणउ ।

- २१८ गढे, रामचंद्र ।
- २१९ तउ रहियउ रि अभंग, चलावि > बउलाइ ।
- २२० कदे = बली ।
- २२१ विमासी ज्यां, तेड्या राय = मोकल्या, रउपाल देव बे मोकलिया, ठामि ।
- २२२ हउणहार इम जोइ, मनि कूड़ा बेऊ तणा, जोबई ।
- २२४ छइ, अम्ह, बेसाइइ तासु ।
- २२५ अम्ह द्यउ, परधान, घरि मोकलउ देइ बहुमान ।
- २२६ किया, गढ लीधा विणु [किम] जाइसि मियां ।
- २२७ तउ गढ द्यां तुम्ह विण परमाणि, हसी हसी द्यै लिखि फुरमाण ।
- २२८ हम्ह, विचि, [इन दो गाथाओं में २ पद त्रुटक को उदयपुर की प्रति से पूर्ति किया गया है] ।
- २२९ मनि भूला नइ चूका सान. त्यां मूरिख. वीससियइ कीम ।
- २३० ते, आन्यां छ इहां, हरिख्यउ ।
- २३१ पात्तिखाइ तुम्ह कहियउ किसउं, मांगी कूंबरी, मनां थी
- २३२ जाणी, थी ।

- २३३ हमीर=ईह, पिरथउ, रउपाल, करइ > कह ।
- २३४ बोलह, धन नखावि सहुवइ पूरउ हुउ, तो नइ प्रधानउ ।
- २३५ सवि नीचा, रउपाल > नइ मिलिया, निवसी ।
- २३६ परिघाउ, करतां, जिउं तुरकां ।
- २३७ कीयउ, राजा द्रोह मिल्या पतिसाहि ।
- २३८ कोसीसां थी जोवइ ।
- २३९ अणचीतवी हुवइ, दासि देवि कुण कीधी घात, प्रधाने,
ले गया ।
- २४० को, जियारइ, दियइ, वंका, जीतइ जाइ न को ।
- २४१ गाढउ, दिद्ध मइ, देसु, जिस्यइ, करेसु ।
- २४२ मरण नीड़उ वेगउ अछइ, किणही, उबारि ।
- २४३ रइ = नइ ।
- २४४ जे नवि = जेह, नीभागियउ न रेवि, ति, बले.वि ।
- २४५ राय चहुआण, वउलावउं ।
- २४७ पाहुणउ ।
- २४८ तिहुं, पराया खाहि ।
- २४९ जेम = कई ।
- २५० भगतावीउ = ओलग्यउ, महिमा सह हमीर, हुवउ इसउ,
इम बोलइ हमीर [चतुर्थ पाद] ।

- २५१ यह गाथा उदयपुर की प्रति में नहीं है ।
- २५२ दीधइ, तिमकरि; हुउ ति ।
- २५३ हमीर = चहुआण, मीर = पठाण ।
- २५५ राजा, विणठइ वाण्यई दिस्वाड़िया, लेवि ।
- २५६ गाढउ = गेफारउ, रिणमलि कियउ समाधान, अधिक
दुख कोठार दियउ, जउहर, वारि ।
- २५७ तउं, ज्यउं बंस ज्यउं ।
- २५८ तीणइ, टीकउ, दियउ, रिणथंभउरि तुम्हि होज्यो'नाथ ।
- २५९ देज्यो बहुमान, महेसरी = वाणिया, जाति सूरमा
वाधउ कान ।
- २६० सिखामणि, त्यांकी मा साथिइ, जोताव्या घोड़ा,
मुकलाव्या बापइ बे पूत ।
- २६१ मीरां, ०सहु तिणि समइ, मारइ ठाणि ।
- २६२ तोखार, तीणइ, लोके जउहर किया, राबल गनि बल
बोलइ तिया ।
- २६३ जमहर मांड्या बारू भला, बलण ।
- २६४ का > ना, तेउ ।

- २६५ तिहां, उपमा तिहां, चुइला भलकइ निला ।
 २६६ सोवन, रै, कंठि, उर, पाअे, छण मुणकार ।
 २६७ आपणडा उजाइ प्रिया, बे पख उजवालइ ते त्रिया ।
 २६८ अंतेवरि तिसी, राजकुमरि तीसी ।
 २६९ पड़ियउ पलउ, साजति समुदाउ ।
 २७० सोनइं वित, ढोल कमखा = ढोलिया खाट, तंबालू ।
 २७१ गरथइ भरी बलइ ते भली, कूंकू तणी कतीफा जूजा
 पट्टकूल, सउड़ तुलाई ।
 २७२ इकवीस भूमि, हणुमत, प्रजाली, इसउ वीतग वीतउ
 रिणथूभि ।
 २७३ कोइ न उगरियउ तिणि ठाइ, उत्तम, लहउ, ०नउ हुवउ
 सघार ।
 २७४ सघलउ मुकलावउ, पउलि, करइ, ०तुं गढ पूठि ज देइ
 चाहआण गढि बहिला आणेजि ।
 २७५ रा > ना, देउ, कोठारिइ, मोकलाबइ ।
- [उदयपुर की प्रति के पद उलट-पुलट है] ।
- २७६ रहि जोबइ = रहिबउ जाइ, दीसइ > मोटा, बीरमदे
 जाजउ मीर, राखस्यां तउं ।

- २७७ या कुण > बंधव सुणि, ठाइ, हिव जीवी नइ करस्यां कांइ
- २७८ प्राहुणो > देवइउ ।
- २७९ हुअउ, चहुआण, दियइ > हाथि ।
- २८० ऊभट ल्यइ पहु ईस ।
- २८१ हि था, तिहां > जिके ।
- २८२ मांहि, चइइ, जोहार ।
- २८३ बंधव, गहगहियउ, तिणि > यउ ।
- २८५ करी, मीर, बांधव ।
- २८६ भवणिज, पेखेवि ।
- २८७ जिहाकइ, लिखमी ।
- २८८ लेजो लखमी-लाभ, इस्यउ, दे बाला बांह ।
- २८९ राजा, मान, घाल्यावे विन्हइ, इसउ ।
- २९० धसमसइ, म्हारउ ।
- २९१ सहीयउ = हुवउ, नमियउ, पुणि, जउ, धारा मूग उर
सांकल करां ।
- २९२ बेवइ, घणा > बेउं ।
- २९३ सुणउ > नइ, प्राक्रम दिखाइउं, आपहणी जाइस्यारउ
गलउ ।
- २९४ यह दीहा उदयपुर की प्रति में नहीं है ।

- २६५ थारा पीठ खड्यउ हम्मीर, तिहि तीर, सिरि सिरि,
कीयउ = पड्यउ, ईसर ।
- २६६ रा माथा हेठि, जाइ, कुल रखवालउ राख्यउ भाउ ।
- २६७ प्रभात तब मेली ।
- २६८ सुरिताण, खायइ, रणमल, पूछ्यउ पातिसाहि, तुम्हारउ,
इणि ।
- २६९ आगेहि, आया ज्यां बंध, दिखाइइ ।
- ३०० यउ, मूअउ, इणि ठाई, सांभरिवाल, कुण हिंदू होस्यइ
इणि कली ।
- ३०१ तब साहिब, खान नइ कछउ, बांहि ।
- ३०२ श्लोक—भाट करइ कइवारो, बोलइ विरद अप्पारो ।
धन जणणी हम्मीरो, सरणाई विजइ पजरो सूरु २६२
- ३०३ सभारि, उचित्य देइ खुदिकार ।
- ३०४ सिरि ऊपरि देखी करी, पूछइ, कहि न, जो हूअउ ।
- ३०५ जिं, बइठउ, = जउ, बइजल दे = जिणिकुलि ।
- ३०६ इस दोहे के अंतिम ३ चरण और ३०७ वें दोहे का एक
चरण मिलाकर एक दोहा उदयपुर वाली प्रति में कम है ।
- ३०७ मूउ = हुअउ, भुआल ।
- ३०८ केम = कांध, महियलि अबिचल जां लगइ, सूरिज धू
अरु जाम ।
- ३०९ की = नी, करउ समाधउ भाट ।
- ३१० नाल्ह = भाट, दइ मुफ = आपउ, मोकलावि नइ
कइ = रइ ।

- ३११ मनि गमइ = छइ हियइ ।
 ३१२ देस भंडार > गढि घर गाम, स्वामि, तूठइ, द्रोह
 कियउ ते ।
 ३१३ वेसासघातकी जे नर होइ, मारी जइ > नारी जाइ ।
 ३१४ जेहनइ ए हुंता, ग्राम > आस, बीड़ा लेता, राउ
 दिखाइइ ।
 ३१५ राउ, दास किराइ > वाणिजे, नाखिउ > खबाइ ।
 ३१६ रउपाल, थकी > तणी ।
 ३१७ भाट कहइ प्रभु दे निर्बाप, रिणमल रिउपाल > ग्यां,
 नहिं को > नवि कोई ।
 ३१८ जयइर > जेइ, प्रास > मान, त्याह मांहि कीधा ए काम,
 दीयउ, खाल, कढाबडं तीणइ ठामि ।
 ३१९ आवडिया आप, कियउ, मूगापुरि ।
 ३२० राजपूत, प्रबाखउ, राय, कीयउ ।
 ३२१ धन पीता, मात्र = पिता पक्ष अजुआलउ आपणउ;
 धन धन ।
 ३२२ जिह > ज्यांरी, जग उपहरा हुआ तिणि ठामि ।
 ३२३ दीधउ भाट नइ घणउ ज मान, सामि, बहर ।
 ३२४ रामाइन, सांभलइ, होइ ।
 ३२५ त्रिण, हुआइ समइ, सातमि, दिनिकही दिनइ ।
 ३२६ रंजिनी, युगि, काया, सुणतां ।

सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट के प्रकाशन

राजस्थान भारती (उच्चकोटि की शोध-पत्रिका)

भाग १ और ३, ८) प्रत्येक

भाग ४ से ७, ६) प्रति भाग

भाग २ (केवल एक अंक) २) रुपये

तैस्सितोरी विशेषांक—५) रुपये

पृथ्वीराज राठोड जयन्ती विशेषांक ५) रुपये

प्रकाशित ग्रन्थ

१; कलायण (ऋतुकाव्य) ३॥ २ बरसगाँठ (राजस्थानी कहानिया १॥)

३ आमै पटकी (राजस्थानी उपन्यास) २॥)

नए प्रकाशन

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| १, राजस्थानी व्याकरण | १३, सदयवत्सवीर प्रबन्ध |
| २, राजस्थान्ने गद्य का विकास | १४, जिनराजसूरि कृति कुसुमाजलि |
| ३, अचलदास खीचीरी वचनिका | १५, विनयचन्द कृति कुसुमाजलि |
| ४, हम्मीरायण | १६, जिनहर्ष ग्रन्थावली |
| ५, पद्मिणी चरित्र चौपाई | १७, धर्मवद्धन ग्रन्थावली |
| ६, दलपत विलास | १८, राजस्थानी दूहा |
| ७, डिगल गीत | १९, राजस्थानी बीर दूहा |
| ८, परमार वंश दर्पण | २०, राजस्थानी नीति दूहा |
| ९, हरि रस | २१, राजस्थानी ब्रत कथाएँ |
| १०, पीरदान लालस ग्रन्थावली | २२, राजस्थानी प्रेम-कथाएँ |
| ११, महादेव पार्वती बेल | २३, चंदायण |
| १२, सीतारामजी चौपाई | २४, दम्पति विनोद |
| | २५, समयसुन्दर रासपचक |

पता :—सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानीर

विशेष नाम सूची

अदीनराज	५२, ५३, ५४	कोठारी	२७, २९
अलावदीन	७, १०, ११, १५, १८, ३६, ४६, ४७, ४८, ४९, ५१, ६३, ६५	कोल्ह	६
अलीखान	४५	खीम	६
अल्लुखान, उलुखाँ	५, ७, ८, ९, ११, १२, ६०, ६२	खेतल	६
अल्लू	१२	खेम भाट	६०, ६६
अहमद	१२	गजनौ, गजत्रणो	४७, ६२
आलफखान	१२	गवड	१९
आसङ	६	गाभरू	४, ९, ३५
ईडरउ	६३	गडिल	२०
उच	६३	गुहिलत्र	२०
ऊजेणि	१७	गोहिल	२०
उदैसी	६०	गोड	४७, ६३
कछवाहा	१९	गुजरात, गुजजरा	१८, ४०, ४६, ६३
कर्णचालुवय	१८, ६३	चत्रकोट	४६
कनडा	२१	चंदेल	२०
करमदी	८	चल्लू	१२
कालू मलिक	५	चहुभाणा,	१, २, ४, ५, ७, ८, ९
काफर	११	चहुयाणा	१४, १५, १६,
कुर्कट	२१	चोहवाण	१८, २०, २५, २८,
केलउ	७	चहुबाण	३०, ३१, ३२, ३६, ४७, ५१, ६०, ६२
		चीत्रोड	६३
		चोल	४०

छाहड़ दे	४७	तिलग	६२, ६३
छाजल	३९, ४०	तुवर	१९
छयतिग दे, जैनसी २, ८, ६०, ६६		तेजसी	६
ज़लालदीन	१८	तोल्हण	६
साफरखान	११	शट्टा	४७, ६२
जाजा, जाजउ देवड़उ }	८, २८, ३१,	दाफर	१२
जाजमदेव (बड़गूजर) }	३२, ३३, ३४,	दाहिमा	१९
	३५, ३६, ४९,	दिल्ली	४४, ६१
	५४, ६१, ६४, ६५	देल्हण	६
जाल्ह (ण)	६,	देवड़उ	देखी-जाजउ देवड़उ
जिहर मलिक	१२	देवगिरि	१८, ४६, ४९, ६३, ६४
जैसिघ	५०	देवलदे	१७, २७
जैचन्द	६५	धरमसी	६
डाभिय	१९	धारू	१७, २४, ४५, ४८, ६१, ६३
डाडिय	१९	धांधउ	६
डाइउ	६	धीरू	६
डोडीयभाण	१९	धूंथउ	६
ढिल्ली, ढोली ७, ११, १३, १४, २४,		नयणउ	७
	४०, ४८, ६२, ६३,	नरबद	७
ढोर सामद	४७	नरसी	७
ताजखान	११	नाल्ह	१६, ३४, ३५
तातरखान	१२	निकुंज	११

निरोज	११	महिमासाहि }	४, ६, ९, १०, २३,
निसरतखान	११, ६२	महिमसाहि }	२४, २८, ३६, ३२,
पद्मसी	६		३५, ३६, ४४, ५२,
परमार	२०	महमद	५३, ६३, १२
पातल	६	मांडव	१७
पाल्हण	६	मलघार	३७
पासङ्ग	६	मलभगिरि	४०
पीथल	६	महेसरी	३०
पुढिमराय	६४	माफर	११
पूनउ	६	मालव	४०
प्रमथउ	६	मुलतान	४७, ६३,
प्रोथीराज	४७	मुज	६५
बङ्गुजर	४४	मुकिआण	१९
बारहङ्ग	१९	मुगल	४४
बोडाणा	१९	मेरा	१९
बीजुलीखान	१२	मेलउ	७
बुँदी	३, २६, २७, ३६	मोमूमाहि	४४, ४६, ४८
भाड, मांडउ व्यास	१, ६, ७, १२,	मोल्हण, मोलन,	६, ६१, ६२
	१३, २०, २६, २८, ३३, ३७	मोल्हउ (भाट)	१६
भाटिय	१६	मुहिमद मीर	११
भीम	६	मल्लू	१२
भोजदेब	६५	बोगिनीपुर	५२
मडोवर	१८, ४६, ६३,		
मल्लकवि, माल	४५, ४७,		

रणथंभवर, रणथंभि, रणथंभोर	१, ४,	वीरमदे	२, ४, २७, २९, ३०, ३२,
रणथंभोरद्व,	७, ८, ९, १०, ११,		३३, ३४, ३५, ३६, ६०
रणथंभरि, रणस्तंभ	१३, १४, १५,	संभरि, सेंभर	५, ६, १०, १७, ३२,
	१८, २२, ३०, ३१,		४५, ६१
	३५, ४४, ४५, ४६,	संदा	१९
	४९, ५०, ५३, ६०,	सादठ	६
	६१, ६३, ६६	सिंघल	२०
रणमल, रिणमल	३, २५, २६, २७,	सुखानन्द माट	६६
	२६, ३४, ३६, ४७।	सोलंकी	२०
रठपाल, रायपाल	३, २५, २६, २७,	सवालाख	५, १७
	३६, ५४	लुबलिक	१२
रायमल्ल	५१, ५४	हबसी	२१
रामपाल	६५	हम्मोर, हम्मोरदे	१, ४, ५, ६, ७,
रुकबदीन	१२	हमीरि, हम्मोरां	८, ९, १०, १४, १५,
रामचंदि	२५	हम्मोर देव	१६, १७, १८, २१,
लखाउन	६६		२३, २६, २७, २८,
वस्तु	६		२९, ३०, ३१, ३२
वदा	१९		३४, ३५, ३६, ३७,
वाघेला	१९		३८, ३९, ४०, ४१,
वारू	१७, २४, ४५, ६१		४२, ४३, ४४, ४५,
विक्रम	६५		४६, ४७, ४८, ४९,
विजकीरति	३७		५०, ५१, ५३, ५४,
वीरम	६, ४४, ४७		५५, ६०, ६१, ६२,
वीसल	६		६३, ६४, ६५
वीलहण	६	हाजी काल	१२
वीरू	६	हांसल दे	३
बेलउ	७	हीरापुर	८
बैजल	५०		

शुद्धा-शुद्धि पत्र

दो शब्द :-

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६	८	हमर हठ	हमीर हठ
११	१६	एब	एवं
११	२०	उपर्युक्त	उपर्युक्त

भूमिका :-

४	४	हम्मीर पर	हम्मीर पर आक्रमण किया ।
५	१५	की	कि
७	६	रणभेत्र	रणक्षेत्र
७	१६	करन	करने
८	५	रोशनी डाली है,	रोशनी डाली है किन्तु
६	११	लें।ता	लें, तो
१०	२	अस्पस्ट	अस्पष्ट
१०	१५	इस्लीम	इस्लामी
१०	१७-१८	राज्य मार्ग	राज्य-मार्ग
१४	१३	पटान्तर	पटान्तर का
१५	३	दृष्टव्य	द्रष्टव्य
१५	१०	मारा	मारा तो
१८	१	छट्टा	छठा
२०	४	निश्चष्ट	निश्चेष्ट

२८	२१-२२	खाई सामान	खाई का सामान
२६	१	उस	इस
२६	२४	पूछा तो	पूछा तो अत्मार्यों ने
३३	६	चारां	चारों
३३	१३	रविवार था	रविवार थी
३३	१६	स्वामि	स्वामी
३६	२	प्रयोग	उपयोग
३६	२२	उसमें	उसे
३६	८	सेना विनाश	सेना का विनाश
३६	१३	हम्मीरायण	तो हम्मीरायण
३६	१६	में से	में से है,
४०	७	शम्भु	शम्भु,
४४	११	एक सा ।	एक सा है ।
४६	७	मूहम्मदशाह	मुहम्मद शाह
६२	१५	किन्तु हम्मीर	हम्मीर
८६	६	भी	भी है
८७	३	गणेशवन्दन	गणेशवन्दन से
८६	१४	अपूर्व युद्ध	अपूर्वयुद्ध के पश्चान्
६२	१०	व्य वहाँ	वह वहा
८८	४	अवतार की ।	अवतार लिया ।
१०४	६	बुद्धि:	बुद्धि
१०४	६	हेतीरिब	हेतोरिब
१०५	६	भटा: शतं	भटा शतं
१०४	१३	मुखापगा	मुखापगा
१०८	१२	आर्यावर्त	उसने आर्यावर्त

१११	१०	अमीर खुसरो	अमीर खुसरो ने
११७	१८	पराजित होके	पराजित हो कर
११६	२२	दृष्टव्य	द्रष्टव्य
१३४	११	उद्धरणादि	उद्धरणादि द्वारा हमने

हम्मीरायण :—

१३	१४	संभलि	संभलि
२८	१	मूं हउं,	मूं, हउं
२६	१७	मालावउ	म लावउ
३१	६	भूमिया	भूमिया
३२	२२	१८४	२८४
३४	६	मेलहइ	मेलहइ
३६	१८	कविला	कविता
४१	१४	हमीरा	हमीर रा
४३	१५	०र्गगन	०र्गगन
४३	१६	हन्मीर देव	हम्मीर देव
४५	१०	भटैः रगीकृतं	भटैरंगीकृतं
५७	१५	सौप	सौप
५८	२	लौटाना	लौटना
५६	१	सबसे पूर्व	सबसे पूर्व
५६	६	जिये	जिये
५६	१७	सर्वस्व	सर्वस्व
८०	१२	राजस्थानी	राजस्थानी
८०	अंतिम	सादूल	सादूल
८०	अंतिम	बीकानीर	बीकानेर



संख्या ३८१

नाम श्री. नरेश

पता श्री. देशमुख

श्री. चम्पूरायण

कम संख्या ४९५०

१. राधिका का